

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025—पौष 27, शक 1946

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

क्र. ई-1-255-2024-5-एक.—श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

क्र. ई-1-233-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2021 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के वरिष्ठ समय वेतनमान रूपये 67700—208700/- (पेमेट्रिक्स-11) में पदोन्त रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अर्थ जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट, जिला अलीराजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट, जिला अलीराजपुर

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

(1)	(2)	(3)
2.	सुश्री वैशाली जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हुजूर, जिला रीवा.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हुजूर, जिला रीवा
3.	श्री दिव्यांशु चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर
4.	श्री सृजन वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली जिला सिंगरौली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली जिला सिंगरौली
5.	सुश्री अर्चना कुमारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर, जिला शाजापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर, जिला शाजापुर
6.	श्री अरविन्द कुमार शाह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहडोल, जिला शहडोल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहडोल, जिला शहडोल
7.	श्री शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा, जिला खण्डवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा, जिला खण्डवा
8.	श्री टी. प्रतीक राव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी, जिला नर्मदापुरम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी, जिला नर्मदापुरम
9.	सुश्री अनीशा श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया, जिला नर्मदापुरम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया, जिला नर्मदापुरम

(2) यह पदोन्नति आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2025 से प्रभावशील होगा।

क्र. ई-1-235-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2011 के शेष 01 भाप्रसे अधिकारी तथा आवंटन वर्ष 2012 के निम्न भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 123100-215900/- (पे मेट्रिक्स-13) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री नीरज कुमार सिंह (2012), कलेक्टर, जिला उज्जैन.	कलेक्टर, जिला उज्जैन	—
3.	डॉ. पंकज जैन (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन, विकास निगम, भोपाल तथा सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल तथा सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4.	सुश्री निधि निवेदिता (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5.	श्री रोहित सिंह, (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	—
6.	श्री स्वरोचिष सोमवंशी (2012), कलेक्टर, जिला सीधी.	कलेक्टर, जिला सीधी.	—
7.	श्री प्रवीण सिंह अढायच (2012), कलेक्टर, जिला सीहोर.	कलेक्टर, जिला सीहोर.	—
8.	श्री अनुराग वर्मा (2012), कलेक्टर, जिला सतना.	कलेक्टर, जिला सतना.	—
9.	सुश्री प्रतिभा पाल (2012), कलेक्टर, जिला रीवा.	कलेक्टर, जिला रीवा.	—
10.	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास (2012), कलेक्टर, जिला बड़वानी.	कलेक्टर, जिला बड़वानी.	—
11.	श्री राजीव रंजन मीना (2012), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त- सह-संचालक, संस्थागत वित्त	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
12.	श्री दीपक आर्य (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	श्रीमती हर्षिका सिंह (2012), संचालक, कौशल विकास तथा आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक, कौशल विकास तथा आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
14.	श्री आशीष भार्गव (2012), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	—
15.	श्री अवधेश शर्मा (2012), कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.	कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.	—
16.	श्री कुमार पुरुषोत्तम (2012), प्रबंध संचालक, कृषि विषयन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी, भोपाल.	प्रबंध संचालक, कृषि विषयन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
17.	श्री सुभाष कुमार द्विवेदी, (2012) कलेक्टर, जिला अशोकनगर.	कलेक्टर, जिला अशोकनगर.	—
18.	श्री रत्नाकर झा (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
19.	श्री धरणेन्द्र कुमार जैन (2012), कलेक्टर, जिला उमरिया.	कलेक्टर, जिला उमरिया.	—
20.	श्री कृष्णदेव त्रिपाठी, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल.	—
21.	श्री अरविन्द कुमार दुबे (2012), कलेक्टर, जिला रायसेन.	कलेक्टर, जिला रायसेन.	—
22.	श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012), कलेक्टर, जिला बैतूल.	कलेक्टर, जिला बैतूल.	—
23.	श्री केदार सिंह (2012), कलेक्टर, जिला शहडोल.	कलेक्टर, जिला शहडोल.	—
24.	श्री राजेश बाथम (2012), कलेक्टर, जिला रत्लाम.	कलेक्टर, जिला रत्लाम.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	श्री दिनेश कुमार मर्या (2012), वि.क.अ.-सह-नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	वि.क.अ.-सह-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
26.	श्री विवेक श्रोत्रिय (2012), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	—
27.	श्री राजेश कुमार ओगरे (2012), सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	—
28.	श्री अरुण कुमार परमार (2012), उपसचिव, मुख्यमंत्री.	अपर सचिव, मुख्यमंत्री.	—
29.	श्रीमती भारती जाटव ओगरे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. खनिज साधन विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	—

(2) यह पदोन्नति आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2025 से प्रभावशील होगा।

क्र. ई-1-237-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2009 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रूपये 1,44,200-2,18,200/- (पे मेट्रिक्स-14) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती प्रियंका दास, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग.	—
2.	श्री अविनाश लवानिया, अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सङ्केत विकास निगम भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सङ्केत विकास निगम भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्रीमती सूफिया फारुकी वली वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
4.	श्री अभिषेक सिंह सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	वि.क.अ.-सह-सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5.	श्री धनराजू एस. वि.क.अ.-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
6.	श्री इलैया राजा टी. अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम, भोपाल एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
7.	श्रीमती प्रीति मैथिल अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-अपर संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (अतिरिक्त (प्रभार).	—
8.	श्री अजय गुप्ता संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.	संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.	सचिव मध्यप्रदेश शासन.
9.	श्री अमित तोमर, पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर सचिव, कार्मिक, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल तथा सचिव, 'कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	श्री श्रीकांत बनोठ वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल.	आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल.	—
11.	श्रीमती शैलबाला अंजना मार्टिन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	—
12.	श्रीमती वंदना वैद्य अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
13.	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव वि.क.अ.-सह-प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	—
14.	श्री प्रबल सिपाहा सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर.	वि.क.अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
15.	श्री सतेन्द्र सिंह कलेक्टर, गुना.	कलेक्टर, जिला गुना (पद का उन्नयन दिनांक 01-01-2025 से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण).
16.	श्री मनीष सिंह अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों में से तालिका के सरल क्रमांक-5 पर अंकित श्री धनराजू एस. को छोड़कर शेष भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे आगामी मिड कैरियर फेस-IV प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

(3) यह पदोन्नति आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2025 से प्रभावशील होगा।

क्र. ई-1-256-2024-5-एक.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2016 के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा 09 वर्ष की सेवापूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2025 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रूपये 78800-209200 (पे मेट्रिक्स-12) स्वीकृत किया जाता है :—

### तालिका

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री आशीष तिवारी	उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
2.	श्री सिद्धार्थ जैन	अपर कलेक्टर, जिला भोपाल
3.	श्री अंशुल गुप्ता	संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल तथा कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
4.	सुश्री जयति सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन
5.	श्री स्वप्निल जी. वानखड़े	अपर कलेक्टर, जिला सतना
6.	सुश्री प्रीति यादव	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर
7.	श्री किरोड़ी लाल मीना	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
8.	श्री गौरव बैनल	अपर कलेक्टर, जिला इंदौर
9.	श्री हरेन्द्र नारायण	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
10.	सुश्री मिशा सिंह	अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर
11.	श्री सुनील दुबे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड
12.	श्री राजेश कुमार जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर
13.	श्री प्रमोद कुमार शुक्ला	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
14.	श्री गजेन्द्र सिंह नागेश	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली
15.	श्री प्रताप नारायण यादव	प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल
16.	श्री अनुराग सक्सेना	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
17.	श्रीमती मलिका निगम नागर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।

(1)	(2)	(3)
18.	श्रीमती अजीजा सरशार जफर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
19.	श्रीमती सपना पंकज सोलंकी	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर
20.	श्रीमती मंजुषा विक्रांत राय	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
21.	श्रीमती संघमित्रा गौतम	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
22.	सुश्री संजना जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना
23.	श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).
24.	श्रीमती कीर्ति खुरासिया	उपसचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
25.	श्री जगदीश कुमार गोमे	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग.
26.	श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकरियों में से श्री आशीष तिवारी, भाप्रसे (2016) द्वारा दिनांक 02-12-2024 से 27-12-2024 तक मसूरी में आयोजित मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में भाग लिया गया है, अतः शेष 25 अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2025 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2025

फा. क्र. 5111-इक्कीस-ब (एक) 2024.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 15, तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु. क्र.	जिले का नाम	सारणी
(1)	(2)	(3)
“15.	हरदा	श्री जयदीप सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा।
49.	डिण्डोरी	श्री रविन्द्र गुप्ता, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी।”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 5111-XXI-(B-I)-2024.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013 dated 11<sup>th</sup> September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20<sup>th</sup> September 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 15 and 49 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"15.	Harda	Shri Jaideep Singh, Special Judge Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and 1 <sup>st</sup> Additional Session Judge, Harda.
49.	Dindori	Shri Ravindra Gupta, I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge, Dindori.”.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 12-इक्कीस-ब (एक) 2025.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-8-2012-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 4 एवं 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु. क्र.	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सारणी	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	
"4.	श्री राजेश कुमार तिवारी, बीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2 जबलपुर.		जबलपुर	राजस्व जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.
8.	श्री अभिषेक गोयल, तेइसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, इन्दौर.	इन्दौर		राजस्व जिला इंदौर, अलीराजपुर झाबुआ, खरगोन (पू. निमाड़) खण्डवा (पूर्वी निमाड़) बड़वानी एवं बुरहानपुर का समाविष्ट क्षेत्र.”.

F. No. 12-XXI-(B-I)-2025.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012-XXI-B (One), dated 2<sup>nd</sup> March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30<sup>th</sup> March, 2012, namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 4 and 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## TABLE

S. No.	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Shri Rajesh Kumar Tiwari, XX <sup>th</sup> District and Additional Sessions Judge and Presiding Judge, Special Court No. 2 Jabalpur.	Jabalpur	Area comprising of Revenue districts, Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Seoni, Mandla, Bajaghat Rewa, Singrauli Sidhi.
8.	Shri Abhishek Goyal, XXIII <sup>th</sup> District and Additional Sessions Judge Indore and Presiding Judge Special Court No. 2, Indore.	Indore	Area comprising of Revenue district Indore, Alirajpur, Jhabua, Khargone (west Nimar) Khandwa, (East Nimar) Barwani & Burhanpur.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025

फा. क्र. 18-इक्कीस-ब (एक) 2025.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब (एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“2.	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जोबट.	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट.”.

F. No. 18-XXI-(B-I)-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“2.	Shri Krishnpal Singh Sisodia, Civil Judge, Senior Division, Jobat.	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat.”.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2025

फा. क्र. 17-इक्कीस-ब (एक) 2025.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब (एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 53 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

अनु. क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“53.	श्री मनीष अनुरागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन.”.

F. No. 17-XXI-(B-I)-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 53 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name or Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“53.	Shri Manish Anuragi II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Raisen.	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen.”.

फा. क्र. 24-इक्कीस-ब (एक) 2025.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब (एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“52.	श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई.	पवई	पन्ना	पवई	पवई.”.

F. No. 24-XXI-(B-I)-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, namely :—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 52 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

### TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name or Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“52.	Smt. Himanshi Thakur Bhardwaj, Civil Judge Junior Division, Pawai.	Pawai	Panna	Pawai	Pawai”.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

फा. क्र. 78-इक्कीस-ब (एक) 2025.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब (एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 42, 76, 79 तथा 83 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनु. क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“42.	श्री दिलीप कुमार दुबे, आठवे व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कटनी.	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76.	सुश्री रुचि परते, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मझौली (सीधी)	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली
79.	श्रीमती सोनम वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (टीकमगढ़).	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
83.	श्री गजेन्द्र रावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, विदिशा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा।''.

F. No. 78-XXI-(B-I)-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 42, 76, 79 and 83 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name or Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“42.	Shri Dileep Kumar Dubey, VIII <sup>th</sup> Civil Judge Junior Division, Katni	Katni	Katni	Katni	Katni
76.	Sushri Ruchi Parte, Civil Judge Junior Division, Majholi (Sidhi).	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi
79.	Smt. Sonam Verma, II <sup>nd</sup> Civil Judge Senior Division, Niwari (Tikamgarh)	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
83.	Shri Gajendra Rawat II <sup>nd</sup> Additional Judge to the Court of I <sup>st</sup> Civil Judge Senior Division, Vidisha.	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. 42-2473140-2024-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती रजनी सिंह को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः “श्रमायुक्त” तथा “मुख्य सुलहकार” के रूप में नियुक्त करता है।

No. 42-2473140-2024-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 and Sub-section (1) of section 4 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all the previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, appoints Smt. Rajani Singh to be the “Commissioner of Labour” and “Chief Conciliator” respectively for the State of Madhya Pradesh.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2025

क्र. एफ 4 (बी) 1-2014-ए-16.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची भाग-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 2024 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

अधिनियम की अनुसूची भाग-1 में,—

1. अनुक्रमांक “36-किसी तैयार किए गए (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माण शाला में नियोजन” को विखण्डित कर, अनुक्रमांक 36 की कतिपय विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए, तत्पश्चात् नवीन अनुक्रमांक 36(क) “किसी टेक्सटाइल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन” जोड़ा जाए;
2. अनुक्रमांक “59-किसी होजियरी में नियोजन” को विखण्डित कर, अनुक्रमांक 59 की कतिपय विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए, तत्पश्चात् नवीन अनुक्रमांक 59(क) “किसी बुवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन” जोड़ा जाए;
3. अनुक्रमांक 72 के पश्चात् नवीन अनुक्रमांक 73- “फुट वियर निर्माण में नियोजन” अंतः स्थापित किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, अपर सचिव.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

क्र. एफ 1-11-0001-2024-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निर्मांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :—

### अनुसूची

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	म. प्र.	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	फसियाने की हवेली	555/1/3 अ	1.214	रामचरण तनय भुजबल लोधी इत्यादि.	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	म. प्र.	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	तोपची की हवेली	733/6	1.00	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
3	म. प्र.	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	सीतागढ़ी	455/1 ग	0.040	मध्यप्रदेश शासन वर्तमान संस्कृत महाविद्यालय लगता है.	नहीं
4	म. प्र.	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	पुरानी हवेली	469/3 अ	0.100/आरे	मध्यप्रदेश शासन	नहीं

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वर्णित स्मारक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग, भोपाल को मूल स्वरूप में यथावत् रखने की शर्त पर सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

क्र. एफ-1-12-0003-2024-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरुपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	चाहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक वा राजस्व वा धोत्र जो संरक्षण के अधीन है	धोत्रफल (हे. में)	रवागित्व	धार्मिक गूजा के अधीन है अथवा नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	विदिशा	गंजबासौदा	उदयपुर	उदय सागर तालाब	427	1.714	म. प्र. शासन	नहीं
म. प्र.	विदिशा	गंजबासौदा	उदयपुर	गणेश मंदिर	88	0.794	म. प्र. शासन	नहीं
म. प्र.	विदिशा	गंजबासौदा	उदयपुर	उदयपुर पहाड़ी किला	1288	16.575	म. प्र. शासन	नहीं
म. प्र.	विदिशा	गंजबासौदा	उदयपुर	बीजामण्डल (घड़ियालों का मकान)	800 801 802 803	0.011 0.021 0.010 0.021	म. प्र. शासन	मकान बने हैं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	विदिशा	गंजबासौदा	उदयपुर	सेरों की बनिया बावड़ी	1091	0.010	म. प्र. शासन	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उर्मिला शुक्ला, सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र. 1788-नामकरण समिति-2024.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र. 19-24-2019-एक-4, भोपाल दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों एवं स्थानीय सम्मानिय नागरिकों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं।

जिलास्तरीय समिति, जिला नीमच द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2024 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय चिकित्सालय मनासा, तहसील मनासा जिला नीमच का नामकरण “रामेश्वर मारु शासकीय चिकित्सालय मनासा” तहसील मनासा, जिला नीमच किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः शासकीय चिकित्सालय मनासा, तहसील मनासा, जिला नीमच का नामकरण “रामेश्वर मारु शासकीय चिकित्सालय मनासा” पढ़ा/लिखा जावे।

हिमांशु चन्द्रा, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

क्र. 7600-स.अ.(का.)-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक कुमार सक्सेना, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला जबलपुर, कैलेंडर वर्ष 2025 में जिला जबलपुर के लिये निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश की तारीख	दिन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गणेश चतुर्थी (गणेशोत्सव प्रारंभ)	27 अगस्त 2025	बुधवार	संपूर्ण जिला
2	दुर्गाष्टमी	30 सितम्बर 2025	मंगलवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	21 अक्टूबर 2025	मंगलवार	संपूर्ण जिला

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय /उप-कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा।

दीपक सक्सेना, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (व्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्र. 331-एस.सी.-2-2025.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, जिला राजगढ़, एतद्वारा वर्ष 2025 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नलिखित स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	दिनांक	दिन (वार)	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10 मार्च 2025	सोमवार	उर्स बाबा बादखशानी
2	19 मार्च 2025	बुधवार	रंगपंचमी
3	3 अक्टूबर 2025	शुक्रवार	दशहरा मिलन

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश

### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

**क्रमांक/PCCF/7/0194/2024-FLR-PCCF ::** भारतीय वन अधिनियम 1927 (क 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायें।

#### अनुसूची

जिला - विदिशा

तहसील - गुलाबगंज

वनपट्टल- विदिशा

वन परिषेत्र -विदिशा

क्र.	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वन खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1.	सिमरहार	सिमरहार	शासकीय भूमि	155/1	19.000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।  पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से संरक्षित वनखण्ड सुआखेड़ी ए के मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा व संरक्षित वनखण्ड सुआखेड़ी ए मुनारा क्र. 8 से 7 तक की वन सीमा।  दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड सुआखेड़ी ए के मुनारा क्र. 7 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।  पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिली के आदेश क्रमांक एफ.-8-26/59 दिनांक 16/09/2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग (आवेदक विभाग/ संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना- सगड मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित क्षेत्र-388.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम सिमरहार वर्तमान तहसील गुलाबगंज (पूर्व तहसील नाम ग्यारासपुर) की शासकीय भूमि के सर्वे क्रमांक 155 रकवा- 20.790 हैक्टर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा क्रमांक 155/1, रकवा 19.000 हेक्टर को क्षतिपूर्ती

वनोकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदेश के आदेश क्रमांक प्र.क्र/51/अ-19/2006-07 दिनांक 16/08/2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

## 2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार - गुलाबगंज के प्रतिवेदन क्रमांक 499/2020-21 दिनांक 03/11/2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

### 1. व्यतिगत अधिकार : निरंक

### 2- सामुदायिक अधिकार : निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र.-24-2025-दस-(FOR).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-24-2025-दस-(FOR), दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 13<sup>th</sup> January 2025

No./PCCF/7/0194/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

## SCHEDULE

District : - Vidisha

Tahsil : - Gulabganj

Forest Division: - Vidisha

Forest Range : - Vidisha

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Simarhar	Simarhar	Government Land	155/1	19.000	North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 9 to 1 of the proposed protected forest block.

1	2	3	4	5	6	7
						East- Artificial Forest boundary from Pillar No 1 of the proposed protected forest block to Pillar No. 8 of the protected forest block Suakhedi A and forest boundary from Pillar No. 8 to 7 of the protected forest block Suakhedi A .
						South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 7 of the protected forest block Suakhedi A to Pillar No. 6 of the proposed protected forest block .
						West- Artificial Forest boundary from Pillar No. 6 to 9 of the proposed protected forest block.
			Total	19.000		

## (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No.8-26/59 Dated 16/09/2008 and in lieu of Irrigation Department Area -388.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sagad Medium Irrigation Project (Name of Project) of Irrigation Department (Name of User Department/ Agency/Person), Survey No 155 of Government Land of Village Simarhar Tehsil Gulabganj (Earlier Tahsil name Gyaraspur) Rakwa – 20.790 hechtare out of Non Forest land. The above mentioned Non Forest Land Khasra No 155/1,Area 19.000 hectare transferred or muted in favour of M.P.Government forest Department by District Collector Vidisha order N0.-51/A-19/2006-07 / Dated 16/08/2007 of Allotment for the purpose compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - NIL

## (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 499/2020-21 dated 13/11/2020 of Thasiildar (Gulabganj) are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights – Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer On Special Duty.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

**क्रमांक/क्रमांक:** 38/2025/PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायें।

**अनुसूची**

**जिला-सतना**  
**वनमंडल-सतना**

**तहसील-उच्चेरा**  
**वन परिष्क्रमा-उच्चेरा**

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	उरझेचुवा-1	उरझेचुवा	राजस्व भूमि	2	5.331	उत्तर- सरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 34 एवं 35 के मध्य स्थित प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 एवं सरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 32 एवं 33 के मध्य स्थित प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की वन सीमा।
					3	1.520
					4	पूर्व- सरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 33 से 32 के मध्य स्थित प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।
					5	दक्षिण- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।
					6	पश्चिम- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से सरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 34 से 35 के मध्य स्थित प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 तक की कृत्रिम वन सीमा।
					योग	29.574

(क) आधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/6-MPB 076/2020-BHO दिनांक 01.07.2021, 6- MPB 07/2020-BHO/424 दिनांक 28.05.2020, 6-MPC 008/2020-BHO/999 दिनांक 26.11.2020, 6-MPB 027/2022-BHO दिनांक 15.04.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वनमण्डल सतना के वन परिष्क्रमा अमरपाटन, मुकुन्दपुर, मैहर, सतना में प्रभावित 4.013, 3.1352, 10.515, 5.252 हेक्टेयर व्यपवर्तित वनभूमि कुल 22.9152 हेक्टेयर की स्वीकृति परियोजना महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादा परियोजना क्रियान्वयन इकाइ सतना (सतना-बांणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना)

के एवज में अनुसूची में वर्णित 29.574 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति बनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक प्र0क्र0/194/ अ19(3) /2019-20 दिनांक 03.03.2020 एवं पृष्ठांकन क्रमांक/684/चार0आर0/2020 दिनांक 03.03.2020 से हस्तातिरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन क्रमांक 684/ चार0आर0/2020 दिनांक 03.03.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं-

1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र.-38-2025-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. -38-2025-PCCF, दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 13<sup>th</sup> January 2025

No./क्रमांक: 38/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

**SCHEDULE**

District :- Satna

Forest Division: - Satna

Tehsil- Unchahara  
Range- Unchahara

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Uraichua-1	Uraichua	Revenue Land	2	5.331	North- Forest boundary from Pillar No. 13 of proposed forest block, which is situated between pillar no. 34 and 35 of the protected forest block Dhania to Pillar No. 1 of the proposed protected forest block, which is situated between pillar no. 32 and 33 of the protected forest block Dhania.
				3	1.520	
				4	5.352	
				5	13.754	East- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 of the proposed protected forest block, which is

					situated between pillar no. 32 and 33 of the protected forest block Dhania to pillar no. 3 of the proposed protected forest block.
					South - Artificial forest boundary from Pillar 5 of the proposed protected forest block.
					west - Artificial forest boundary from pillar No. 5 of the proposed protected forest block to pillar No.
					13 of the proposed protected forest block, which is situated between pillar no. 34 and 35 of the protected forest block Dhania.
6	3.617				
<b>Total</b>	<b>29.574</b>				

## (A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Govt. of India. Ministry of Environment and Forest and Climate Chang Letter No 6-MPB 076/2020-BHO dated 01-07-2021, 6-MPB 07/2020-BHO Date 30-10-2020, 6-MPC 008/2020-BHO/999 Date 26-11-2020, 6-MPB 027/2022-BHO Date 14-04-2024 and in lieu of 4.013, 3.1352, 10.515, 5.252 hectare total 22.9152 ha. of affected forest land under the sanctioned project of Satna-Bansagar Grameen Samooh Jal praday Yojana of General Manager M.P. Jal Nigam, Satna, the above mentioned Non Forest Land of 29.574 Hectare transferred or muted in favor of Government of Madhya Pradesh, Forest Department by order No - 194/A19(3)/2019-20 dated 03-03-2020 and copy No. 684/Char.AAR. Dated 03-03-2020 of Collector Satna for the purpose of compensatory afforestation.

## 2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No 684 dated 03-03-2020 Of Collector Satna are as under.

1. Individual Rights- Nil
2. Community Rights- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer On Special Duty.

मोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्रमांक/क्रमांक: 144/2024/PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एवं द्वारा यह घोषित करता है कि:-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि, जो N- 21° 59' 33.974" से N- 21° 59' 42.080" तक उत्तर अक्षांश तथा E- 75° 17' 30.950" से E- 75° 17' 45.453" तक पूर्व देशान्तर के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

## अनुसूची

जिला - बड़वानी

तहसील - ठीकरी

वनमण्डल - बड़वानी

वन परिषेत - राजपुर

क्र.प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी ठलका क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	केन्द्रफल हेक्टेयर	यादि राजस्व भूमि हैं तो उसका मट	यादि संरक्षित बन हैं तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशित का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 बघाडी-	14	बघाडी/ संरक्षित वनखण्ड बघाडी	-	632/214.675	-	244/आर- 1733136- 2023-10-3 दिनांक 29.01.2024	09.02.24	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र.06 से 12 तक कृत्रिम वन सीमा,  पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र.12 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा,  दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र.13 से 15 तक कृत्रिम वन सीमा,  पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र.15 से 01 से 05 एवं 06 तक कृत्रिम वन सीमा
				01	4.675			
	योग							

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्र.-144-2024-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-144-2024-PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> December 2025

No./क्रमांक: 144/2024/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

- A. Declares that it has been decided to constitute the protected forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Lie between N 21° 59' 33.974" to N 21° 59' 42.080" North Latitude and E 75° 17' 30.950" to E 75° 17' 45.453" East Longitude.
- B. Appoints Sub-Divisional Officer (revenue), Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

#### SCHEDULE

District - BARWANI  
Tehsil - Thikri

Forest Division - BARWANI  
Forest Range - RAJPUR

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land Its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries												
				Old	New						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Baghadi- III	14	Baghadi / PF Block Baghadi	-	632/21	4.675	-	244/R-1733136-2023-10-3 Dated 29-01-2024	09-02-24	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 12 of Protected Forest Block.  East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 13 of Protected Forest Block.  South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 15 of Protected Forest Block.  West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 01 to 05 & 06 of Protected Forest Block.	Total:-											
						4.675																

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer On Special Duty.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
प्रकारण क्रमांक 852—भू—अर्जन—2024

धार, दिनांक 18 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बाल का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम निसरपुर की आबादी में स्थित डूब प्रभावित मकानों का अर्जन किया जाना है। जिसका भूमि स्वामी एवं मकान का क्षेत्रफल विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है।

अतः मकानों का अर्जन अंतर्गत धारा—11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा—11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की मकानों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम निसरपुर, तहसील—कुक्की, जिला—धार

स.क्रं.	विवरण	डूब प्रभावित आबादी भूमि का विवरण जिसमें मकान निर्मित है	
		सर्वे क्रं.	कुल रकमा
1	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित मकानों का अर्जन बाबद।	236/1	14.083
		कुल	<b>14.083</b>

### अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम निसरपुर में डूब प्रभावित मकानों का विवरण

स.क्रं.	मकान मालिक का नाम व पिता का नाम	मकान का कुल क्षेत्रफल	रिमार्क
1	अरुण कुमार पिता स्व. रखबदास कोठारी, निवासी निसरपुर, तहसील—कुक्की, जिला—धार	81.45 वर्गमीटर	
2	प्रवीण कुमार पिता स्व. रखबदास कोठारी, निवासी निसरपुर, तहसील—कुक्की, जिला—धार	128.40 वर्गमीटर	
3	मांगीलाल उर्फ महेन्द्र कुमार पिता स्व. रखबदास कोठारी, निवासी निसरपुर, तहसील—कुक्की, जिला—धार	159.29 वर्गमीटर	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2023-24 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-01 में दिनांक 08.09.2024 को कराया गया था। धारा-21 की कार्यवाही के दौरान प्राप्त आपत्ति के निराकरण में रेलवे विभाग की ओर से वांछित अभिमत विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अवार्ड नियम अवधि में पारित नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है :—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल हें.में.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
राजगढ़	राजगढ़	हाथीकुमारा	0.770	मोहनपुरा परियोजना से प्रभावित भूमि

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

**क्रमांक 705—भू—अर्जन—2023**

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम अरन्या में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम—अरन्या

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम—अरन्या की भूमि की आवश्यकता।	2.037	0.430
कुल योग :-		2.037	0.430

—: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	हेमन्त, गोवधनलाल पिता दोलतराम जाति कोली नि.ग्रा.भू.	5	1.012	0.007
	योग:-	1	1.012	0.007
2	दयाराम पिता बंशीलाल जाति गुजर नि.ग्रा.भू.	10/1/1	0.519	0.115
	योग:-	1	0.519	0.115
3	मुकेश पिता बापूलाल जाति गुजर नि.ग्रा.भू.	10/1/2	0.253	0.120
	योग:-	1	0.253	0.120

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
4	रूपसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर नि.ग्रा. भू	10/1/3	0.253	0.188
	योग:-	1	0.253	0.188
	कुलयोग:-	कुलकिता-4	2.037	0.430

क्रमांक 707—भू—अर्जन—2023

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम बंजारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : व्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम—बंजारी

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम—बंजारी की भूमि की आवश्यकता।	0.949	0.355
	कुल योग :-	0.949	0.355

## —: अनुसूची ( 2 ) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	रामराज पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.सुल्तानपुरा	564/3/1	0.259	0.080
	योग:-	1	0.259	0.080
2	राजेश कुमार पिता शिनारायण जाति सौंधिया नि.ग्रा.झूंगरपुरा	566/1/1/1	0.118	0.050
	योग:-	1	0.118	0.050
3	राजेश कुमार पिता शिनारायण जाति सौंधिया नि.ग्रा.झूंगरपुरा	566/2/1	0.209	0.025
	योग:-	1	0.209	0.025
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
4	राजेश कुमार पिता शिनारायण जाति सौंधिया नि.ग्रा.झूंगरपुरा	566/4	0.363	0.200
	योग:-	1	0.363	0.200
	कुलयोग:-	कुलकिता-4	0.949	0.355

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
प्र. क्र. 8499-भू-अर्जन-2024**

धार, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भजिया जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहाँ तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम :- भजिया प.ह.नं. :- 91 रा.नि.मं. :- लखनादौन तहसील :- लखनादौन जिला :- सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 4.87 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कमांक	प्रक्रिया का प्रकार	प्रक्रिया का क्रमांक	उड्डयन का अनुप्रयोग	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उड्डयन	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30/1	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.31	सरस्वतीबाई बेवा धरमू जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता	नाला	धीरेन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	अमरसिं ह पि. धरमू की भूमि	-	-	-	-
2	30/2	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.60	दसरा पुत्र धरमू जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता	नाला	रंगीलाल पि. परमू की भूमि	धीरेन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	-	-	-	-
3	33/2/1	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.20		नाला	शासकी य वन	धीरेन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	धीरेन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	-	-	-	-
4	33/1	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.10	उर्मिलाबाई पल्ली धीरेन्द्रकु मार जाति ढीमर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	उर्मिलाबाई पल्ली धीरेन्द्रकु मार जाति ढीमर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकी य वन	रम्मो पि. सुमरन की भूमि	धीरेन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि %.	-	-	-	-
5	30/3	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.40	धीरेन्द्रकु मार पुत्र धरमू जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता	नाला	दसरा पि. धरमू की भूमि	सरस्वती बेवा धरमू की भूमि	-	-	-	-
6	33/3	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.05		धीरेन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	शासकी य वन	उर्मिला पि. धीरेन्द्रकु मार की भूमि	दसरा पि. धरमू की भूमि	-	-	-	-
7	33/2/2	भूमि स्वीकृति	कृषि	0.74		नाला	शासकी य वन	दसरा पि. धरमू की भूमि	उत्तमसिं ह पि. धरमू की भूमि	-	-	-	-

8	30/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.60	उत्तमसिंह पुत्र धरमू जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता	नाला	धीरन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	सरस्वती बेवा धरमू की भूमि	-	-	-	-	
9	33/2/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.75		नाला	शासकी य वन	धीरन्द्रकु मार पि. धरमू की भूमि	शिवला ल पि. रामदीन की भूमि	-	-	-	-	
10	34/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अन्नीलाल पिता सुमरन जाति ढीमर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अन्नीला ल पि. सुमरन की शेष भूमि	अन्नीला ल पि. सुमरन की शेष भूमि	राजकुमा री पि. सुमरन की भूमि	इतिया पि. सुमरन की भूमि	-	-	-	-	
11	34/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	इतिया पिता सुमरन जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	इतिया पि. सुमरन की शेष भूमि	इतिया पि. सुमरन की शेष भूमि	अन्नीला ल पि. सुमरन की भूमि	राधा पि. सुमरन की भूमि	-	-	-	-	
12	34/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	राधा पिता सुमरन जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	राधा पि. सुमरन की शेष भूमि	राधा पि. सुमरन की शेष भूमि	इतिया पि. सुमरन की भूमि	जगदीश पि. मकुन्दी की भूमि	-	-	-	-	
13	34/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	जगदीश गोविन्द शांति मालती पिता मकुन्दी जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	जगदीश पि. मकुन्दी की भूमि	शासकी य वन	राधा पि. सुमरन की भूमि	राधा पि. सुमरन की भूमि	उर्मिलाब ई पि. धीरन्द्रकु मार की भूमि	-	-	-	-
14	34/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	राजकुमारी पिता सुमरन जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता	राजकुमा री पि. सुमरन की भूमि	राजकुमा री पि. सुमरन की भूमि	अन्नीला ल पि. सुमरन की भूमि	-	-	-	-	
15	21/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	कौशलकिशोर सीताबाई पिता धनीराम दोपतीबाई बेवा धनीराम जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कौशलकि शोर पि. धनीराम की शेष भूमि	रास्ता	कमल पि. झोले की भूमि	कमल पि. झोले की भूमि	कौशलकि शोर पि. धनीराम की शेष भूमि	-	-	-	-
16	21/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	कमल पुत्र झोले जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कमल पि. झोले की शेष भूमि	रास्ता	बसन्तकु मार पि. भुवनलाल की शेष भूमि	बसन्तकु मार पि. भुवनलाल की शेष भूमि	कौशलकि शोर पि. धनीराम की भूमि	-	-	-	-
17	21/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	बसन्तकुमार पुत्र भुवनलाल जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बसन्तकु मार पि. भुवनलाल की शेष भूमि	रास्ता	बसन्तकु मार पि. भुवनलाल की शेष भूमि	बसन्तकु मार पि. भुवनलाल की शेष भूमि	कमल पि. झोले की भूमि	-	-	-	-
18	57/4/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सोनसिंग पिता तेजीलाल जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रास्ता	सोनसिंग पि. तेजीलाल की शेष भूमि	तीतो बेवा मकौदी की भूमि	तीतो बेवा मकौदी की भूमि	नहेवीर पि. रामचरण की भूमि	-	-	-	-
19	57/4/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सुखेन्द्र सुखमनी पिता चंदरसिंह जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	तीतो बेवा मकौदी की शेष भूमि	तीतो बेवा मकौदी की शेष भूमि	सोनसिंग पि. तेजीलाल की भूमि	सोनसिंग पि. तेजीलाल की भूमि	सुकरती पि. विरद्ध की भूमि	-	-	-	-
20	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सुकरती सोनवती पिता विरद्ध जगोती बेवा रामू रूपलाल रूपसिंह रामकुमारी पिता रामू जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकरती पि. विरद्ध की शेष भूमि	संदीप पि. केवलप्र साद की भूमि	कलावती बेवा रामदास की भूमि	तीतो बेवा मकौदी की भूमि	-	-	-	-	-

21	59	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.04	कलावती बेवा रामदास जाति अग्रवाल नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कलावती बेवा रामदास की शेष भूमि	जमनाबा ई पि. रूपसिंग की भूमि	सुकरती पि. विरचू की भूमि	कलावती बेवा रामदास की शेष भूमि	-	-	-	-
22	62/2	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.15	जमनाबाई पत्नी रूपसिंग जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कलावती बेवा रामदास की भूमि	रूपसिंह पि. मंगलसिंह की भूमि	मिहीला ल पि. लखनसिंग की भूमि	जमनाबा ई पि. रूपसिंग की शेष भूमि	-	-	-	-
23	62/1	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.02	रूपसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	जमनाबा ई पि. रूपसिंग की भूमि	रूपसिंह पि. मंगलसिंह की भूमि	कलीराम पि. रच्छू की भूमि	रूपसिंह पि. मंगलसिंह की शेष भूमि	-	-	-	-
24	63/2	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.07	कलीराम रिक्खीराम रामबाई रामकली पिता रच्छू जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रूपसिंह पि. मंगलसिंह की भूमि	कलीराम पि. रच्छू की भूमि	रूपसिंह पि. मंगलसिंह की भूमि	धनसिंह पि. बब्म की भूमि	-	-	-	-
25	76/1	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.03	धनसिंह पुत्र बब्म जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	धनसिंह पि. बब्म की शेष भूमि	खुमराम पि. कुटटन की भूमि	राजकुमा र पि. धनसिंह की भूमि	कलीराम पि. रच्छू की भूमि	-	-	-	-
26	76/2	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.02	राजकुमार पिता धनसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	राजकुमार पि. धनसिंह की शेष भूमि	खुमराम पि. कुटटन की भूमि	सुरेश कुमार पि. धनसिंह की भूमि	धनसिंह पि. बब्म की भूमि	-	-	-	-
27	76/3	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.02	सुरेशकुमार पिता धनसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुरेश कुमार पि. धनसिंह की भूमि	खुमराम पि. कुटटन की भूमि	ज्ञामसिंह पि. धनसिंह की शेष भूमि	राजकुमा र पि. धनसिंह की भूमि	-	-	-	-
28	76/4	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.04	ज्ञामसिंह पिता धनसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ज्ञामसिंह पि. धनसिंह की भूमि	नंदकिशा र पि. हरिओम की भूमि	हुकुम सिंह पि. धनसिंह की भूमि	सुरेश कुमार पि. धनसिंह की भूमि	-	-	-	-
29	76/5	भूमिस्वामी	कृष्ण	0.04	हुकुम सिंह पिता धनसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	हुकुम सिंह पि. धनसिंह की शेष भूमि	नंदकिशा र पि. हरिओम की भूमि	हुकुम सिंह पि. धनसिंह की शेष भूमि	ज्ञामसिंह पि. धनसिंह की भूमि	-	-	-	-
योग	29			4.87						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यालयन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य / विक्य आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

प्र. क्र. 8500—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की धूपघटा जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र रिप्ल एवं प्रपोच चैनल निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा — 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा — 6 के अंतर्गत सिवाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम का नाम :- जमुआ प.ह.नं. :- 64 सानि.मं. :- आदेगांव तहसील :- लखनादौन जिला :- सिवनी

2. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 1.53 हेक्टेयर

संक्र.	सर्वेक्षण कमांक	प्रकार क्रमिति का भूमि	प्रकार का भूमि	अधीन अर्जन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरधन	
						उट	कुल	भूमि	प्रक्रिया	क्रांति	संख्या	प्रकार	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
1	92/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.38	रोशनलाल पिता डोरीलाल जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	रोशनलाल पि. डोरीलाल की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	तिहारी पि. घरमसिंह बगैरह की भूमि	—	—	—	—
2	112/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	लच्छी पिता चैतु जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कोहप पि. काशीराम की भूमि	लच्छी की शेष भूमि	कोहप पि. काशीराम की भूमि	शासकीय रास्ता	—	—	—	—
3	111/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.74	कोहपसिंह पिता काशीराम जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय चंरनोई	कोहप पि. काशीराम की शेष भूमि	कोहप पि. काशीराम की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	—	—	—	—
4	31	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	शंकर पिता नन्हा जाति चमार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	महेश पि. गंगा की भूमि	शंकर पि. नन्हा की शेष भूमि	शंकर पि. नन्हा की शेष भूमि	खिल्लो बगैरह पि. मोहनलाल बगैरह की भूमि	—	—	—	—

5	7/5	₹ ५००	₹ १००	0.36	मानक पिता गंगा जाति चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शासकी य चरनोई	मानक पि. गंगा की शेष भूमि	मानक पि. गंगा की शेष भूमि	महेश पि. गंगा की भूमि	-	-	-	-
योग	5			1.53						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जाएं सकते।

प्र. क्र. 85—भू—अर्जन—2024

सिवनी, दिनांक 6 जनवरी 2025

प्रकरण क्रमांक 04 / अ-82 / 2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(भ/स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम ठरका पटवारी हल्का नं. 13 रा.नि.म. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.44 हैं भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अर्जन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

**प्रारूप — ख**  
**(नियम 5)**  
**सामाजिक समाधात रिपोर्ट**

1	परियोजना का नाम	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
2	लोक प्रयोजन	मार्ग निर्माण
3	स्थान	ग्राम – ठरका प0ह0नं० 13 रा.नि.म. – बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि – 0.44 हैं।
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गडडे एवं चौड़ाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। अतः मार्ग निर्माण चौड़ीकरण किये जाने हेतु रोड के किनारे – किनारे / नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग(भ./स.) संभाग क्रमांक 1 सिवनी के द्वारा सी.आर.आई.एफ. योजना में किया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।

8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम - ठरका प0ह0न0 13 रा.नि.म. - बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.44 हैं।
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाइन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(g) के अनुसार	थनरंक
12	परिसंपत्तियां	कच्चा मकान 06
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	(क) समाजिक समाधात् (ख) समाधातों का विवरण	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, धनि शोर, खाली भूमि
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमान्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासियों को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रों को वाहन सुविधा मिलेगी। बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय-नास्ता स्टाल, वाहन गैरेज, कृषि बिक्री केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते हैं जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेंगे। लोगों को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में परेशानी नहीं होगी। अतः परियोजना लाभदायक है। -
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी। अतः सामाजिक समाधात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है।

## प्रारूप - ग

(नियम 5)

## सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

## निम्नलिखित समाधातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं

7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और इमशान कंस्ट्रक्शन)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधान निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाधान निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संस्कृति जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
प्र. क्र. 0113—अ—82—2023—24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि/भवन/परिसंपत्तियों के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित आवादी भूमि पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि/भवन/परिसंपत्तियों का वर्णन

(क) जिला- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- ढोडन

(ख) तहसील- सट्टई

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10978.895 वर्ग मी.में

क्र	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
1	मिही लाल तनय मोना कोंदर	37	डबल कच्चा कवेलू/चिली-1	47.25	-
2	गोरेलाल कोंदर तनय हल्कईया	111/251	कच्चा कवेलू/ गूंजा-1, सिरसा-1 दुकान	58.4 2.25	-
3	जीवन पिता गोरेलाल कोंदर	111/251	कच्चा कवेलू	30.36	-
4	अनारी तनय बालकिशन आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	50.16	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
5	बिंदु कॉंटर तनय मोना	38/1	कच्चा कवेलू/चिली-1	40	-
			कच्चा कवेलू	24	
			डबल कच्चा कवेलू	22.4	
			कच्चा कवेलू	24.75	
6	रामाधीन यादव तनय बूचा	111/251	डबल कच्चा कवेलू/अमरुद-1	44.165	-
7	मूलचंद यादव तनय बूचा	111/251	डबल कच्चा कवेलू/ नीबू-1	44.165	-
8	गणेशी यादव तनय मूलचंद	111/251	कच्चा कवेलू	27.3	-
			कच्चा कवेलू	34.65	
			कच्चा कवेलू	34.65	-
9	नारायण यादव तनय मूलचंद	111/251	कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	38.75	-
			कच्चा कवेलू	22.44	-
10	मेदा बाई बेबा जहारी यादव	38/1	टीनशेड	20.4	-
11	ज्ञानासेह यादव तनय हरीराम यादव	38/1	कच्चा कवेलू	44.72	-
			कच्चा कवेलू	51	-
12	डिल्लू तनय कलुवा यादव	111/251	टीनशेड	22.4	-
13	अनिल कुमार तनय मधुरा प्रसाद अवस्था	38/1	कच्चा कवेलू	12.5	-
14	अंकित कुमार तनय अनिल कुमार अवस्था	38/1	कच्चा कवेलू	12.5	-
15	रामस्वरूप तनय रामचरण यादव	38/1	कच्चा कवेलू	18.245	-
16	भरत यादव तनय रामस्वरूप	38/1	कच्चा कवेलू	22.55	-
			कच्चा कवेलू	18.245	-
			कच्चा कवेलू	33.88	-
17	जगदीश यादव तनय रामचरण यादव	38/1	कच्चा कवेलू	15.5	-
18	अशोक तनय रामचरण यादव	38/1	कच्चा कवेलू	24.805	-
19	रामसिंह यादव तनय जगदीश यादव	38/1	कच्चा कवेलू	38.35	-
20	हीरालाल तनय अच्छे लाल कॉंटर	38/1	कच्चा कवेलू	23.6	-
			मोंटिर	4	-
			कच्चा कवेलू	18.36	-
21	मंतु यादव तनय हलकईया यादव	38/1	कच्चा कवेलू	21.6	-
			कच्चा कवेलू	36.1	-
			कच्चा कवेलू	21.75	-
			कच्चा कवेलू	88.33	-
			डबल कच्चा कवेलू	21.7	-
			कच्चा कवेलू	50.84	-
22	भगवानदास तनय रतोराम यादव	38/1	कच्चा कवेलू	42.09	-
23	जोवनलाल तनय संतोष यादव	38/1	कच्चा कवेलू	17	-
24	बाबूलाल तनय संतोष यादव	38/1	कच्चा कवेलू/गुलमोहर-3	42.09	-
			कच्चा कवेलू	15.51	
			कच्चा कवेलू	19.92	
			टीनशेड	29.64	
			कच्चा कवेलू	36.52	
25	उमाशंकर तनय गिरधारी यादव	38/1	कच्चा कवेलू	29.25	-
26	गोरीशंकर तनय गिरधारी यादव	38/1	कच्चा कवेलू	25.35	-
27	जयशंकर तनय गिरधारी यादव	38/1	कच्चा कवेलू	38.25	-
			कच्चा कवेलू	35.75	-
			दुकान	4	-
28	मिट्ठु यादव तनय मूलवा यादव	38/1	कच्चा कवेलू	32.56	-
			कच्चा कवेलू	19.24	-
29	पहलवान यादव तनय मिट्ठु यादव	38/1	कच्चा कवेलू/चिली-1	30	-
			कच्चा कवेलू/ नीम-43	25.83	-

क्र.	बर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व. मी. में)	
01	02	03	04	05	06
30	जीतू यादव तनय मिट्ठू यादव	38/1	कच्चा कवेलू	30	-
31	रघुबर तनय मलूवा यादव	38/1	कच्चा कवेलू/चिल्ला -1	29.28	-
32	बालादीन यादव तनय किशोरीलाल	38/1	कच्चा कवेलू	35.64	-
33	रघुबीर यादव तनय बालादीन	38/1	कच्चा कवेलू	42.4	-
34	अर्जुन तनय हरप्रसाद यादव	38/1	कच्चा कवेलू	17.48	-
35	बबलू तनय बालादीन यादव	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-2	16.33	
			कच्चा कवेलू	8.2	-
			कच्चा कवेलू	55.35	
36	भूपेन्द्र तनय बालादीन यादव	38/1	कच्चा कवेलू	53.1	-
37	प्रमोद तनय बालादीन यादव	38/1	कच्चा कवेलू	24.3	-
38	संतोष यादव तनय हलकईया	111/251	कच्चा कवेलू	36.89	-
			कच्चा कवेलू	57.12	-
			कच्चा कवेलू	40.42	-
			कच्चा कवेलू	34.31	-
			कच्चा कवेलू	25.55	-
			कच्चा कवेलू	35.7	-
39	शंकर लाल तनय मोना कोंदर	38/1	कच्चा कवेलू	32.04	-
			कच्चा कवेलू	31.74	-
			कच्चा कवेलू	28.52	-
40	मतू कोंदर तनय शंकर	38/1	कच्चा कवेलू/ पड़-4	46.64	
			कच्चा कवेलू	54.28	-
			कच्चा कवेलू	31	
41	पवन तनय बद्री यादव	37	कच्चा कवेलू	30.53	-
42	रामस्वरूप आदिवासी तनय जनुवा	68	कच्चा कवेलू/ सिरसा -2	21	
			कच्चा कवेलू	15.5	-
43	गोरोशंकर आदिवासी तनय रामस्वरूप	68	कच्चा कवेलू	40.185	-
			कच्चा कवेलू	7.28	-
44	रविन्द्र आदिवासी तनय रामस्वरूप	68	कच्चा कवेलू	40.185	-
			कच्चा कवेलू	7.5	-
45	मधुरा कोंदर तनय धरमदास	37	कच्चा कवेलू	67.415	-
			कच्चा कवेलू	19.2	-
46	खिलाडी आदिवासी तनय दरेया	37	कच्चा कवेलू	32.25	-
			कच्चा कवेलू	9.24	-
47	रुक्मण पली पखवा आदिवासी , हरिचन्द्र तनय पखवा आदिवासी	68	कच्चा कवेलू	59.5	-
48	कलाश आदिवासी तनय पखवा	68	कच्चा कवेलू	35.4	-
49	भइयालाल कोंदर तनय पखवा	68	कच्चा कवेलू	31.27	-
50	चिरोंजी लाल आदिवासी तनय जगदीश	68	कच्चा कवेलू	41.81	-
			कच्चा कवेलू	14.85	-
51	जगदीश आदिवासी तनय रामचरन	68	कच्चा कवेलू/ सिरसा-2, नीम-1	17.86	
			कच्चा कवेलू	22.62	-
52	गनुवा आदिवासी तनय छोटा	111/251	कच्चा कवेलू	11.9	-
			कच्चा कवेलू	16.53	-
			डबल कच्चा कवेलू	16.53	-
53	कमलेश तनय गनुवा आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	33.06	-
54	सुखलाल तनय भइया आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	17.22	-
			डबल कच्चा कवेलू	13.44	-
			कच्चा कवेलू	29.4	-
55	दशरथ तनय सुखलाल आदिवासी	111/251	डबल कच्चा कवेलू	17.22	-
			कच्चा कवेलू	13.44	-
56	शोतल आदिवासी तनय शोकोलाल	111/251	कच्चा कवेलू	47.61	-
57	दरउवा तनय जंगी आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	14.4	-
			कच्चा कवेलू	11.7	-
58	रजीता तनय नहे भेया आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	20.91	-
59	घंसु तनय पंचा आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	48.8	-
60	किरतइया आदिवासी तनय गोकला	111/251	कच्चा कवेलू	16.32	-
			कच्चा कवेलू	45.99	-
61	रामदास कोंदर तनय सकूरा	111/251	कच्चा कवेलू	32.25	-
			कच्चा कवेलू	18	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	नीमत मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
62	मदन तनय संतोष आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	32.25	-
63	सताष तनय फकड़िया आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	12	-
64	बिन्दोली कौंदर तनय बाबूलाल	111/251	कच्चा कवेलू	38.28	-
65	सियाराम कौंदर तनय बिन्दोली	111/251	कच्चा कवेलू	16.34	-
66	फूला पुत्री सुमेरा आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	40.02	-
			कच्चा कवेलू	20.14	-
67	किशोरी आदिवासी तनय रामदीन	111/251	कच्चा कवेलू	55.51	-
			कच्चा कवेलू	27.9	-
68	अम्मू आदिवासी तनय किशोरी	111/251	कच्चा कवेलू	16.1	-
69	परम लाल आदिवासी तनय प्यारेलाल	38/1	कच्चा कवेलू	8.97	-
			कच्चा कवेलू	23.22	-
70	हंसु तनय रामचरण आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	30.21	-
71	दया कौंदर तनय नबला	111/251	कच्चा कवेलू	21.7	-
72	विशाल आदिवासी तनय हल्के	111/251	कच्चा कवेलू	28.42	-
73	पूरण आदिवासी तनय काशीराम	111/251	कच्चा कवेलू	23.94	-
74	फूलचंद तनय देवीदीन आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	12	-
75	मगल तनय देवीदीन आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	36.12	-
76	देवीदीन तनय रामप्रसाद आदिवासी	111/251	डबल कच्चा कवेलू	21.12	-
			कच्चा कवेलू	18.48	-
77	झल्लू तनय कमला ढीमर	38/1	कच्चा कवेलू	15.48	गैर रिहायशी
78	परसू तनय प्यारेलाल कौंदर	38/1	कच्चा कवेलू/ सिरसा-2	44.02	-
			कच्चा कवेलू	24.8	-
			कच्चा कवेलू	25	-
79	परमलाल तनय प्यारेलाल कौंदर	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1	44.73	-
			कच्चा कवेलू	25.2	-
80	राकेश तनय प्यारे लाल कौंदर	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1	22.14	-
			कच्चा कवेलू	20.52	-
			कच्चा कवेलू	10.15	-
81	सरस्वती यादव पली भगवानदास	38/1	कच्चा कवेलू	76.44	-
			कच्चा कवेलू	14.19	-
82	टिड्डी तनय भगवानदास यादव	38/1	कच्चा कवेलू	28	-
83	दरबारी यादव तनय भगवान दास	38/1	टीनशेड/ नीम-3	47.46	-
			कच्चा कवेलू	38.22	-
84	फूला बाई पली श्यामलाल कौंदर	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1	41.6	-
85	दुर्जन आदिवासी तनय अच्छेलाल	38/1	कच्चा कवेलू/ सिरसा-2	40.28	-
			कच्चा कवेलू	36	-
86	नीमा बाई बेबा अच्छेलाल आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1	37.1	-
87	गनपत यादव तनय दरबारी	38/1	कच्चा कवेलू/ बर-1, नीम-1	33.75	-
			कच्चा कवेलू	36.4	-
			कच्चा कवेलू	17.25	-
88	नरेंद्र सेह यादव तनय गनपत	38/1	कच्चा कवेलू/ सिरसा-1	44.2	-
			कच्चा कवेलू	32.4	-
89	महादो तनय अवधलाल यादव	38/1	कच्चा कवेलू/ सुरजना -1	26.4	-
			कच्चा कवेलू	26.88	-
90	शंकर यादव तनय भईयन	38/1	कच्चा कवेलू/ चिलौ-1	52.92	-
			कच्चा कवेलू	29.58	-
			कच्चा कवेलू	55.8	-
91	परमसुख तनय बालादीन यादव	38/1	कच्चा कवेलू	35.4	-
			कच्चा कवेलू	13.57	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	नियंत मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
92	रमेश तनय बालादीन यादव	38/1	कच्चा कवेलू/नीम-1 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू चबूतरा RBC	22.75 30.8 104.5 44.1 14.4	-
93	लक्ष्मी प्रसाद तनय बालादीन यादव	38/1	कच्चा कवेलू/नीम-1 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	28.81 27.2 32 19.72 12.9 37.84	-
94	आरती पूजी हलके यादव	111/251	कच्चा कवेलू	31.2	-
95	तुलसा बाई पूजी बिंदु कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू	52	-
96	झगड़ कॉदर तनय बिंदु कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू/ अमरुद -1, बेर-1 कच्चा कवेलू	60.3 28.8	-
97	पप्पू तनय गनपत कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू/अमरुद -1 कच्चा कवेलू	40.5 22.04	-
98	प्रकाश कॉदर तनय पप्पू कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू/ आम-1	22.95	-
99	घसोटी आदिवासी तनय पप्पू	38/1	कच्चा कवेलू	22.95	-
100	नोनेलाल आदिवासी तनय गनपत	38/1	कच्चा कवेलू	23.4	-
101	राम बाबू तनय हीरा कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-2, इमली-1 कच्चा कवेलू	32.25 19.25	-
102	भईयन तनय कटुवा यादव	38/1	कच्चा कवेलू	27.93	-
103	खिलन यादव तनय भईयन	38/1	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	16 24.7	-
104	उमा प्रसाद यादव तनय मुखलाल	38/1	कच्चा कवेलू	43.05	-
105	सुखन आदिवासी तनय किशोरी	38/1	कच्चा कवेलू	39.65	-
106	कल्लू यादव तनय भगवानदास	38/1	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	31.5 39.6	-
107	राजाराम कॉदर तनय मोना	38/1	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	22.345 9	-
108	कृपाल कॉदर तनय राजाराम कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	22.345 14.175	-
109	हरसेवक तनय राजाराम कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू/ सिरसा-2	31.9	-
110	बाबूलाल तनय राजाराम कॉदर	38/1	कच्चा कवेलू/ बेर-1, नीम-1 जंगल जलेबी-1 कच्चा कवेलू	31.9 12	-
111	राजेन्द्र तनय राजाराम आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	76.3	-
112	सुरेश तनय नोनेलाल आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1 कच्चा कवेलू	64.6 39	-
113	देवीदीन आदिवासी तनय टेडा	38/1	टीनशेड/नीम-2 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	31.85 36.4 19.95	-
114	हीरालाल कॉदर तनय प्यारेलाल	38/1	कच्चा कवेलू	21.32	-
115	सूर्यमान सेन तनय लालमन	38/1	कच्चा कवेलू	17.64	गैर रिहायशी
116	प्रेमी लाल तनय गयादीन आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	31.28	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	नामत मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
117	गोमती तनय बंदी यादव	111/251	कच्चा कवेलू/ नीम-1 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	19 57 12 17.2 25.8 40.42 12 47.5	-
118	भागीरथ तनय मकुन्दी यादव	111/251	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	83.08 6.6	-
119	रोशन तनय मकुन्दी यादव	111/251	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	27.36 12.6	-
120	रत्नीराम तनय मकुन्दी यादव	111/251	कच्चा कवेलू	29.52	-
121	गोरीशकर तनय मकुन्दी यादव	111/251	कच्चा कवेलू	27.3	-
122	देवराज तनय मोतीलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू/ बेर-1 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	36.8 37.72 20.1 37.5 30	-
123	नोनेलाल आदेवासी तनय भगवान	38/1	डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	39.56 23.68	-
124	मातादीन तनय बंदी यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू	44	-
125	बेदु यादव तनय नस्यु यादव	111/251	कच्चा कवेलू/ नीम-2	31.92	-
126	वन स्वरूप यादव तनय भूरा	111/251	कच्चा कवेलू/ चैलो-2	28	-
127	श्रीराम तनय तुलसीदास यादव	111/251	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू दुकान कच्चा कवेलू	29.75 27.9 9 39.6	-
128	जितेन्द्र तनय सुकन यादव	38/1	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	17.68 42	-
129	मधुरा तनय पन्नालाल यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	35 26.6	-
130	बब्बू आदेवासी तनय रामदयाल	111/251	डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	46.48 30.71 29.61	-
131	भागबली कौंदर तनय बब्बू	111/251	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	9.4 18.36 40.85	-
132	शांति यादव पली संतोष	111/251	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	36.85 16.8	-
133	बिहारी तनय बाबा यादव	111/251	कच्चा कवेलू/ बेर-2 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	24 32 24	-
134	हल्के तनय बाबा यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू/ बेर-3 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	32 24 40.8	-
135	माखन तनय गोरेलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू/ नीम-1 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	46.86 14.1 16.2	-
136	गुलाब तनय विशाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	42 7.5	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निम्नमत मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
137	विशाल तनय गोरेलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	32.5	-
138	मुन्ना तनय छोटेलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	22.75	-
139	आशाराम यादव तनय बालादीन	111/251	कच्चा कवेलू/बेर-2	56.7	-
140	जगदीश तनय बाबा यादव	111/251	कच्चा कवेलू	12	-
141	गंगू तनय प्पारेलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	37.5	-
142	सुरेन्द्र तनय गंगू यादव	111/251	कच्चा कवेलू	52.5	-
143	जयहिंद तनय गंगू यादव	111/251	कच्चा कवेलू	29.4	-
			कच्चा कवेलू	62.7	-
144	राजेन्द्र तनय गंगू यादव	111/251	कच्चा कवेलू	63.7	-
			PM आवास	32	-
145	लीला बाई पूत्री धरमदास यादव	111/251	कच्चा कवेलू	54	-
146	रामप्पारे तनय बंदी यादव	111/251	कच्चा कवेलू	13.2	-
			कच्चा कवेलू	3	-
			कच्चा कवेलू	10	-
147	आनंदी तनय बंदी यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू	58.08	-
			कच्चा कवेलू	13.6	-
			कच्चा कवेलू	27.3	-
148	राम प्रसाद तनय हल्के आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू/बेर-1	82.49	-
149	भगवान दास तनय हल्के आदिवासी	111/251	डबल कच्चा कवेलू	40.32	-
150	पुष्णन्द्र तनय पप्पू कोदर	38/1	PM आवास	24.5	-
151	भूरा तनय मनका आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	24.5	-
152	गाप्ती पत्ती हल्के यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू/बेर-1, सुरजना-1	21.42	-
153	रमेश लखरा तनय चुखर	111/251	कच्चा कवेलू	27	-
154	दशरथ तनय पंखी यादव	111/251	कच्चा कवेलू	28.42	-
155	भूपत यादव तनय पंखी यादव	111/251	कच्चा कवेलू	28.42	-
156	मुन्नीलाल यादव तनय जगन्नाथ यादव	111/251	कच्चा कवेलू	31.5	-
		111/251	कच्चा कवेलू	73	-
		111/251	कच्चा कवेलू	32.64	-
		111/251	कच्चा कवेलू	22.8	-
		111/251	कच्चा कवेलू	30.4	-
		111/251	कच्चा कवेलू	28.5	-
157	अनुपा बाई पत्ती सुरेश यादव	112	डबल कच्चा कवेलू/नीम-03	49.68	-
158	रूपा यादव पत्ती केलाश	112	कच्चा कवेलू	13.75	-
159	रामाकेशन तनय विशाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	15	-
160	खुशी यादव पत्ती कहेया यादव	81	कच्चा कवेलू	12.5	-
161	हल्की बेवा बाबा यादव	81	कच्चा कवेलू	52.65	-
162	इन्द्रपाल यादव तनय छोटेलाल, बिहारीलाल तनय छोटेलाल यादव, पप्पू तनय छोटेलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	52.65	-
163	छट्टू राजा तनय जाहर सिंह	111/251	टीनशेड	30.25	-
164	नारायण यादव तनय विशाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	4	गेर रिहायशी
165	शिवकमार तनय महेश आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	31.2	-
166	मुन्ना उफे अनवर तनय अकबर माहम्मद	38/1	कच्चा कवेलू	36	-
167	लल्ला आदिवासी तनय हलासी	38/1	कच्चा कवेलू	4	-
168	लड्डू पत्ती बब्बू कांदर	111/251	कच्चा कवेलू	32	-
169	रूपेंद्र तनय प्रभुदयाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	30.24	-
170	जगदीश आदिवासी तनय लल्ला	68	कच्चा कवेलू	29.25	-
171	लक्ष्मी पत्ती लक्ष्मण आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	24	-
		111/251	कच्चा कवेलू	32.25	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निमंत मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
172	दीपक तनय लक्ष्मण आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	29.76	-
173	अजय तनय लक्ष्मण आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	31.62	-
174	रमसू तनय बबू कौदर	38/1	कच्चा कवेलू	31.2	-
175	मुन्ना कौदर तनय हरीलाल कौदर	111/251	कच्चा कवेलू	42.64	-
176	अशोक कौदर तनय हरीलाल कौदर	111/251	कच्चा कवेलू	51	-
177	लखन तनय दयाराम यादव	111/251	कच्चा कवेलू	24.7	-
178	संदीप कौदर तनय बबू कौदर	111/251	कच्चा कवेलू	26.04	-
179	अरविन्द तनय कुंजी यादव, जयपाल तनय कुंजी यादव	111/251	कच्चा कवेलू	8	-
180	जीतेन्द्र तनय सुखलाल आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	31.2	-
181	सीमा पुत्री रामकेशोर आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	40.8	-
182	डालचंद्र कौदर तनय हरिप्रसाद	84	कच्चा कवेलू	35.75	-
183	बल्लू तनय रतन आदिवासी	68	कच्चा कवेलू	29.25	-
184	बूटा बाई बेबा सुखलाल आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	42.5	-
185	मनोज तनय सुखलाल आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	45	-
186	मनमोहन तनय रतन आदिवासी	68	कच्चा कवेलू	24.75	-
187	तुलसी तनय रतन आदिवासी	68	कच्चा कवेलू	24.75	-
188	करन तनय रतन आदिवासी	68	कच्चा कवेलू	44	-
189	राजेश तनय राजकुमार आदिवासी	111/251	पक्का आरसीसी	45	-
190	चंदा तनय प्यारेलाल आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	24	-
191	राजू तनय कडोरा यादव	38/1	कच्चा कवेलू	30	-
192	मुलिया पत्नी झालर यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू	31.5	-
193	लच्छी तनय मकुन्दी यादव	111/251	टीनशेड	22.5	-
194	प्रेमशंकर तनय गिरधारी यादव	38/1	कच्चा कवेलू	38.4	-
195	वीरन तनय हंसु आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	24.8	-
196	सुमन पुत्री राजकुमार आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	27.36	-
197	तुलसीदास यादव तनय नर्सू	38/1	कच्चा कवेलू	27.36	-
198	अशोक आदिवासी तनय जगदीश	38/1	कच्चा कवेलू	25.65	-
199	बबेता यादव पुत्री राजू यादव	38/1	कच्चा कवेलू	28.5	-
200	रामकली पत्नी शोभा आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	35.75	-
201	सुनील पुत्र शोभालाल आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	34.56	-
202	विंद्रावन तनय काशीराम कौदर	117	पक्का आरसीसी	24.96	-
203	द्रोपती पुत्री बबू आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	33.6	-
204	दीपावली तनय मोतीलाल यादव	111/251	कच्चा कवेलू	33.6	-
205	शांति बेबा चुरामन आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	12.8	-
206	खशीराम तनय चुरामन आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	42.6	-
207	दीपेका पुत्री भगवन्दास यादव	38/1	कच्चा कवेलू	33.32	-
208	भजू तनय बिंदु आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	34.5	-
209	हरगोविंद तनय बिंदु आदिवासी	38/1	कच्चा कवेलू	34.68	-
210	लक्ष्मण तनय घनश्याम आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	26.46	-
211	लाडली पुत्री राजाराम कौदर	111/251	कच्चा कवेलू	36	-
212	दयाराम तनय ललजुआ आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	33	-
213	माया पुत्री दयाराम आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	28.56	-
214	भजू तनय प्यारेलाल आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	36.72	-
215	रमेश तनय प्यारेलाल आदिवासी	111/251	कच्चा कवेलू	35.2	-
216	वीरेंद्र तनय मुन्ना यादव	111/251	कच्चा कवेलू	27.84	-
217	भरत यादव तनय कल्लू	111/251	कच्चा कवेलू	30.15	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
218	बालादीन तनय मनमोहन यादव	111/251	डबल कच्चा कवेलू	47.3	-
219	पुष्पेन्द्र तनय पप्पू कोंदर	38/1	कच्चा कवेलू	31.5	-
220	उमेश तनय मिलन यादव	38/1	सीमेंट शीट	38.5	-

2. सार्वजनिक प्रयोजन दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आवादी के भू-अर्जन हेतु।  
 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्राप्तजगते

प्र. क्र. 0114—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि/भवन/परिसंपत्तियों के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित आवादी भूमि पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

## 1. भूमि/भवन/परिसंपत्तियों का वर्णन

(क) जिला- छतरपुर  
 (ग) नगर/ग्राम- खरयानी

(ख) तहसील- सटई  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-21185.558 वर्ग मी.में

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
1	रामसेवक मिश्रा तनय रामदयाल मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/आम-1	8.4	-
			कच्चा कवेलू	38.76	-
2	विद्या मिश्रा पन्नी रामदयाल	313	सीमेंट शीट	19.6	-
3	रामकिशन मिश्रा तनय रामदयाल मिश्रा	313	सीमेंट शीट	25.5	-
4	शंकर प्रसाद मिश्रा तनय रामदयाल	313	सीमेंट शीट	13.5	-
			डबल कच्चा कवेलू	18	-
			डबल कच्चा कवेलू	13.5	-
			पक्का RCC	47.5	-
5	संतोष मिश्रा तनय दुर्गप्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू/आम-1	31.5	-
			कच्चा कवेलू	62.08	-
6	रामगणेश मिश्रा तनय दुर्गप्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	15.75	-
			कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	15.75	-
7	सुनील दत मिश्रा तनय दुर्गप्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	34.65	-
8	शांतिबाई पन्नी जगन्नाथ मिश्रा	313	सीमेंट शीट	25.08	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.गी. में)	
01	02	03	04	05	06
9	आशुतोष मिश्रा तनय रामाधार मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	35.7	-
			डबल कच्चा कवेलू	29.93	-
			कच्चा कवेलू	33.66	-
			डबल कच्चा कवेलू	126.99	-
10	सुनील पाण्डेय तनय रामसहाय पाण्डेय	313	कच्चा कवेलू	26.23	-
			डबल कच्चा कवेलू	28.86	-
11	अनिल पाण्डेय तनय रामसहाय पाण्डेय	313	डबल कच्चा कवेलू	33.3	-
12	अनूप पांडे तनय अनिल पांडे	313	कच्चा कवेलू	45.56	-
13	भरत कुमार मिश्रा तनय मिथुलेश	272	कच्चा कवेलू	28.67	-
14	किशोरीलाल रेकवार तनय कुंजीलाल रेकवार	324	डबल कच्चा कवेलू	46.92	-
15	चटू रेकवार तनय गुलजारी रेकवार	324	डबल कच्चा कवेलू	5.85	-
16	तोतु तनय गुलजारी रेकवार	324	डबल कच्चा कवेलू	4.29	-
17	कालीचरण रेकवार तनय गुलजारी रेकवार	324	डबल कच्चा कवेलू	4.29	-
18	शोभा लाल रेकवार तनय गुलजारी रेकवार	324	डबल कच्चा कवेलू	8.775	-
19	परमलाल रेकवार तनय कुन्तीलाल रेकवार	324	डबल कच्चा कवेलू	5.85	-
20	राम नरेश मिश्रा तनय ब्रजभूषण मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू/जामुन-1	85.47	-
21	शिवचन मिश्रा तनय ब्रजभूषण मिश्रा	313	सोमेट शॉट	27.54	-
			कच्चा कवेलू	11.76	-
			डबल कच्चा कवेलू	39.33	-
22	विरदावन मिश्रा तनय ब्रजभूषण मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	41.89	-
			कच्चा कवेलू	11.76	-
			कच्चा कवेलू	25.76	-
23	रामामिलन मिश्रा तनय रामनरेश मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	51.98	-
			कच्चा कवेलू	43.31	-
24	महेंद्र कुमार मिश्रा तनय राम प्रसाद मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	8.97	-
			कच्चा कवेलू	51.46	-
			कच्चा कवेलू	36.3	-
			कच्चा कवेलू	18.81	-
25	संदीप तनय महेंद्र मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	29.25	-
26	रामजी तनय महेंद्र मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	29.25	-
27	ज्योति पत्नी महेंद्र मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	29.25	-
28	प्रदीप मिश्रा तनय महेंद्र मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	49.61	-
			कच्चा कवेलू	5.04	-
29	रामओतार मिश्रा तनय रामप्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू/अमरुद-1	39.2	-
			कच्चा कवेलू	24	-
30	शेलन्द्र मिश्रा तनय रामओतार मिश्रा	313	टीन शेड	28.42	-
			कच्चा कवेलू	30.53	-
31	सुरेन्द्र कुमार मिश्रा तनय रामओतार मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/बर-1	23.43	-
			कच्चा कवेलू	30.53	-
32	कल्पना पाठक पत्नी राजकुमार पाठक	313	कच्चा कवेलू	30.53	-
33	रामकली आहिरवार पत्नी कमोदा आहिरवार	370	कच्चा कवेलू/नीम-1	28.35	-
34	सन्तु आहिरवार तनय कमोदा आहिरवार, खिल्लू तनय सन्तु आहिरवार	370	कच्चा कवेलू/नीम-1	42.21	-
35	धीरज आहिरवार तनय सन्तु आहिरवार	370	डबल कच्चा कवेलू/नीम-1	42.88	-
			कच्चा कवेलू	13.12	-
36	बबलू तनय कमोदा आहिरवार	370	डबल कच्चा कवेलू/नीम-1	48.24	-
			कच्चा कवेलू	15.2	-
37	रोते आहिरवार तनय कमोदा आहिरवार	370	कच्चा कवेलू/नीम-1	20.1	-
38	रतोराम आहिरवार तनय कमोदा आहिरवार	370	कच्चा कवेलू/नीम-1	54.67	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावत मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
39	बबल् आहरवार तनय रातिराम आहरवार	370	कच्चा कवेलू	29.14	-
40	रघुवश मनो मिश्रा तनय जगन्नाथ	313	कच्चा कवेलू	30	-
41	कृष्णबिहारी मिश्रा तनय जगन्नाथ	313	कच्चा कवेलू	30	-
42	कोशल किशोर मिश्रा तनय जगन्नाथ	313	कच्चा कवेलू	16.2	-
43	आकाश मिश्रा तनय कोशल मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	10.2	-
44	राकेश बिहारी मिश्रा तनय जगन्नाथ	313	कच्चा कवेलू	13.8	-
45	माया पलो चंद्रभान मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	16.8	-
46	प्रदीप तनय चंद्रभान मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	16.8	-
47	कुलदीप मिश्रा तनय चंद्रभान मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	16.8	-
48	जगदीश मिश्रा तनय गजाधर मिश्रा	334	कच्चा कवेलू/नाइक्स -02	33.75	-
49	राजेंद्र तनय जगदीश मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	30	-
50	राहुल तनय जगदीश मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	46	-
			कच्चा कवेलू	5	-
51	ठाकुरदास विश्वकर्मा तनय हीरालाल	334	कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	15.05	-
52	संतोष प्रसाद तनय ठाकुर दास विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	12.9	-
53	संजय तनय ठाकुरदास विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	12.9	-
54	दशरथ तनय ठाकुर दास विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	12.9	-
55	रामोतार तनय ठाकुरदास विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	12.9	-
56	मधुरा विश्वकर्मा पलो गयाप्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू/कटहल-1	35	-
57	नव्यु विश्वकर्मा तनय गयाप्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू	12.25	-
58	सुरेन्द्र विश्वकर्मा तनय गयाप्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू	4	-
			कच्चा कवेलू	12.25	-
59	मुत्रा विश्वकर्मा तनय गयाप्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू	16	-
60	गुलाब पलो दरबारी विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	24	-
61	राहुल तनय दरबारी विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	16	-
62	सुरज तनय दरबारी विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	18	-
63	होगेया आदिवासी तनय दुर्जना	353/2	PM आवास	32	-
64	रावे आदिवासी तनय टूंडा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	28	-
			कच्चा कवेलू	34	-
65	जगोला पाल तनय खांडे	353/2	कच्चा कवेलू	9	-
66	शंकर तनय कंधो आदिवासी, दिनेश तनय शंकर आदिवासी, दिलीप तनय शंकर आदिवासी, जयपाल तनय शंकर आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	9	-
67	राजकुमारी पली टूंडा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	15	-
			कच्चा कवेलू	40	-
68	कलिया आदिवासी पली मुल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू/अमरुद-1	29.4	-
69	परसादी आदिवासी तनय मुल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	21	-
			पक्का RCC	21	-
70	सिंटू तनय परसादी आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	30	-
71	मेंटू तनय परसादी आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	30	-
72	नर्सू आदिवासी तनय तुलइया	353/2	कच्चा कवेलू	47.7	-
			कच्चा कवेलू	39.36	-
			कच्चा कवेलू	18	-
73	बल्ल आदिवासी तनय मुल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	27	-
74	शेखलाल सोर तनय कलूवा सोर	353/2	कच्चा कवेलू/बर-2	29.25	-
75	संजना पली शेखलाल सोर	353/2	कच्चा कवेलू	29.25	-
76	सिमाबाई सोर पुली शेखलाल सोर	353/2	कच्चा कवेलू	29.25	-
77	मुत्रा आदिवासी तनय सुकरता आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	49.5	-
78	भागीरथ आदिवासी तनय कन्छेंदी आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	33.75	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
79	लीला बाई आदिवासी पलों भगोला आदिवासी	353	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	36 24	-
80	सुखलाल आदिवासी तनय फुल्ला आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	28	-
81	सरमन आदिवासी तनय फुल्ला आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	44.8	-
82	गंदा बाई पलों फुल्ला आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	19.2	-
83	विजय मिश्रा तनय रामरतन मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/आम-1 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	45.88 68.2 30	-
84	संजय मिश्रा तनय रामदत्त मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/बर-1, सागवान-1 कच्चा कवेलू	75 12	-
85	नेरेज मिश्रा तनय रामरतन मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	14.4	-
86	अरुण कुमार मिश्रा तनय सुदर लाल मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	51 26	-
87	प्रमोद कुमार तनय मकुन्दी मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू/बर-1 कच्चा कवेलू	51 26	-
88	प्रमोद कुमार तनय गनेश प्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	14	-
89	पचावती मिश्रा पलों गनेश प्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	14	-
90	मनोज कुमार मिश्रा तनय गनेश प्रसाद मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	28	-
91	सगुनिया आदिवासी पलों जमुना आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	24	-
92	मन्न आदिवासी तनय जमना आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	53.3	-
93	कुपी आदिवासी तनय जमुना आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	24	-
94	मनोज आदिवासी तनय जमुना आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	53.3	-
95	बूटी बाई आदिवासी पलों लालू आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	28	-
96	पम्म तनय जमना आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	24	-
97	विनोद तनय पम्म आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	24	-
98	हीरा लाल तनय पम्म आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	24	-
99	राम दुलेपा पलों पंखिया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	42	-
100	भगवान दास तनय पंखिया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	42 12	-
101	रमेश तनय पंखिया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	12	-
102	बहादुर तनय भीम सार	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	47.6 12	-
103	वीरेंद्र तनय बहादुर सार	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	27.2 12	-
104	चरन सार तनय बब्बू सार	1012	कच्चा कवेलू/बर-1, सागोन-1 कच्चा कवेलू	22.75 10.5	-
105	प्रकाश तनय चरन सार	1012	कच्चा कवेलू/पलाश-1 कच्चा कवेलू	22.75 13.5	-
106	मूलचंद तनय चरन आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/कनर-1	18	-
107	मनोज आदिवासी तनय चरन सार	1012	कच्चा कवेलू/सरसा-1	32	-
108	भेयन आदिवासी तनय मदरिया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/आम-2, अमरुद-1	28	-
109	पलुआ तनय रामकुमार आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/आम-1	28	-
110	रमेश आदिवासी तनय जमना आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	36	-
111	प्यारे लाल आदिवासी तनय कारया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/आम-1	28	-
112	रज्जू आदिवासी तनय प्यारे लाल आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	20	-
113	धनोराम सार तनय बल्ल सार	1012	कच्चा कवेलू//अमरुद-1	12	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
114	दरबारी आदिवासी तनय भगोला आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	12	-
115	बल्लू आदिवासी तनय छड़ी आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/ जामुन-1	52	-
116	अम्पु आदिवासी तनय बल्लू आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	48.1	-
117	रज्जू आदिवासी तनय भलुवा आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू सोमट शोट कच्चा कवेलू	13.2 59 20	-
118	बालकिशन तनय रज्जू आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	42	-
119	फुलिया आदिवासी पत्ती भलुवा आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	56	-
120	कल्ला आदिवासी तनय भूरा	1012	कच्चा कवेलू/जामुन-2 कच्चा कवेलू	24 8	-
121	रामदीन आदिवासी तनय कल्ला	1012	कच्चा कवेलू/आम-1	39	-
122	ममता पुत्री रामदीन, रोमेया पुत्री रामदीन	1012	कच्चा कवेलू	28	-
123	दोलता आदिवासी तनय कल्ला आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/नीम-1, परीता-1	45.5	-
124	सतीकरण तनय दोलता आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	24	-
125	रोकरण तनय दोलता आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	42	-
126	अल्लू आदिवासी तनय पांखेया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/बेर-4 कच्चा कवेलू	24 28	-
127	भोला आदिवासी तनय तिजवा आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/बेर-10	112	-
128	मुन्ना आदिवासी तनय भोला आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	20 16	-
129	हरछटिया आदिवासी तनय भोला आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	24 16	-
130	रमेश आदिवासी तनय भोला आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	30 28 37.5	-
131	गुमनिया आदिवासी पत्ती हल्के आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	36 15	-
132	पञ्जुवा आदिवासी तनय हल्के आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/नीम-1	21	-
133	सीता राम आदिवासी तनय गिरधिया आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू/बेर-1, नीम-1	18	-
134	कुटल सीर तनय सीताराम सीर	1012	कच्चा कवेलू/कथो-1 कच्चा कवेलू	24.5 33.25	-
135	सुरेश तनय किरतइया बंसल	363	कच्चा कवेलू	22.75	-
		363	कच्चा कवेलू	37.44	-
136	भूपेन्द्र तनय सुरेश बंसल	363	कच्चा कवेलू	22.75	-
		363	कच्चा कवेलू	39.05	-
137	उमा तनय दरबारी आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	33.6	-
138	राधा पत्ती उत्तम आदिवासी	1012	कच्चा कवेलू	21	-
139	भाइलाल आदिवासी तनय कलूटा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	14 32.25	-
140	नोनेलाल आदिवासी तनय दशरथ आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	28	-
141	बतई आदिवासी पत्ती वृन्दावन आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	24	-
142	चंतराम आदिवासी तनय वृन्दावन आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	51.8	-
143	नथुवा तनय दलुबा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	40 32.85	-
144	राकेश तनय नथु आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	31.5	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावेत मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. मे)	
01	02	03	04	05	06
145	मोतोलाल आदिवासी तनय झल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	25.6	-
146	परमलाल तनय मोतोलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	29.25	-
147	देवीदीन तनय मोतोलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	35.75	-
148	इश्वर दीन तनय मोतोलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	35.75	-
149	खड़िया आदिवासी तनय मल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	26.25	-
150	खड़िया आदिवासी तनय खड़िया आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	12.25	-
151	परशु आदिवासी तनय बंदी आदिवासी, रामसजन आदिवासी तनय परशु	353/2	कच्चा कवेलू	19.5	-
152	चन्न आदिवासी तनय गुलू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	9	-
153	गोरलाल आदिवासी तनय गुलू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	22.75	-
154	किल्लू आदिवासी तनय गुलू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	19.25	-
155	सरमाद तनय किल्लू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	55.9	-
156	भूरा आदिवासी तनय गुलू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	24.75	-
			कच्चा कवेलू	24	-
157	रज्जू आदिवासी तनय नन्दा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	12	-
158	कमलेश आदिवासी तनय नन्दा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	27.95	-
159	बल्लू बाई पत्ती धमे दास रजक	353/2	कच्चा कवेलू	38.5	-
160	होरालाल रजक तनय धमेदास	353/2	कच्चा कवेलू	23.4	-
161	तेजराम रजक तनय धमेदास	353/2	कच्चा कवेलू	22.68	-
162	देवीदीन रजक तनय किशोरी रजक	353/2	सोमेट स्टॉट	35.2	-
163	कलुवा रजक तनय किशोरी रजक	353/2	कच्चा कवेलू	21	-
164	गुमानेया रजक पत्ती विशाल रजक	353/2	कच्चा कवेलू	15.4	-
165	रामलाल रजक तनय धमेदास	353/2	कच्चा कवेलू	22.05	-
166	बेटू लाल आदिवासी तनय छालिया आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	14.88	-
			कच्चा कवेलू	49	-
167	सूरत लाल आदिवासी तनय गोविंदा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	12.6	-
168	गोविंदा आदिवासी तनय झलकन आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	15.54	-
169	बलदेवा तनय गोविंदा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	21.42	-
170	केशलाल आदिवासी तनय छालिया आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	24.4	-
171	मुरली आदिवासी तनय गोविंदा आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	13.3	-
172	कुवर बाई आदिवासी तनय सौखो लाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	23.8	-
			कच्चा कवेलू	15.05	-
173	कृपाल बसौर तनय बंसिया, राजकुमार तनय कृपाल बसौर	353/2	कच्चा कवेलू	15.54	-
174	सुंदर बसौर तनय बंसिया, अंगेलेश तनय सुंदर बसौर, राहुल तनय सुंदर बसौर, गोविंद तनय सुंदर बसौर	353/2	कच्चा कवेलू	13.3	-
175	गोदाबाई पत्ती कन्छेदी बंसल, पूरन तनय कन्छेदी, नीरज तनय कन्छेदी	353/2	कच्चा कवेलू	15.05	-
176	गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा तनय होरालाल	353/2	कच्चा कवेलू	19.2	-
			कच्चा कवेलू	39.2	-
177	माखनलाल तनय भंता बंसल	353/2	कच्चा कवेलू	24	-
178	अरावेन्द तनय माखन लाल बंसल	353/2	कच्चा कवेलू	22.5	-
179	आरतो पुत्री माखन बंसल	353/2	कच्चा कवेलू	22.5	-
180	किशोरी विश्वकर्मा तनय गिरजा प्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू	25.46	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावत मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
181	गुड़न पुत्री गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	20.9	-
182	मनोज तनय गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	20.9	-
183	सियाराम अहिरवार तनय नाधूराम अहिरवार	351	कच्चा कवेलू	32	-
184	जमना आदिवासी तनय कंछेदी आदिवासी	351	कच्चा कवेलू/बेर-2, कटहल-1	33.75	-
185	दसड़या तनय चिंता आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	24	-
186	चेतराम विश्वकर्मा तनय गिरजा विश्वकर्मा	353/2	कच्चा कवेलू	19.2	-
187	राजकुमार आदिवासी तनय मोहन आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	42	-
188	पप्प आदिवासी तनय राजकुमार आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	9 24	-
189	श्यामलाल विश्वकर्मा तनय गिरजा प्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू दुकान	26.13 6	-
190	कंछेदी आदिवासी तनय फुल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	9 17.4	-
191	बटरु तनय अमला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	17.4	-
192	कण्ठाकान्त गुप्ता तनय चूरामन	353/2	डबल कच्चा कवेलू/पपीता-1	15	-
193	शिवम गुप्ता तनय जुगल किशोर	353/2	कच्चा कवेलू	24.3	-
194	जुगल किशोर गुप्ता तनय चूरामन	353/2	डबल कच्चा कवेलू दुकान	24 18	-
195	शिवानी गुप्ता तनय जुगल किशोर	353/2	डबल कच्चा कवेलू	10.8	-
196	सोम्या गुप्ता तनय जुगल किशोर	353/2	डबल कच्चा कवेलू	10.8	-
197	श्रद्धा गुप्ता तनय चूरामन गुप्ता	353/2	कच्चा कवेलू	10.875	-
198	मालती गुप्ता पली चूरामन गुप्ता	353/2	कच्चा कवेलू	10.875	-
199	रामजो गुप्ता तनय राजेन्द्र गुप्ता	353/2	कच्चा कवेलू	10.875	-
200	अनिता गुप्ता तनय राजेन्द्र गुप्ता	353/2	कच्चा कवेलू	10.875	-
201	अजुन पाल तनय हल्के	353/2	कच्चा कवेलू	29.24	-
202	भूपत पाल तनय अजुन पाल	353/2	कच्चा कवेलू	13.2	-
203	नारायण पाल तनय अजुन पाल	353/2	कच्चा कवेलू	17.1	-
204	रामसेवक पाल तनय हल्के पाल	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	22.55 42.93	-
205	गगानी पाल पुत्री रामसेवक	353/2	कच्चा कवेलू	27.5	-
206	रज्जू पाल तनय रामसेवक पाल	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	32.4 24	-
207	राजेश पाल तनय रामसेवक पाल	353/2	सोमट शोट	26.4	-
208	चूरामन पाल तनय हल्के	351	कच्चा कवेलू/नोम-1, इमली-1	24.42	-
209	गणेश पाल तनय चूरामन	351	कच्चा कवेलू	56.09	-
210	गोविंद पाल तनय चूरामन	351	कच्चा कवेलू/बेर-1	25.83	-
211	भागीरथ पाल तनय धुधा	351	कच्चा कवेलू सोमट शोट	4.65 27.72	-
212	जगोला पाल तनय भागीरथ, दोपा पुत्री जगोला पाल	351	कच्चा कवेलू	35.1	-
213	रामगिलन तनय जगोला पाल	351	कच्चा कवेलू	18.91	-
214	दुड़ा पाल तनय भागीरथ	351	कच्चा कवेलू	52.65	-
215	किशन पाल तनय जगोला	351	कच्चा कवेलू	17.76	-
216	पुष्ट्र वाल तनय जगोला	351	कच्चा कवेलू	24.05	-
217	जगोला पाल तनय पलुवा	351	कच्चा कवेलू	22.44	-
218	रज्जू पाल तनय जगोला	351	कच्चा कवेलू	36.9	-
219	ज्ञानोपाल तनय जगोला	351	कच्चा कवेलू	39.68	-
220	दयाल पाल तनय जगोला	351	कच्चा कवेलू	22.44	-
221	रामकृपाल पाल तनय मोतीलाल	351	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	8.8 25.62	-
222	रामदेवी पुत्री रामकृपाल पाल	351	कच्चा कवेलू	4.4	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
223	भगवतो पाल पुत्री रामकृपाल	351	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	9.2 28.83	-
224	जगदीश गुप्ता तनय ग्यासीलाल	313	सोमट शॉट	27.2	-
225	आशोष गुप्ता तनय जगदीश	313	सोमट शॉट कच्चा कवेलू	27.2 21.7	-
226	कमलेश गुप्ता तनय ग्यासीलाल	313	सोमट शॉट	4.41	-
227	विमलेश गुप्ता तनय ग्यासीलाल	313	टीन शड	27.2	-
228	रामामेलन गुप्ता तनय ग्यासीलाल	313	कच्चा कवेलू	6.65	-
229	नीलेश गुप्ता तनय राममेलन	313	कच्चा कवेलू	6.65	-
230	गिरधररोलाल तनय नंदकिशोर गुप्ता	313	कच्चा कवेलू	15.36	-
231	राजेशकुमार तनय नंदकिशोर गुप्ता	313	कच्चा कवेलू	15.36	-
232	गंगाराम मिश्रा तनय कन्छेदी	313	कच्चा कवेलू/नोबू-1 कच्चा कवेलू	43.32 29.25	-
233	आशोष तनय गंगाराम मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	20.25	-
234	दीपा पुत्री गंगाराम मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	20.25	-
235	सहोद्रा मिश्रा पत्नी कन्छेदी	313	कच्चा कवेलू/कटहल-1, कुआँ -01	43.32	-
236	मिथलेश मिश्रा तनय लोलाधार	272/1	डबल कच्चा कवेलू	28.52	-
237	शेवागी पुत्री मिथलेश मिश्रा	272/1	टीन शड	28.8	-
238	मिलाप तनय मिथलेश मिश्रा	272/1	डबल कच्चा कवेलू	28.8	-
239	भवानीदेवी मिश्रा तनय बालाप्रसाद	272/1	कच्चा कवेलू	36.55	-
240	नोनीबाई मिश्रा तनय लोलाधर मिश्रा	272/1	कच्चा कवेलू/अमरुद-2, बल-1, सीताफल-1	21.08	-
			कच्चा कवेलू	23.2	-
241	धर्मन्द मिश्रा तनय लोलाधर	272/1	डबल कच्चा कवेलू/अमरुद-1, सीताफल-1, नीम-2	57.12	-
			कच्चा कवेलू	22.44	-
			कच्चा कवेलू	29.24	-
242	संतोष कुमार पाण्डेय तनय रामअवतार	313	डबल कच्चा कवेलू	57.12	-
			कच्चा कवेलू	22.44	-
			कच्चा कवेलू	21.08	-
			कच्चा कवेलू	35.26	-
243	संदीप पाण्डेय तनय रामअवतार	313	कच्चा कवेलू	9	-
244	कमलू तनय छत्रु प्रजापति, राहुल तनय कमलू प्रजापति, सुमन पुत्री कमलू प्रजापति, रश्मि पत्नी कमलू प्रजापति	359	कच्चा कवेलू	9	-
245	परसु तनय छत्रु प्रजापति, शंकर तनय परसु प्रजापति	359	कच्चा कवेलू	9	-
246	बालेया प्रजापति तनय हलकईया	359	कच्चा कवेलू/आम-1	15	-
247	तुलसीया प्रजापति तनय बालेया, अनेत तनय तुलसीया प्रजापति, कमलेश तनय तुलसीया प्रजापति, देवेन्द्र तनय तुलसीया प्रजापति	359	कच्चा कवेलू/नीम-1	15	-
248	सुनील प्रजापति तनय तुलसीया प्रजापति	359	कच्चा कवेलू/बेर-1	34.86	-
249	विनोदा प्रजापति पुत्री तुलसीया	359	कच्चा कवेलू	18	-
250	कामता प्रजापति तनय किलकोटा	359	कच्चा कवेलू	16.8	-
251	छोटीबाई बेवा छोटी	351	कच्चा कवेलू	22	-
252	गोविंद दास प्रजापति तनय कामता	359	कच्चा कवेलू/खजूर-1	16.8	-
253	हंतराम प्रजापति तनय कामता	359	कच्चा कवेलू	16.8	-
254	संजु प्रजापति तनय कामता	359	कच्चा कवेलू	16.8	-
255	हरिदास प्रजापति तनय कामता	359	कच्चा कवेलू	15	-
256	केलाश तनय किलकोटा प्रजापति	359	कच्चा कवेलू	15	-
257	परमलाल प्रजापति तनय हलकईया	359	कच्चा कवेलू	11.65	-
258	संतोष प्रजापति तनय परमलाल	359	कच्चा कवेलू	11.65	-
259	बैनी प्रजापति तनय परमलाल	359	कच्चा कवेलू	11.65	-
260	सारेया प्रजापति तनय हलकईया	359	कच्चा कवेलू	13.3	-
261	पप्पू प्रजापति तनय सरिया प्रजापति	359	कच्चा कवेलू	13.3	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
262	कृपाल प्रजापति तनय सारिया	359	कच्चा कवेलू	13.3	-
263	धम्मू प्रजापति तनय हलकेया	359	सोमट शॉट	6.28	-
264	सुरेश प्रजापति तनय धम्मू	359	सोमट शॉट	6.28	-
265	लखन प्रजापति तनय धम्मू प्रजापति	359	सोमट शॉट	6.28	-
266	राजू प्रजापति तनय धम्मू प्रजापति	359	सोमट शॉट	6.28	-
267	दियराम प्रजापति तनय लक्ष्मण	360	कच्चा कवेलू/सरसा-1	18	-
268	सतीष प्रजापति तनय लक्ष्मण	360	कच्चा कवेलू/बेल-1, चिल्ला-1	35	-
269	सियाराम मिश्रा तनय बद्रीप्रसाद	313	कच्चा कवेलू	14.421	-
270	सदीप कमार मिश्रा तनय सियाराम	313	कच्चा कवेलू	14.421	-
271	सतीश मिश्रा तनय सियाराम	313	कच्चा कवेलू	14.421	-
272	परमलाल मिश्रा तनय पूरनलाल मिश्रा	313	कच्चा कवेलू डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	38.25 45.5 12.4	-
273	शम्मू मिश्रा तनय पूरनलाल	313	कच्चा कवेलू	38.25	-
274	वेजन्ती गुप्ता पाली रूपाकेश्वर	353/2	कच्चा कवेलू	16.75	-
275	रित्तु गुप्ता पाली रूपाकेश्वर	353/2	कच्चा कवेलू	16.75	-
276	रामकपाल गुप्ता तनय रूपाकेश्वर	353/2	सोमट शॉट	6.64	-
277	मोतालाल गुप्ता तनय रूपाकेश्वर	353/2	सोमट शॉट	6.64	-
278	धीरज गुप्ता तनय रूपाकेश्वर	353/2	सोमट शॉट	6.64	-
279	सुरेन्द्र विश्वरी तनय गनेश प्रसाद	353/2	दुकान	14	-
280	महेन्द्र कमार गुप्ता तनय गनेश	353/2	कच्चा कवेलू	21	-
281	नीरज विश्वरी तनय गनेश प्रसाद	353/2	कच्चा कवेलू	7	-
282	लालेया पाल पाली कल्ला	353/2	कच्चा कवेलू	32	-
283	ब्रजलाल मिश्रा तनय मकुदीलाल	313	कच्चा कवेलू	45	-
284	अंजय मिश्रा तनय ब्रजलाल	313	कच्चा कवेलू	24.75	-
285	संजय मिश्रा तनय ब्रजलाल	313	कच्चा कवेलू	24.75	-
286	आकाश मिश्रा तनय ब्रजलाल	313	कच्चा कवेलू	24.75	-
287	सूरज अहिरवार तनय दयाली	351	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	32 24	-
288	चउदा आदिवासी तनय भगोला	361	कच्चा कवेलू	12.375	-
289	नत्यू आदिवासी तनय चउदा	361	कच्चा कवेलू	29.25	-
290	अरोवन्द आदिवासी तनय चउदा	361	कच्चा कवेलू	74.8	-
291	बल्लु बसीर तनय बासिया, सुभाष तनय बल्लु बसीर	361	कच्चा कवेलू	9	-
292	शकरा आदिवासी तनय भूरा आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	31.5	-
293	रञ्जु आदिवासी तनय शंकरा	351	कच्चा कवेलू	29.9	-
294	गंगू सोर तनय अच्छे लाल	351	कच्चा कवेलू/सागोन-1, सीताफल-1, बेल-2 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	98.28 24.12 53.82	-
295	परन तनय गंगू सौर	351	कच्चा कवेलू	24.12	-
296	वीरन पाल तनय किशोरी लाल	351	कच्चा कवेलू	20	-
297	बचन पाल तनय मोहन पाल	351	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	20 54.12	-
298	नत्यू प्रजापति तनय सुखेया प्रजापति	359	सोमट शॉट	11.44	-
299	मातौ लाल प्रजापति तनय नत्यू प्रजापति	359	सोमट शॉट	7.92	-
300	कमलेश प्रजापति तनय नत्यू प्रजापति	359	सीमेंट शीट	7.92	-
301	कन्छेदी प्रजापति तनय सुखेया प्रजापति	359	सीमेंट शीट	10.56	-
302	नोनी बाई पाली राजू अहिरवार	365	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	25.3 12	-
303	रामचरण प्रजापति तनय लक्ष्मण	360	कच्चा कवेलू/चिल्ला-1	7.8	-
304	धनोराम प्रजापति तनय रामचरण	360	कच्चा कवेलू/बेल-1	7.8	-
305	असलम खान तनय फूल खान	335	कच्चा कवेलू/बेल-1, सागोन-2	18.225	-
306	नवोद खान तनय असलम खान	335	कच्चा कवेलू	18.225	-
307	असार खान तनय असलम खान	335	कच्चा कवेलू/सागोन-1	18.225	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
308	नत्यू रेकवार तनय रामप्रसाद	335	कच्चा कवेलू/जामून-1	57	-
309	सताष रेकवार तनय रामप्रसाद	326	कच्चा कवेलू	55.37	-
			कच्चा कवेलू	12	-
310	भगू आदिवासी तनय बिंदा आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	12	-
311	अनंतराम तनय भगू आदिवासी , दोपू तनय भगू आदिवासी, रामसिंह तनय भगू आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	12	-
312	चपा पुर्वी सिम्पु रेकवार, पष्ठा पुर्वी सिम्पु	324	कच्चा कवेलू	12	-
313	शकुन्तला पलीं बुकन आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	22.5	-
314	नेहा पुर्वी बुकन आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	24.75	-
315	गुलठाई तनय कमोदा आदिवासी	353	कच्चा कवेलू	32.5	-
316	डिल्ला आदिवासी तनय दलुवा	351	कच्चा कवेलू/सागोन-1, बेल-1	15.9	-
317	बाला आदिवासी तनय डिल्ला	351	कच्चा कवेलू/सागोन-1, बेल-1 पक्का RCC	28.52 18.6	-
318	बिहारी आदिवासी तनय डिल्ला	351	कच्चा कवेलू/सागोन-1	75	-
319	मुन्नू आदिवासी तनय बुद्धा	351	कच्चा कवेलू सोमेट शोट	20.88 45.58	-
			कच्चा कवेलू	12	-
320	सुरेन्द्र तनय मुन्नू आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	20	-
321	महेश तनय मुन्नू आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	20	-
322	गुमना आदिवासी तनय परोछत	353/2	कच्चा कवेलू	40.2	-
323	रोहेत तनय गुमना आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	40.6	-
324	पुत्रा आदिवासी तनय परोछत	353/2	कच्चा कवेलू	24	-
325	इन्द्रपाल सोर तनय गमना	353/2	कच्चा कवेलू	31.2	-
326	सतिया बाई आदिवासी पलीं परोछत	353/2	PM आवास कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	32 14.4 12	-
327	कालू आदिवासी तनय पत्तू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	19.25	-
328	माहन तनय मुल्ला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	8.16	-
329	कल्लू तनय मोहन आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	8.16	-
330	रमला आदिवासी पुर्वी पत्तू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	18.62	-
331	चन्दन आदिवासी तनय रमला	353/2	डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	85.6 21.15	-
332	विमला आदिवासी पलीं आशाराम	353/2	कच्चा कवेलू	46.8	-
333	उमराव तनय पत्तू आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	48.75	-
334	जोतेंद्र तनय उमराव आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	15	-
335	राजेंद्र तनय भगोला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	22.8	-
336	पत्तू आदिवासी तनय मधवा, जालिम तनय पत्तू आदिवासी, सीमाबाई पुर्वी पत्तू	353/2	कच्चा कवेलू	22.8	-
337	श्याम लाल आदिवासी तनय पत्तू	353/2	कच्चा कवेलू	47.2	-
338	राजाराम तनय श्यामलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	47.2	-
339	भक्त राम तनय श्यामलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	14	-
340	किस्सन तनय श्यामलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	28	-
341	गोलू तनय श्यामलाल आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	28	-
342	कल्ला सोर तनय अलमा	342	कच्चा कवेलू	40	-
343	सुनील तनय कल्ला आदिवासी	342	कच्चा कवेलू	37.5	-
344	परमलाल तनय कल्ला सोर	342	कच्चा कवेलू	37.5	-
345	राम पाल तनय कल्ला सोर	342	कच्चा कवेलू	33.75	-
346	ओमपाल तनय कल्ला सोर	342	कच्चा कवेलू	22.8	-
347	श्याम पाल तनय कल्ला	342	कच्चा कवेलू	22.5	-
348	शांति आदिवासी पलीं आनंदी	342	सोमेट शोट कच्चा कवेलू	23.94 27.5	-
349	कल्लू तनय भगोला आदिवासी	353/2	कच्चा कवेलू	48	-
350	आशाराम पाल तनय नदू पाल	353/2	कच्चा कवेलू/सागोन-1 कच्चा कवेलू	32 15.6	-
			कच्चा कवेलू	45	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
351	धनोराम पाल तनय शिमला पाल	353/2	कच्चा कवेलू/सीताफल-2	29.4	-
			सोमट शोट	22.5	-
352	लक्ष्मण पाल तनय धनोराम	353/2	सोमट शोट/बर-2	22.5	-
353	हरदास पाल तनय शिमला पाल	353/2	कच्चा कवेलू/सीताफल-2	35.88	-
			सोमट शोट	22.5	-
354	बेटी बाई आदिवासी पलो जदुवा	353/2	कच्चा कवेलू	35	-
			कच्चा कवेलू	21	-
355	अनोता पाल पलो मानेपाल	353/2	कच्चा कवेलू/बर-3, सागोन-1	15.6	-
			सोमट शोट	32	-
356	महेश पाल तनय मनिपाल	353/2	कच्चा कवेलू	35	-
357	लखन आदिवासी तनय संतोष आदिवासी, अनिल तनय लखन आदिवासी	347	कच्चा कवेलू	55.8	-
358	लोकन्द्र आदिवासी तनय लखन आदिवासी	347	कच्चा कवेलू	17.2	-
359	पार्वती सोर पुत्री बंदी	350	कच्चा कवेलू	17.2	-
360	हक्कु आदिवासी तनय संतोष आदिवासी	349	कच्चा कवेलू/बेल-1	45	-
361	मंगू आदिवासी तनय संतोष आदिवासी	350	कच्चा कवेलू	60	-
			कच्चा कवेलू	15	-
362	भोला आदिवासी तनय रुक्सइया	351	कच्चा कवेलू/सागोन-1	49	-
			कच्चा कवेलू	12	-
363	बिट्टो आदिवासी पलो नंदा आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	24	-
364	प्यारेलाल आदिवासी तनय होरालाल	347	कच्चा कवेलू/इमला-1	36	-
365	कंछेदी आदिवासी तनय प्यारेलाल	347	कच्चा कवेलू	36	-
366	रामचरन आदिवासी तनय प्यारेलाल	347	कच्चा कवेलू	15	-
367	वाला प्रसाद तनय फुलचंद वर्मा	348	कच्चा कवेलू	22.5	-
368	राजू बंसल तनय फुलेया	363	कच्चा कवेलू	24.5	-
369	भागोरथ बंसल तनय राजू बंसल	363	कच्चा कवेलू	19	-
370	अंजू बेवा रज्जू बंसोर	363	कच्चा कवेलू	19	-
371	बार आदिवासी तनय हल्कुआ	347	कच्चा कवेलू/बेरी-1	33.37	-
372	कहेया पाल तनय नंगा	351	कच्चा कवेलू	38.5	-
			कच्चा कवेलू	20.46	-
373	रामोतार पाल तनय कहेया पाल	351	कच्चा कवेलू	31.85	-
			कच्चा कवेलू	18.27	-
374	अरविन्द तनय कहेया पाल	351	कच्चा कवेलू	42.5	-
			कच्चा कवेलू	12	-
375	राम बाई पाल पलो मोहन पाल	351	कच्चा कवेलू	23.45	-
			कच्चा कवेलू	28.35	-
376	अवधलाल पाल तनय मोहन पाल	351	कच्चा कवेलू	51.83	-
			कच्चा कवेलू	14.06	-
377	अशोक पाल तनय अवधलाल	351	कच्चा कवेलू	14.06	-
378	जीतेंद्र तनय अवधलाल पाल	351	कच्चा कवेलू	14.06	-
379	जनकु आदिवासी तनय अच्छेलाल	1012	कच्चा कवेलू/बेर-1, सागोन-2	46.72	-
			कच्चा कवेलू	19.72	-
			कच्चा कवेलू	23.4	-
380	अजुदी पाल तनय धम्मु पाल	351	कच्चा कवेलू	25.8	-
381	रामदास अहिरवार तनय नथुवा, गोविन्द दास तनय रामदास अहिरवार	365	सीमेंट शीट	53.76	-
382	रामचरण तनय नथु अहिरवार	365	कच्चा कवेलू	28.7	-
383	मत्ती बंसोर तनय मेयादीन	363	कच्चा कवेलू	30	-
384	मानक पाल तनय धम्मु पाल	364	कच्चा कवेलू	52.36	-
			कच्चा कवेलू	17.5	-
385	सोहन पाल तनय धम्मु पाल	364	कच्चा कवेलू	47.74	-
			कच्चा कवेलू	25.9	-
386	रामरती पाल पलो हल्कुआ	364	कच्चा कवेलू	42.25	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
387	धम्मु पाल तनय हल्कुआ, सींता पाल पुत्री धम्म	364	कच्चा कवेलू	57.4	-
388	रामाकेशोर पाल तनय मोतीलाल पाल	364	कच्चा कवेलू/बर-2 कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	58.5 20 24	- - -
389	श्यामलाल अहिरवार तनय दयाली अहिरवार	351	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	32.83 40	- -
390	श्यामलाल पाल तनय रमेश पाल	364	कच्चा कवेलू	20.14	-
391	राजकिरण पाल तनय रमेश पाल	364	कच्चा कवेलू	20.14	-
392	किशोरी पाल तनय मुन्नीलाल	364	कच्चा कवेलू	35.4	-
393	विन्दावन पाल तनय मुन्नीलाल	364	कच्चा कवेलू	19.5	-
394	रामबाई पत्ती अच्छेलाल पाल	1012	कच्चा कवेलू	30	-
395	गणेश आदिवासी तनय हजारिया	353/2	कच्चा कवेलू	27.3	-
396	मदधू आदिवासी तनय हजारिया	353/2	कच्चा कवेलू	28.8	-
397	किराई आदिवासी तनय हजारिया	353/2	कच्चा कवेलू	25.16	-
398	ब्रज लाल सीर तनय ठकरा	1012	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	34 12 12	- - -
399	हरिलाल आदिवासी तनय बंदी	1012	कच्चा कवेलू	49.5	-
400	भागीरथ तनय धुम्ही पाल	351	कच्चा कवेलू	12	-
401	हरिराम मिश्रा तनय बालाप्रसाद मिश्रा	353	कच्चा कवेलू/आम-1, सीताफल-2 डबल कच्चा कवेलू टुकान	27.06 69.12 4	- - -
402	पंकज मिश्रा तनय हरिराम मिश्रा	353	कच्चा कवेलू	21.45	-
403	दोपक मिश्रा तनय हरिराम मिश्रा	353	कच्चा कवेलू	24	-
404	रामप्रकाश मिश्रा तनय हरप्रसाद मिश्रा	353	सीमेंट शीट/बर-1	31.95	-
405	रामाखेलन मिश्रा तनय कृष्ण अवतार मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	19.2	-
406	रजनीश मिश्रा तनय कृष्ण अवतार मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	19.2	-
407	राममनी मिश्रा तनय कृष्ण अवतार मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	19.2	-
408	कृष्ण अवतार मिश्रा तनय रामप्रसाद	313	डबल कच्चा कवेलू	42	-
409	रघुवर प्रसाद पाण्डेय तनय भागीरथ पाण्डेय	272/1	डबल कच्चा कवेलू/आम-1	42.75	-
410	अशोक कुमार पाण्डेय तनय रघुवर प्रसाद, आशुतोष पाण्डेय तनय अशोक कुमार	272/1	कच्चा कवेलू/सीताफल-1	23.75	-
411	प्यारेलाल रेकवार तनय रूपसइया रेकवार	324	कच्चा कवेलू	40.5	-
412	भगवानदास रेकवार तनय प्यारेलाल रेकवार	324	कच्चा कवेलू	20.25	-
413	गटिया रेकवार तनय सुल्ला रेकवार	324	सीमेंट शीट	25.83	-
414	धरमदास कुशवाहा तनय धुम्ही कुशवाहा	324	टीन शेड	15.17	-
415	मोहन कुशवाहा तनय धरमदास कुशवाहा	324	कच्चा कवेलू	15.17	-
416	लछमन कुशवाहा तनय धरमदास कुशवाहा	324	कच्चा कवेलू	15.17	-
417	कोमल कुशवाहा तनय धरमदास कुशवाहा	324	कच्चा कवेलू	15.17	-
418	हरदयाल कुशवाहा तनय धुम्ही कुशवाहा	324	सीमेंट शीट	3.2375	-
419	हीरालाल कुशवाहा तनय हरदयाल कुशवाहा	324	सीमेंट शीट	3.2375	-
420	ब्रजगोपाल कुशवाहा तनय हरदयाल कुशवाहा	324	सीमेंट शीट	3.2375	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
421	रामचरण कुशवाहा तनय हरदयाल कुशवाहा	324	सीमेंट शोट	3.2375	-
422	अयोध्या कुशवाहा तनय कंथो कुशवाहा	324	टीन शेड	12.95	-
423	दीनदयाल तनय धुधी कुशवाहा		टीन शेड	23.56	-
424	महेश कुशवाहा तनय दीनदयाल कुशवाहा	324	कच्चा कवेलू	15.17	-
425	उमाशकर कुशवाहा तनय दीनदयाल कुशवाहा	324	कच्चा कवेलू	15.17	-
426	जगदीश कुशवाहा तनय दीनदयाल कुशवाहा	324	कच्चा कवेलू	15.17	-
427	हनुमत रेकवार तनय कुंजीलाल रेकवार	324	कच्चा कवेलू/बर-2 दूकान	33.55 6.25	-
428	सुमित तनय हनुमत रेकवार	324	कच्चा कवेलू	33.55	-
429	रामसेवक तनय हनुमत रेकवार	324	दूकान	6.25	-
430	परमलाल रेकवार तनय कुंजीलाल रेकवार	324	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	26.22 8.4	-
431	लक्ष्मी पुत्री परमलाल रेकवार	324	कच्चा कवेलू	26.04	-
432	गनेश दुबे तनय कवलदीन दुबे	324	कच्चा कवेलू	59.15	-
433	प्रभु द्विवेदी तनय कवलदीन द्विवेदी	324	कच्चा कवेलू	49.14	-
434	आमप्रकाश द्विवेदी तनय कवलदीन द्विवेदी	324	डबल कच्चा कवेलू	31.54	-
435	प्रेमनारायण मिश्रा तनय दुग्गा प्रसाद	313	कच्चा कवेलू	40.95	-
		313	डबल कच्चा कवेलू	54.05	-
436	धन्यु पाल तनय हल्कू पाल	353/2	कच्चा कवेलू	33.48	-
437	वीरन्द्र मिश्रा तनय हनुमत प्रसाद मिश्रा	324	डबल कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू सोमेट शोट	50.37 21 40 32 15.64	-
438	तुलसा पाण्डेय तनय मुकेश पाण्डेय	324	डबल कच्चा कवेलू डबल कच्चा कवेलू	21.73 19.8	-
439	बुद्धप्रकाश मिश्रा तनय गजाधर मिश्रा	324	डबल कच्चा कवेलू/ आम-1 कच्चा कवेलू	38.76 18.5	-
440	विष्णुकान्त तनय बुद्धप्रकाश मिश्रा	324	टीन शेड डबल कच्चा कवेलू	14.1 34.65	-
441	आनंदी सेन तनय परमलाल सेन	353/2	कच्चा कवेलू/बर-1	63.24	-
442	ब्रजेश तनय आनंदी लाल सेन	353/2	कच्चा कवेलू	23.52	-
443	राजकुमार सेन तनय आनंदी लाल सेन	353/2	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	48.15 16.64	-
444	बलराम सेन तनय आनंदी सेन	353/2	कच्चा कवेलू दूकान	16.64 9	-
445	जीतेंद्र तनय बलराम सेन	353/2	कच्चा कवेलू	30.24	-
446	राश्म पुत्री बलराम सेन	353/2	कच्चा कवेलू	30.24	-
447	लखन सेन तनय परमलाल सेन	353/2	कच्चा कवेलू	49.28	-
448	रविन्द्र तनय हीरा लाल सेन	353/2	कच्चा कवेलू	29.48	-
			कच्चा कवेलू	28.08	-
449	द्वारका मिश्रा तनय डिल्लीपत मिश्रा	324	टीन शेड/बर-4 तीन माझेल कच्चा कवेलू	19.52 16.34	-
450	अखलेश मिश्रा तनय डिल्लीपत मिश्रा	324	कच्चा कवेलू	27.9	-
			कच्चा कवेलू	25.2	-
			कच्चा कवेलू	29.4	-
451	लोकन्द्र मिश्रा तनय डिल्लीपत मिश्रा	324	कच्चा कवेलू/जामुन-1, सागोन-1 डबल कच्चा कवेलू	28.56 40.18	-
			कच्चा कवेलू	26	-
452	स्वामी प्रसाद मिश्रा तनय ललता प्रसाद	324	कच्चा कवेलू/बर-4	14.56	-
453	राम बिहारी मिश्रा तनय डिल्लीपत मिश्रा	324	कच्चा कवेलू	14.56	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
			कच्चा कवेलू	14.5	-
			डबल कच्चा कवेलू	41.6	-
454	रूपकुमारी पुत्री डिल्लीपत मिश्रा	324	डबल कच्चा कवेलू	33.62	-
455	रामकुमारी मिश्रा पत्नी स्व. रामबहादुर मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	15.75	-
456	अक्षय मिश्रा तनय रामबहादुर मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	15.75	-
457	अकित मिश्रा तनय रामबहादुर मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	15.75	-
458	रामनिवास द्विवेदी तनय बिहारी लाल	313	डबल कच्चा कवेलू/ बेर-4	34	-
459	आशोष पुत्र रामनिवास द्विवेदी	313	कच्चा कवेलू	20	-
460	हिमाशी पुत्री रामनिवास द्विवेदी	313	कच्चा कवेलू	20	-
461	खुशी पुत्री रामनिवास द्विवेदी	313	कच्चा कवेलू	20	-
462	नेहा पुत्री रामनिवास द्विवेदी	313	कच्चा कवेलू	20	-
463	विष्णुकान्त तनय रामनिवास द्विवेदी	313	डबल कच्चा कवेलू	43.5	-
			कच्चा कवेलू	26.1	-
464	प्रेमबाई द्विवेदी पत्नी स्व. बिहारी लाल द्विवेदी	313	टीन शेड/खजूर-1	18.75	-
			डबल कच्चा कवेलू	31.25	-
465	श्रीनिवास द्विवेदी तनय बिहारी द्विवेदी	313	पक्का RCC/ नौबू-1, बेर-3	22.8	-
			कच्चा कवेलू	10.2	-
			कच्चा कवेलू	6	-
466	रमाकांत द्विवेदी तनय बिहारी द्विवेदी	313	टीन शेड/ बेर-4, नौबू-1	18.75	-
			डबल कच्चा कवेलू	31.25	-
			कच्चा कवेलू	8	-
467	लक्ष्मीकान्त द्विवेदी तनय बिहारीलाल द्विवेदी	313	डबल कच्चा कवेलू/ बेर-3	62.5	-
			कच्चा कवेलू	31.25	-
			दुकान	6.25	-
			टीन शेड	26.25	-
468	रानी बाई मिश्रा पत्नी स्व. रामरतन मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	36	-
469	सतीश मिश्रा तनय स्व. रामरतन मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/ बेर-2	36	-
			कच्चा कवेलू	12.71	-
470	शोला दुबे वेवा जानकी दुबे	272/1	सोमट शोट	70	-
471	भागबली दुबे तनय जानकी दुबे	272/1	कच्चा कवेलू/ बेर-1	59.4	-
			डबल कच्चा कवेलू	60.06	-
472	आकाश तनय भागबली दुबे	272/1	कच्चा कवेलू	30	-
473	विकास तनय भागबली दुबे	272/1	कच्चा कवेलू	30	-
474	गीता मिश्रा वेवा हरिश्वंद्र	313	डबल कच्चा कवेलू/अमरूद-1, आम-1	43.8	-
475	ओमेत कुमार मिश्रा तनय हरिश्वंद्र	313	कच्चा कवेलू/अमरूद-1, आम-1	61.75	-
476	रामप्यारे तनय देवकीनंदन चौबे, दिनेश तनय रामप्यारे चौबे	351	कच्चा कवेलू	24	-
477	संजय मिश्रा तनय जयप्रकाश मिश्रा, राजेंद्र तनय जयप्रकाश मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	32	-
478	रघुवर प्रसाद चौबे तनय बंसु	334	कच्चा कवेलू/अमरूद-1, नौबू-1	25.8	-
			कच्चा कवेलू	23.8	-
479	सुनीता चौबे पत्नी वेवा रामगोपाल	334	डबल कच्चा कवेलू/नौबू-1, अमरूद-1	56	-
			डबल कच्चा कवेलू	10	-
480	भारती चौबे पुत्री रामगोपाल	324	डबल कच्चा कवेलू	24	-
481	सचिन चौबे तनय रामगोपाल	324	डबल कच्चा कवेलू	35.75	-
482	रामकुमार चौबे तनय रघुवर	334	कच्चा कवेलू/अमरूद-1, अनार-1	42.5	-
			कच्चा कवेलू	10	-
483	आनेल तनय रामकुमार चौबे	334	कच्चा कवेलू	10	-
484	सावित्री सानी वेवा सियाराम	324	कच्चा कवेलू	28.2	-
485	गनेश प्रसाद सानी तनय हलके	324	कच्चा कवेलू	10.4	-
486	राजाराम सानी तनय हलके	324	कच्चा कवेलू	73.6	-
487	परमलाल तनय पूरन लाल मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	73.6	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
488	राजू मिश्रा तनय सुदर लाल मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू/सीताफल-2, आम-1, अनार-2	36	-
			कच्चा कवेलू	37.6	-
			टीन शेड	24	-
489	राजेश कुमार शर्मा तनय नथू प्रसाद शर्मा	313	टीन शेड	15	-
490	राकेश रेकवार तनय रामप्रसाद	326	कच्चा कवेलू/बेर-1	30.08	-
491	मनोज रेकवार तनय राकेश	326	कच्चा कवेलू	30.08	-
492	रुष्णी रेकवार तनय राम प्रसाद	326	PM आवास/कट्टहल-1	35.15	-
493	पुनिया रेकवार वेवा रामप्रसाद	326	कच्चा कवेलू	22.4	-
494	कल्लू रेकवार तनय रामप्रसाद	326	कच्चा कवेलू	20.8	-
			कच्चा कवेलू	18.4	-
			कच्चा कवेलू	33.6	-
			कच्चा कवेलू	9	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			टीन शेड	35.75	-
495	भेयालाल रेकवार तनय पांखेया	334	कच्चा कवेलू	14.19	-
496	मोहन तनय पांखेया रेकवार	334	कच्चा कवेलू	14.19	-
497	भूपन्द्र तनय मोहन रेकवार	334	कच्चा कवेलू	14.19	-
498	किरन पिता मोहन रेकवार	334	कच्चा कवेलू	14.19	-
499	अशोक कुमार मिश्रा तनय गयाप्रसाद मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू	38.25	-
500	गोपाल कुमार मिश्रा तनय अशोक कुमार	334	कच्चा कवेलू	38.25	-
501	राममिलन मिश्रा तनय मातादीन मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू	10	-
			टीन शेड	12.75	-
502	भगवत मिश्रा तनय मातादीन मिश्रा	334	टीन शेड	12.75	-
503	सीता राम मिश्रा तनय हरिशंकर मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू	10	-
			डबल कच्चा कवेलू	45.65	-
			कच्चा कवेलू	8.6	-
			डबल कच्चा कवेलू	91.8	-
			टीन शेड	26	-
			कच्चा कवेलू	24.48	-
504	रामनारायण मिश्रा तनय डिल्लीपत मिश्रा	334	सीमेंट शीट/जंगल जलेबी-1	58.5	-
505	विनीता मिश्रा पत्नी रामदरश मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू	33.97	-
506	कोति मिश्रा पुत्री रामदरश	334	डबल कच्चा कवेलू	33.97	-
507	अमन तनय रामदरश मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू	42.12	-
508	रोहित तनय रामदरश मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू	42.12	-
509	मोहित तनय रामदरश मिश्रा	334	डबल कच्चा कवेलू/01 कुआं, आम -1	42.12	-
510	संदीप रावत तनय मातीलाल	334	कच्चा कवेलू	28.8	-
511	ब्रजलाल आदिवासी तनय ठाकुरा आदिवासी	334	कच्चा कवेलू	26.24	-
512	गुरुदेव मिश्रा तनय गौमती प्रसाद मिश्रा	334	सीमेंट शीट/अमरुद-2	38.25	-
513	रवि प्रताप मिश्रा तनय गुरुदेव मिश्रा	334	सीमेंट शीट/नीबू-2, आम-2	38.25	-
514	रामप्रताप मिश्रा तनय गुरुदेव मिश्रा	334	सीमेंट शीट	38.25	-
515	सोमप्रताप मिश्रा तनय गुरुदेव मिश्रा	334	सीमेंट शीट	38.25	-
516	सूर्यप्रताप मिश्रा तनय गुरुदेव मिश्रा	334	सीमेंट शीट	38.25	-
517	प्रतीभा मिश्रा पुत्री गुरुदेव मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	15.12	-
518	प्रतिमा मिश्रा पुत्री गुरुदेव मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	15.12	-
519	सोनाली मिश्रा पुत्री गुरुदेव मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	15.12	-
520	आशा पुत्री गौमती प्रसाद, उषा पुत्री गौमती प्रसाद, सरोज पुत्री गौमती प्रसाद	334	सीमेंट शीट/आम-1	40.42	-
521	हरिशंकर मिश्रा तनय बाबूलाल मिश्रा	334	टीन शेड	24.3	-
			कच्चा कवेलू	42.75	-
522	प्रतीं पुत्री हरिशंकर मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	26	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
523	प्रमोद मिश्रा तनय हरिशंकर मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	45.21	-
524	संतोष मिश्रा तनय हरिशंकर मिश्रा	334	कच्चा कवेलू	78	-
			कच्चा कवेलू	37.44	-
525	राम शरण मिश्रा तनय हर गोविंद मिश्रा	272/1	सोमट शोट	33.8	-
526	मोहनी मिश्रा पुत्री राम शरण मिश्रा	272/1	सीमेट शीट	33.8	-
527	अवधेश कुमार मिश्रा तनय राम शरण मिश्रा	272/1	सीमेट शीट	33.8	-
528	अजय मिश्रा तनय रामकिशोर मिश्रा	278	सीमेट शीट	39.27	-
529	बृजलाल तनय फुल्ला आदिवासी	351	कच्चा कवेलू/नीम-1	91	-
530	धनोराम आदिवासी तनय बृजलाल	1012	कच्चा कवेलू	21	-
531	भूरा आदिवासी तनय रूपसईया	1012	कच्चा कवेलू/नीम-1	55.5	-
532	गुता आदिवासी वंवा भलुवा	1012	कच्चा कवेलू/बेर-2, सिरसा-1	33.12	-
			कच्चा कवेलू	17.02	-
533	जमना आदिवासी तनय भलुवा	1012	कच्चा कवेलू/बेर-2, कटहल-1	22.4	-
			कच्चा कवेलू	25.2	-
534	सिल्का तनय लल्ला आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	22.75	-
535	धरमदास तनय सिल्का आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	22.75	-
536	मोहन तनय सिल्का आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	22.75	-
537	मुज्जी तनय सिल्का आदिवासी	351	कच्चा कवेलू	22.75	-
538	प्यारी आदिवासी वंवा धनुवा	1012	कच्चा कवेलू/नीम-1, सागोन-1	20	-
539	सुरेश आदिवासी तनय मोतीलाल	353/2	कच्चा कवेलू	20	-
540	बंदू आदिवासी तनय मोतीलाल	353/2	कच्चा कवेलू/कपास-1	32	-
541	छाटलाल आदिवासी तनय धनुवा	353/2	कच्चा कवेलू/बेरी-1	66.65	-
542	चरन सौर तनय भलुवा सौर	361	कच्चा कवेलू/बेर-4, नीम-1	60.63	-
			कच्चा कवेलू	9.9	-
			कच्चा कवेलू	13.8	-
543	लड़कू आदिवासी तनय भोला	361	कच्चा कवेलू/बेरी-1	26.4	-
544	मुलुवा आदिवासी तनय बंदी	361	कच्चा कवेलू	37.8	-
			कच्चा कवेलू	24.84	-
545	चंदू आदिवासी तनय गुलू	353/2	कच्चा कवेलू	35	-
			कच्चा कवेलू	18.4	-
546	सुरेन्द्र तनय सुकरता आदिवासी	361	कच्चा कवेलू	22	-
547	देलीप तनय सुकरता आदिवासी	361	कच्चा कवेलू	22	-
548	रामगोपाल तनय परसु आदिवासी	361	कच्चा कवेलू	22	-
549	नरेंद्र कुमार तनय जगन्नाथ पाण्डेय	334	डबल कच्चा कवेलू	12.15	-
550	सुदामा प्रसाद पाण्डेय तनय जगन्नाथ	334	डबल कच्चा कवेलू	12.15	-
551	जगन्नाथ पाण्डेय तनय खिल्लू पाण्डेय	334	डबल कच्चा कवेलू	12.15	-
552	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय जगन्नाथ	334	डबल कच्चा कवेलू	12.15	-
553	लखनलाल पाण्डेय तनय नाथू राम पाण्डेय	334	डबल कच्चा कवेलू	12.15	-
554	नील पाण्डेय पनी रामस्वरूप	334	डबल कच्चा कवेलू	12.15	-
555	आनेल कुमार पाण्डेय तनय नाथूराम पाण्डेय	334	कच्चा कवेलू	12.15	-
556	ब्रजेश पाण्डेय तनय नाथूराम	334	कच्चा कवेलू	12.15	-
557	अरविन्द मिश्रा तनय रामकिशोर	313	डबल कच्चा कवेलू	51.92	-
			कच्चा कवेलू	26.86	-
558	उक्कृष्ण मिश्रा तनय अरविन्द मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	28	-
559	ब्रजन्द्र मिश्रा तनय रामकिशोर	313	डबल कच्चा कवेलू	35.49	-
			कच्चा कवेलू	28	-
560	पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा तनय रामकिशोर	313	डबल कच्चा कवेलू	34	-
			कच्चा कवेलू	16.32	-
561	रामकिशोर मिश्रा तनय पनी लाल मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/आम-2, बेल-1	38.5	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
562	प्रमोद मिश्रा तनय रामाकेशोर	313	डबल कच्चा कवेलू/नीबू-1	90.5	-
563	जितेन्द्र मिश्रा तनय रामाकेशोर	313	टीन शेड /करोंदा-1 कच्चा कवेलू	65.16 28	-
564	ओंकेत मिश्रा तनय रामाकेशोर	276	कच्चा कवेलू कच्चा कवेलू	71.78 25	-
565	अंजना मिश्रा पल्ली ज्योति प्रकाश	313	कच्चा कवेलू	18	-
566	रामकृपाल उपाध्याय तनय बद्रीप्रसाद	313	कच्चा कवेलू	22.5	-
567	सौताराम मिश्रा तनय गिरजा प्रसाद	313	डबल कच्चा कवेलू पक्का RCC	21.15 27	-
568	संतोषी मिश्रा पल्ली विनोद मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	19.2	-
569	रामदेव मिश्रा तनय शालिग्राम	313	डबल कच्चा कवेलू/ अमरुद-1, नीबू-1	56.16	-
		313	कच्चा कवेलू	21.84	-
570	वीरेंद्र मिश्रा तनय रामदेव मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	30	-
571	विकास मिश्रा तनय रामदेव मिश्रा	313	डबल कच्चा कवेलू	30	-
572	थोरज कुमार तनय रामदेव मिश्रा	313	कच्चा कवेलू/नीबू-1 कच्चा कवेलू	34.86 29.64	-
573	रामसेवक यादव तनय बाबूलाल	273	कच्चा कवेलू	36.21	गैर रिहायशी
574	रामदत्त मिश्रा तनय शिवकुमार	313	पक्का RCC	27.9	-
575	प्रियंका पुत्री रामदत्त मिश्रा	313	कच्चा कवेलू	27.95	-
576	दीपक मिश्रा तनय रामदत्त	313	कच्चा कवेलू	46.64	-
577	रामरत्न मिश्रा तनय शिवकुमार	313	कच्चा कवेलू	34.8	-
578	शिवम मिश्रा तनय रामरत्न	313	कच्चा कवेलू तीन मंजिल कच्चा कवेलू	46.64 9	-
579	कृष्णा कुमार मिश्रा तनय रामप्रसाद	313	पक्की ईट दीवार	48	-
580	रूपकुमारी मिश्रा वेवा रघुनाथक मिश्रा	313	टीन शेड/नीबू-1	25.5	-
581	रूचे मिश्रा पुत्री रघुनाथक मिश्रा	313	टीन शेड	22.5	-
582	रूपाली मिश्रा पुत्री रघुनाथक मिश्रा	313	टीन शेड	18.9	-
583	मुस्कान मिश्रा पुत्री रघुनाथक मिश्रा	313	टीन शेड	22.5	-
584	विष्णुदत्त मिश्रा तनय गोमती प्रसाद	313	कच्चा कवेलू डबल/बेर-11 कच्चा कवेलू	45 32.4	-
585	विनायक मिश्रा तनय विष्णुदत्त मिश्रा	313	कच्चा कवेलू डबल कच्चा कवेलू	33.6 32.4	-
586	बालगोपाल तनय जगतराज विश्वकर्मा	313	टीन शेड	13.5	-
587	मुकेश तनय दुर्ढा पाल	351	कच्चा कवेलू	28.8	-
588	भागीरथ पाल तनय जगन्नाथ पाल	342	कच्चा कवेलू	9	-
589	मुकेश तनय संकरा आदिवासी	342	कच्चा कवेलू	16.2	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण / परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
590	पवन तनय संकरा आदिवासी	342	कड़ा कवेलू	16.2	-
591	रामगोपाल त नय संकरा आदिवासी	342	कड़ा कवेलू	16.2	-
592	घन्नु तनय बल्लु आदिवासी	342	कड़ा कवेलू	31.5	-

2. सार्वजनिक प्रयोजन दौधन बाँध परियोजना के द्वाव क्षेत्र में आने वाली आवादी के भू-अर्जन हेतु।  
 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरक्षण कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी (रा.) विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पार्थ जैसवाल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
 क्रमांक-05-भू-अर्जन-2025**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्णिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

#### --: अनुसूची :-

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला :— सीधी  
 (ख) तहसील :— बहरी  
 (ग) ग्राम :— भितरी  
 (घ) पटवारी हल्का :— भितरी  
 (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :— रकमा 1.3210 हेठो

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकमा हेठो में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	362	0.1300	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) परिचय मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	359/1	0.0150		
3	359/2	0.0150		
4	359/3	0.0150		
5	359/4	0.0150		
6	360	0.0300		

7	276/1	
8	276/2	0.0060
9	276/3	
10	352	0.0060
11	352/1128	0.0080
12	356	0.0660
13	355	0.0320
14	354	0.0320
15	351/1/1/1	
16	351/1/2/1	
17	351/1/3/1	0.0350
18	351/2/1/3	
19	351/2/1/1	
20	586	0.0220
21	585/1	0.0310
22	584/1	0.0020
23	588/1/1	
24	588/1/3	0.0180
25	589/1	0.0540
26	583/1/1	
27	583/2/1	0.0500
28	591/1	
29	591/2	
30	591/3	
31	591/4	0.0400
32	591/5	
33	591/6	
34	591/7	
35	592	0.0160
36	582/1	
37	582/2	0.0350
38	582/3	
39	580/1	
40	580/2	0.0320
41	580/3	
42	580/4	
43	593	0.0160
44	594	0.0160
45	577	0.1520
46	620	0.0320
47	619	0.0320
48	358	0.0500
49	576/1	0.0600
50	623/1	0.0320
51	623/2/1	
52	623/2/2	
53	623/2/3	0.0400
54	623/2/4	
55	623/2/5	
56	623/2/6	
57	579/1	0.0240
58	579/2	0.1200
59	621	0.0020
60	581	0.0400
कुल किता—60		1.3210

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 07—भू—अर्जन—2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगराली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	:-	सीधी
(ख) तहसील	:-	बहरी
(ग) ग्राम	:-	कुबरी
(घ) पटवारी हल्का का नाम	:-	कुबरी
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.7810 है०

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकबा है० में	धारा—12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
1	2	3	4	5		
1	25	0.0420	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगराली रेल लाईन के निर्माण हेतु		
2	26	0.0750				
3	24	0.0340				
4	32	0.0250				
5	33/1	0.0600				
6	33/2					
7	33/3					
8	33/4					
9	33/5					
10	31/1	0.0240				
11	31/2					
12	35/1					
13	35/2/1	0.0880				
14	35/3					
15	30					
16	123	0.3580				
17	36/1	0.0010				
18	694	0.0700				
कुल किता—18		0.7810				

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## क्रमांक 09—भू—अर्जन—2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्णिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

## —: अनुसूची :—

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	:-	सीधी
(ख) तहसील	:-	बहरी
(ग) ग्राम	:-	<u>बेलहा</u>
(घ) पटवारी हल्का	:-	बेलहा
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-	रकबा	1.2972 हेतु

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकबा हेतु में	धारा—12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1040	0.0750	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	1029	0.0550		
3	1028	0.0196		
4	1026/1/1			
5	1026/2	0.0180		
6	1026/8			
7	1004	0.0430		
8	1003	0.0320		
9	994/1/1	0.0060		
10	984	0.0180		
11	983	0.0400		
12	982	0.0600		
13	981/2			
14	981/1	0.1300		
15	1030/1			
16	1030/2			
17	1030/3	0.0296		
18	975	0.0400		
19	1039	0.0030		
20	1031/1			
21	1031/2	0.0180		

22	1031/3		
23	1031/4		
24	993/1/1		
25	993/1/2	0.0200	
26	993/1/3		
27	974	0.0200	
28	968	0.1300	
29	966	0.0280	
30	965	0.0280	
31	964	0.0200	
32	963	0.0200	
33	960	0.0030	
34	961	0.0080	
35	985	0.0040	
36	1381	0.0500	
37	1382	0.0400	
38	1368	0.0450	
39	1367	0.0330	
40	1366/2		
41	1366/1	0.0300	
42	1365	0.0200	
43	1364	0.0800	
44	1360	0.0800	
45	1305	0.0040	
46	564	0.0060	
47	565	0.0100	
48	566	0.0140	
49	567/1	0.0080	
50	568/2		
51	568/3		
52	568/4		
कुल किता—52		1.2972	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 1278—भू—अर्जन—2024

सीधी, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :—

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	:-	सीधी
(ख) तहसील	:-	बहरी
(ग) ग्राम	:-	खैरा
(घ) पटवारीहल्का	:-	खैरा
(ङ.) निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.219 हेक्टेयर

क्र0	खसरा नं0	अर्जनहेतुरकवा हेक्टेयर में	धारा—12 के अन्तर्गतप्राधिकृतअधिकारी	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	860/2/1	0.0400	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
	862/1/1			
2	862/1/2	0.0120		
	862/2			
3	863	0.0700		
4	973	0.0420		
5	981	0.0550		
कुल किता—7		0.219		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 1780—भू—अर्जन—2024

चैंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्थीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :—

(1) भूमि का वर्णन—

- |                                    |    |                   |
|------------------------------------|----|-------------------|
| (क) जिला                           | :- | सीधी              |
| (ख) तहसील                          | :- | बहरी              |
| (ग) ग्राम                          | :- | <u>बहरी</u>       |
| (घ) पटवारीहल्का का नाम व नम्बर     | :- | <u>बहरी</u>       |
| (ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल | :- | रक्खा 0.0540 हेठा |

क्र०	खसरा नं०	अर्जनहेतुरक्खा हेठा में	धारा—12 के अन्तर्गतप्राधिकृतअधिकारी	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	P-942	0.0540	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
कुल किता—01		0.0540		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 1782—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

- |                                      |    |                  |
|--------------------------------------|----|------------------|
| (क) जिला                             | :- | सीधी             |
| (ख) तहसील                            | :- | बहरी             |
| (ग) ग्राम                            | :- | <u>मऊ</u>        |
| (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :    | —  | खैरा             |
| (ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल : | —  | रकबा 0.6670 हेठो |

क्र०	खसरा नं०	अर्जनहेतुरकवा हेठो में	धारा—12 के	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
			अन्तर्गतप्राधिकृतअधिकारी	
1	2	3	4	5
1	246/1 246/2	0.0040	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	247	0.0200		
3	248	0.0240		
4	249/1/1 249/1/2 249/2	0.0320		
5	252	0.0060		
6	253	0.0010		
7	291	0.0020		
8	290/1 290/2	0.0350		
9	289	0.0350		
10	288	0.0400		
11	286	0.0420		
12	285	0.0450		
13	284	0.0300		

<b>14</b>	<b>283</b>	<b>0.0100</b>		
	<b>282/4</b>			
<b>15</b>	<b>282/3</b>			
	<b>282/2</b>	<b>0.0600</b>		
	<b>282/1</b>			
<b>16</b>	<b>280/1</b>	<b>0.0600</b>		
<b>17</b>	<b>301/1</b>	<b>0.0600</b>		
<b>18</b>	<b>277</b>	<b>0.0030</b>		
<b>19</b>	<b>164/1</b>			
	<b>164/2</b>	<b>0.0920</b>		
	<b>163/1</b>			
<b>20</b>	<b>163/2/2</b>			
	<b>163/2/3</b>			
	<b>163/2/4</b>			
	<b>163/2/5</b>			
<b>21</b>	<b>162/1</b>	<b>0.0500</b>		
<b>22</b>	<b>120/1/4</b>	<b>0.0140</b>		
<b>कुल किता-34</b>		<b>0.6670</b>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 1784—भू—अर्जन—2024

चौंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

- |                                      |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| (क) जिला                             | :- | सीधी           |
| (ख) तहसील                            | :- | बहरी           |
| (ग) ग्राम                            | :- | करोदी          |
| (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :-   | :- | कुशियारी       |
| (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- | :- | रकबा 0.3180 है |

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकवा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
1	2	3	4	5		
1	336	0.0020	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर-सिगरैली रेल लाइन के निर्माण हेतु		
2	338	0.0060				
3	340/1	0.0400				
4	340/2	0.0400				
5	341/1	0.0100				
6	341/2	0.0100				
7	341/3	0.0100				
8	277/1/1	0.0500				
9	277/1/2					
10	277/1/3					
11	277/1/4					
12	277/2	0.0800				
13	277/3					
14	276/1					
15	276/2					
16	276/3/1					
17	276/3/2	0.0100				
18	276/3/3					
19	274/1					
20	274/2 274/3					
22	274/4					
23	339/1/1	0.0600				
24	339/1/2					
25	339/2					
कुल किता-25		0.3180				

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 1786—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विरिन्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	सीधी
(ख) तहसील	बहरी
(ग) ग्राम	कुचवाही
(घ) पटवारी हल्का	कुचवाही
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	रकबा 0.6780 हेतु

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकवा हेतु में	धारा—12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	60	0.2100	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) परिचय मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	59	0.0220		
3	59/1532	0.0240		
4	73	0.0250		
5	74/1/1			
6	74/1/2			
7	74/2			
8	74/3			
9	74/4			
10	75	0.0060		
11	76	0.0320		
12	101	0.0020		
13	104	0.0020		
14	105/1			
15	105/2			
16	105/3			

17	248/1	0.050		
18	248/2			
19	43	0.0020		
20	44	0.0250		
21	56	0.0180		
22	57	0.0160		
23	142	0.0250		
24	138	0.0140		
25	131	0.0260		
26	130	0.0320		
27	120/1	0.0140		
28	119/4			
29	119/5	0.018		
30	119/6			
31	114	0.0120		
32	115	0.0020		
33	140	0.0160		
34	52	0.0100		
35	123	0.0080		
36	128	0.0160		
कुल किता-36		0.6780		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 1788—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, अर्थात् कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997—98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला
  - (ख) तहसील
  - (ग) ग्राम
  - (घ) पटवारी हल्का
  - (ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
- : सीधी
- : बहरी
- : मझरेटी खुद
- : मझरेटी कोठार
- : रकवा 0.0400 हेटो

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हेटो में	धारा—12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		3	4	5
1	2	3	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
1	9/1			
2	9/2			
3	9/3			

4	9/4	0.0400		
5	9/5			
6	9/6			
7	9/7			
8	9/8			
9	9/9			
कुल किता-09		0.0400		

भूमि का नवका (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 1790—भू—अर्जन—2024

चौंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| (क) जिला                           | :- सीधी             |
| (ख) तहसील                          | :- बहरी             |
| (ग) ग्राम                          | :- कोठार            |
| (घ) पटवारी हल्का                   | :- कुबरी            |
| (ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल | :- रकबा 0.6210 हेठा |

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हेठा में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	25/2	0.1200	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	ललितपुर—सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	24/1	0.0060		
3	21/1	0.130		
4	21/2			
5	9	0.0800		
6	8	0.0350		
7	7	0.0900		
8	33/2	0.0100		
9	6/2			
10	6/1	0.0400		

11	4/2	0.0700		
12	4/1			
13	3/1/6/2	0.0400		
14	3/1/6/1			
15	3/1/5			
	कुल किता-15	0.6210		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 1792—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्तिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बंध है तथा यह कार्य ललितपुर—सीधी—सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

#### (1) भूमि का वर्णन—

- |                                   |    |                  |
|-----------------------------------|----|------------------|
| (क) जिला                          | :- | सीधी             |
| (ख) तहसील                         | :- | बहरी             |
| (ग) ग्राम                         | :- | <u>रजिहा</u>     |
| (घ) पटवारी हल्का                  | :- | खेरा             |
| (ड.) निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल | :- | रकबा 0.1300 हेठो |

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकबा हेठो में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	25	0.0600	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर—सिंगरौली रेल
2	26/1	0.0700	पश्चिम मध्य रेलवे रीवा	लाईन के निर्माण हेतु
	कुल किता - 2	0.1300		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल  
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्रमांक 2835—भू—अर्जन—2024

सतना, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील— नागौद
- (ग) नगर / ग्राम — बम्हौर
- (घ) क्षेत्रफल— 5.2280 हेक्टेक्टर

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हे. में)
1	वृन्दावन हाईट्स एण्ड मल्टी डेवलपर्स इण्डिया प्रा लि सतना द्वारा डायरेक्टर पार्टनर भावेश खिलावनी पिता प्रदीप खिलावनी शंकर राजदेव पिता भगवान दास राजदेव दिलीप मोर्डिया पिता छगाराम मोर्डिया राजेश खिलावनी पिता गोपीचन्द खिलावनी मनीष पिता डा के एल मधनानी जाति दनसस पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/1/2 शा. 18/2	0.0120
2	पीयूष श्रीवास्तव पिता आर.के.श्रीवास्तव सा.जवाहरनगर सतना चक्रेश जैन पिता कैलाश चन्द्र जैन सा.पुराना पावर हाउस सतना भूमि स्वामी	34/1	
3	डा०राजेन्द्र नायक पिता केदारनाथ नायक पता सतना सतना मध्यप्रदेश	34/1/2	
4	डा०राजेन्द्र नायक पिता केदारनाथ नायक पता सतना सतना मध्यप्रदेश	34/1/3	
5	पीयूष श्रीवास्तव पिता आर.के.श्रीवास्तव सा.जवाहरनगर सतना चक्रेश जैन पिता कैलाश चन्द्र जैन सा.पुराना पावर हाउस सतना भूमि स्वामी	34/2/1	
6	वृन्दावन हाईट्स एण्ड मल्टी डेवलपर्स इण्डिया प्रा लि सतना द्वारा डायरेक्टर पार्टनर भावेश खिलावनी पिता प्रदीप खिलावनी शंकर राजदेव पिता भगवान दास राजदेव दिलीप मोर्डिया पिता छगाराम मोर्डिया राजेश खिलावनी पिता गोपीचन्द खिलावनी मनीष पिता डा के एल मधनानी जाति दनसस पता नागौद	34/2/2	
7	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	34/2/4	
8	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	34/2/6	
9	आमित खिलावनी पिता मोहनलाल खिलावनी पता सतना मध्य प्रदेश सतना	34/3/1	
10	दीपक पिता नाशयण प्रसाद परदेशी मोहनलाल पिता विठ्ठल खिलावनी पता सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/3/3	
11	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	34/4/1	
12	वृन्दावन हाईट्स एण्ड मल्टी डेवलपर्स इण्डिया प्रा लि सतना द्वारा डायरेक्टर पार्टनर भावेश खिलावनी पिता प्रदीप खिलावनी शंकर राजदेव पिता भगवान दास राजदेव दिलीप मोर्डिया पिता छगाराम मोर्डिया राजेश खिलावनी पिता गोपीचन्द खिलावनी मनीष पिता डा के एल मधनानी जाति दनसस पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/4/2	
13	दीपक पिता नाशयण प्रसाद परदेशी मोहनलाल पिता विठ्ठल खिलावनी पता सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/4/3	
14	पीयूष श्रीवास्तव पिता आर.के.श्रीवास्तव सा.जवाहरनगर सतना चक्रेश जैन पिता कैलाश चन्द्र जैन सा.पुराना पावर हाउस सतना भूमि स्वामी	34/4/5	

15	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	35/2	0.1120
16	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	22/1	0.2600
17	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	22/2	0.3180
18	रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजेंद्र पिता पीडी गुप्ता पता थर्ड फ्लोर डी बी सिटी मॉल एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	20/1	0.1320
19	कौशल किशोर पिता राजकिशोर ,नवलकिशोर पिता राजकिशोर ,अनिल कुमार पिता राजकिशोर , अतुल पिता राजकिशोर , विपिन पिता राजकिशोर,श्रीकृष्ण पिता रामकृष्ण खत्री पता बम्हौर नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	13/1/1	0.5300
20	रीना सिंह पल्ली रमेश सिंह पता रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	13/1/2/1/1	
21	रमेश सिंह पिता दशरथ सिंह पता रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	13/2/1	
22	रेवति सिंह पिता दशरथ सिंह पता सा.स्टार आटोमोबाइल्स, मुख्यारगंज सतना,मध्य प्रदे सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13/3	
23	रमेश सिंह पिता दशरथ सिंह पता स्टार आटो.मुख्यारगंज सतना रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71	0.2470
24	अखिल कुमार पिता ज्ञानप्रसाद जाति जायवसवाल पता नागौद नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72	0.1170
25	अखिल कुमार पिता ज्ञानप्रसाद जाति जायवसवाल पता नागौद नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	707	0.0660
26	अंकुर कुमार आकांक्षा कुमारी पिता अर्जीत कुमार जाति जयसवाल पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	710/1	0.0560
27	अमित कुमार पिता ज्ञान प्रसाद जैसवाल पता सतना रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	705/1	0.1320
28	अखिलकुमार पिता ज्ञान प्रसाद जाति जायवाल पता नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	705/2	
29	अंकुर पिता अखिल कुमार जायवाल सा. सतना भूमिस्वामी	705/3	
30	अखिल कुमार पिता ज्ञानप्रसाद जाति जायवसवाल पता नागौद नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	712	0.2250
31	अखिलकुमार पिता ज्ञान प्रसाद जाति जायवाल पता नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	654/1	0.0120
32		856	0.0420
33	विजेन्द्र सिंह पिता नारायण प्रताप सिंह पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	719/1/1	0.0050
34	रामकिशोर पिता रामधनी कोटवार पता बम्हौर नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	719/2/1	0.0310
35	शिवपाल पिता रामधनी दहायत पता बरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	719/2/2	0.0670
36	बलराम पिता रामधनी कोटवार पता बरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	719/2/3	0.0660
37	मु.रामकुमारी बेवा बाबूलाल, पुष्टेन्द्र, सीता, गीता पिता बाबूलाल राजेन्द्र नावा. सर. मां रामकुमारी पति बाबूलाल पता सा.बरहा भूमि स्वामी	719/2/4	0.0110
38	मृगेन्द्र सिंह बघेल पिता बृजेन्द्र सिंह बघेल पता ऐपटेक सिटी सोहावल सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	721/1/1	0.0790
39	पवन कुमार जैन पिता बाबूलाल जैन पता सा. सतना भूमि स्वामी	721/1/2	
40	रामकिशोर पिता रामधनी कोटवार पता बम्हौर नागौद सतना मध्यप्रदेश	721/2	

41	रामप्रकाश पिता रामस्वरूप बागरी पता सा.बसुधा भूमि स्वामी	724/1/1/1/1	
42	सुरेश प्रसाद पिता रामस्वरूप बागरी पता सा.बसुधा भूमि स्वामी	724/1/1/1/2	
43	राजेश प्रसाद पिता रामस्वरूप बागरी पता सा.बसुधा भूमि स्वामी	724/1/1/1/3	
44	सतेन्द्र पिता रामस्वरूप बागरी पता सा.बसुधा भूमि स्वामी	724/1/1/1/4	
45	रचना सिंह पत्नी गगनेन्द्र प्रताप सिंह परिहार पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	724/1/2/1/1/1	0.1870
46	विजय प्रताप पिता रामस्वरूप बागरी पता बसुधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	724/2/1/1	
47	राजप्रताप पिता रामस्वरूप बागरी पता बसुधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	724/2/1/2	
48	सतेन्द्र पिता रामस्वरूप बागरी पता सा.बसुधा भूमि स्वामी	724/2/1/3	
49	श्रीमती कमलेश पत्नी उद्र प्रसाद बागरी पता सा.बरेठिया भूमि स्वामी	724/2/2	
50	रामप्रकाश पिता रामस्वरूप बागरी पता सा.बसुधा भूमि स्वामी	723/1	0.0110
51	रामनारायण पिता रामकिशोर ब्रा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/1/1	0.0660
52	लक्ष्मी प्रसाद पिता रामकिशोर ब्रा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/2/1	0.0340
53	रामलाल पिता रामकिशोर ब्रा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/3/1	0.0340
54	रामलाल पिता रामकिशोर ब्रा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	727/1	0.0080
55	हरीश कुमार पिता मोहनलाल जाति कायरथ पता सितपुरा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	729/1	0.1220
56	धर्मेन्द्र कुमार पिता हरीश कुमार श्रीवास्तव पता सितपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	729/2	0.0790
57	धर्मेन्द्र कुमार पिता हरीश कुमार श्रीवास्तव पता सितपुरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	728/2	0.0070
58	वीरेन्द्र सिंह पिता युवराज सिंह चौहान पता सा.देह भूमि स्वामी	731/1/1	0.0720
59	सुरेन्द्र सिंह पिता युवराज सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	731/1/2	0.0620
60	सविता पत्नी वीरेन्द्र सिंह चौहान पता बम्हौर नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	731/3/2/1	0.0380
61	जयश्री सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह चौहान पता बम्हौर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	731/3/2/2	0.0380
62		732/1	0.0120
63	श्वेता सिंह बेवा कृष्णपाल सिंह पता सा.देह नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी दीपेन्द्र सिंह पिता कृष्णपाल सिंह पता सा.देह नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	734/1/1	0.1460
64	संजय सिंह पिता रामसुजान सिंह पता सतना रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	734/2/1	0.1460
65	श्वेता सिंह बेवा कृष्णपाल सिंह पता सा.देह नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी दीपेन्द्र सिंह पिता कृष्णपाल सिंह पता सा.देह नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	735/1	0.0110
66	जनार्दन प्रसाद द्विवेदी पिता हीरालाल द्विवेदी पता कटिया रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	738/1/2/1	0.1930
67	रामपाल पिता फतुआ चमार पता बम्हौर नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	754/1	0.1400

68	डा श्रीमती रेखा माहेश्वरी पिता डासन्जय माहेश्वरी पता बिरला हास्पिटल कम्पाउंड सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती सारिका कालरा पत्नी डानवीन कालरा पता बिरला हास्पिटल कम्पाउंड सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती डा आभा पाठक पत्नी डाराजीव पाठक पता सेमरिया चौक सतना, सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	754/2/1/1	0.0110
69	डा श्रीमती रेखा माहेश्वरी पिता डासन्जय माहेश्वरी पता बिरला हास्पिटल कम्पाउंड सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती सारिका कालरा पत्नी डानवीन कालरा पता बिरला हास्पिटल कम्पाउंड सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती डा आभा पाठक पत्नी डाराजीव पाठक पता सेमरिया चौक सतना, सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	754/2/2/1	0.0110
70	मो. हकीक वल्द जनाथ मो. जहूर मुसलमान मो. अल्ताफ वल्द मरहूम मो. जहूर मुसलमान सा.सोहावल भूमि स्वामी	754/3/2	0.0220
71	अच्छेलाल पिता फतुआ चमार पता बम्हौर नागोद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	754/4	0.0700
72	रामपाल पिता फतुआ चमार पता बम्हौर नागोद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	754/5	0.0700
73	डा श्रीमती रेखा माहेश्वरी पिता डासन्जय माहेश्वरी पता बिरला हास्पिटल कम्पाउंड सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती सारिका कालरा पत्नी डानवीन कालरा पता बिरला हास्पिटल कम्पाउंड सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती डा आभा पाठक पत्नी डाराजीव पाठक पता सेमरिया चौक सतना, सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	758/3/1/1	0.0070
74	प्रतिमा सिंह पत्नी चंद्रपाल सिंह पता भरहुतनगर सतना रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मीना सिंह पत्नी सत कुमार सिंह पता सितपुरा नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	762/1/1	0.0600
75	एस के कहान एण्ड कम्पनी कामनी जौहर पत्नी सुनील जौहर पता कटनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	762/2	0.0200
76	प्रतिमा सिंह पत्नी चंद्रपाल सिंह पता भरहुतनगर सतना रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मीना सिंह पत्नी सत कुमार सिंह पता सितपुरा नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	763/1/1	0.0110
77	भगवत तनय रामकिशोर ब्रा. सा.सोहावल भूमि स्वामी	761	0.0170
78	अयोध्या पिता रामस्वरूप मल्लाह पता देवरा, मध्य प्रदेश सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	766/1/1	0.1020
79	रामगरीब पिता देविया मलाह पता देवरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	768/2	0.0490
80	श्वेता अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल 1/2 पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी सुबोध अग्रवाल पिता विश्वनाथ अग्रवाल पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	769	0.0200
81	राजेन्द्र बन्टू नन्द किशोर पिता लक्ष्मीप्रसाद जाति मल्लाह पता देवरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	770/3	0.0120
82	वृन्दावन हाईट्स एण्ड मल्टी डेवलपर्स इण्डिया प्रा लि सतना द्वारा डायरेक्टर पार्टनर भावेश खिलावनी पिता प्रदीप खिलावनी शंकर राजदेव पिता भगवानदास राजदेव दिलीप मोर्डिया पिता छगाराम मोर्डिया राजेश खिलावनी पिता गोपीचन्द खिलावनी मनीष पिता डा के एल मधनानी जाति दनसस पता नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1/2	0.0050

83	अखिलकुमार पिता ज्ञान प्रसाद जाति जायवाल पता नागौद सतना मध्यप्रदेश	655/1/1	0.3340
84	अमित कुमार पिता ज्ञान प्रसाद जैसवाल पता सतना रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	655/1/2/1/1	
85	अनिल कुमार साकेत पिता राजकुमार साकेत पता पन्ना नाका उमरी रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	655/1/2/3/1	
86	राजकुमार साकेत पिता दुकौड़ीलाल साकेत पन्ना नाका उमरी रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	655/1/2/4/1	
87	श्रीमती कान्ती पत्नी अखिल कुमार जायवाल सा. सतना भूमिस्वामी	655/1/3	
88	अखिलकुमार पिता ज्ञान प्रसाद जाति जायवाल पता नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	655/1/4	
89	अमित कुमार पिता ज्ञान प्रसाद जैसवाल पता सतना रघुराजनगर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	655/1/5	
90	श्रीमती वन्दना पत्नी अमित कुमार जायवाल सा. सतना भूमिस्वामी	655/2/1	
91	श्रीमती कान्ती पत्नी अखिल कुमार जायवाल सा. सतना भूमिस्वामी	655/2/2	
<b>कुल योग—</b>			<b>5.2280</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक हैं—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरारी व्यपर्वतन परियोजना में बरारी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया सबू माझनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

**भू—अर्जन प्र०क्र० अ४२/२४-२५ पत्र क्र०४१/...../भू—अर्जन/२४ दि० ०७/०१/२०२५**  
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उच्चेहरा	पिपरीकला	1.1400	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना (मोप्र)	बरारी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा के अंतर्गत लगभग वितरिका की पाँडी गरादा माझनर नं-1 के निर्माण हेतु
<b>क०</b>				<b>खसरा नं.</b>	
<b>(1)</b>				<b>अर्जित रकवा हे. में</b>	
<b>1</b>				<b>(2)</b>	
<b>2</b>				<b>(3)</b>	
<b>3</b>				<b>1058</b>	
				<b>0.0360</b>	
				<b>1057</b>	
				<b>0.0100</b>	
				<b>1061</b>	
				<b>0.0420</b>	

4	1062	0.0310
5	1064	0.0150
6	1107/1/1	0.0100
7	417	0.1250
8	416/1	0.0040
9	17/2/1	0.3270
10	1927/2/2/1	0.0630
11	2050/2/1	0.0100
12	2073/1	0.0200
13	2073/2	
14	1533	0.0800
15	1900/2	0.0300
16	1900/3	
17	1900/4	
18	1911/1	0.0270
19	1911/2	
20	1911/3	
21	1169/1	0.0900
22	1169/2	
23	1169/3	
24	1169/4	
25	1169/5	0.0300
26	1133/1	
27	1133/2	
	योग रकबा हे.मे.-	0.9500
	बीस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि हे.मे-	0.1900
	कुल रकबा हे.मे -	1.1400

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूआर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 72—भू—अर्जन—2025

सतना, दिनांक 9 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का बर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला - सतना
- (ख) तहसील - नागौद
- (ग) नगर / ग्राम - उरदान
- (घ) क्षेत्रफल - 3.4120 हेक्टेक्टर

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकवा (हे.में.)
1	चम्पावाई वेवा अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ज्योति पुत्री अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रोशनी पुत्री अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आकांक्षा पुत्री अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सतेन्द्र पुत्र अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अर्पित पुत्र अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अभिषेक पुत्र अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1022	0.0670
2	रामशंकर सोनी पुत्र रामकरण पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1020	0.0090
3	चम्पावाई वेवा अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ज्योति पुत्री अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रोशनी पुत्री अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आकांक्षा पुत्री अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सतेन्द्र पुत्र अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अर्पित पुत्र अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अभिषेक पुत्र अवधनरेश सोनी 1/7 पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1023	0.0170
4	रामशंकर सोनी पुत्र रामकरण पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1009	0.0560
5	रामशंकर सोनी पुत्र रामकरण पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1019	0.0160
6	मैयादीन कुशवाहा पुत्र श्री गया प्रसाद कुशवाहा पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1002	0.0630
7	रामसरोज कुशवाहा पुत्र श्री गया प्रसाद कुशवाहा पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1003/1	0.0020
8	मैयादीन कुशवाहा पुत्र श्री गया प्रसाद कुशवाहा पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1001	0.0010
9	दिनेश कुमार शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा जाति ब्रा पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1000/2	0.1020
10	भगवानदास शर्मा पिता रामलाल शर्मा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1000/3	0.1460
11	जयशंकर शर्मा पिता रामलाल शर्मा जाति ब्रा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1000/4	0.1460

12	रामशंकर सोनी पुत्र रामकरण पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1004	0.0180
13	मैयादीन कुशवाहा पुत्र श्री गया प्रसाद कुशवाहा पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1010	0.0090
14	रामसरोज कुशवाहा पुत्र श्री गया प्रसाद कुशवाहा पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1011	0.0210
15	रामसरोज कुशवाहा पुत्र श्री गया प्रसाद कुशवाहा पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1018	0.0250
16	घानू पिता भगौना जाति कुम्हार पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	908	0.0690
17	रामदेव सिंह पिता नामालुम सिंह पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	907/1/1/1	0.0500
18	कृष्णराज सिंह पिता धुवराज सिंह पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	907/1/1/2	0.2300
19	रावेन्द्र अनीता सुरेन्द्र सुनैना दीपचन्द्र पिता रामदास गुप्ता जाति गुप्ता पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	907/2	0.2050
20	रामदेव सिंह पिता नामालुम सिंह पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	906/1	0.0110
21	केदारनाथ पिता मानिकलाल बानी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	825	0.0490
22	गोविन्द प्रदीप गीता सावित्री कुशुमा पिता रामजियावन, मु.गोरी बाई देवा गोपी, अजीत, श्रीजीत, दीपचन्द्र पिता गोपी,कोल पता सा. देह भूमि स्वामी	824	0.0150
23	शिवा सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 1/2 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 1/2 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	823	0.0680
24	शिवा सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 1/2 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 1/2 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	822	0.0150
25	शिवा सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 1/2 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 1/2 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	819	0.0700
26	वीरेन्द्र कुमार पिता रामसिया कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	806	0.0180
27	वीरेन्द्र कुमार पिता रामसिया कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	807/2	0.0510
28	मनीराम पिता रामसिया कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	809/1	0.0660
29	मिठाइलाल पिता रामसिया कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	811/1	0.0060
30	मनीराम पिता रामसिया कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	811/3	0.0320
31	महेन्द्र ऊर्फे लाखन सिंह पिता रामसिया कुर्मी जाति कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	794	0.0060
32	लालजी सिंह पिता अमृतलाल पटेल पता सा. देह भूमि स्वामी	704	0.0030
33	महेन्द्र ऊर्फे लाखन सिंह पिता रामसिया कुर्मी जाति कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	706	0.0120
34	ददन पिता सिरिया काढी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	708	0.0750
35	अमृतलाल पिता दद्दी कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	707	0.0520
36	त्रिवेणी शंकर पुत्र विहारीलाल ब्रा पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	710	0.0350
37	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	464	0.0970
38	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	463	0.0020

39	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	451	0.0200
40	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	452	0.0640
41	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	445	0.0740
42	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	455	0.0170
43	अयोध्या प्रसाद पिता श्रीकृष्ण कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	444	0.0140
44	अर्चना पल्ली उदयकान्त त्रिपाठी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	428	0.0360
45	ललन सिंह पिता अमृतलाल कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	429	0.0370
46	अर्चना पल्ली उदयकान्त त्रिपाठी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	427	0.0220
47	दद्दू पिता परसाद जाति काढी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	430	0.0720
48	इन्द्रिरा सिंह बेवा रामलाल सिंह 1/3 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धूधराज रिह पिता रामलाल सिंह 1/3 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रहलाद सिंह पिता रामलाल सिंह 1/3 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	347	0.0320
49	इन्द्रिरा सिंह बेवा रामलाल सिंह 1/3 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धूधराज सिंह पिता रामलाल सिंह 1/3 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रहलाद सिंह पिता रामलाल सिंह 1/3 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	346	0.0630
50	इयामकली पल्ली जगदीश प्रसाद कुशवाहा पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	311	0.0720
51	इयामकली पल्ली जगदीश प्रसाद कुशवाहा पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	310	0.0610
52	रामकिशोर पिता रोशनलाल कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312	0.0020
53	इयामकली पल्ली जगदीश प्रसाद कुशवाहा पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309	0.0420
54	रामकिशोर पिता रोशनलाल कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	308	0.0300
55	रामकरण पिता गबडू काढी पता सा. महेन्द्रपुर भूमि स्वामी	283	0.0060
56	रामकरण पिता गबडू काढी पता सा. महेन्द्रपुर भूमि स्वामी	284	0.0520
57	रामकरण पिता गबडू काढी पता सा. महेन्द्रपुर भूमि स्वामी	285/1	0.0010
58	जानकी बेवा गबडू काढी 1/5 भाग फूलचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग दुलीचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग रामेश्वरपिता गबडू काढी 1/5 भाग सीराबाई पिता गबडू काढी 1/5 भाग पता महेन्द्रपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	285/2	0.0100
59	जानकी बेवा गबडू काढी 1/5 भाग फूलचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग दुलीचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग रामेश्वरपिता गबडू काढी 1/5 भाग सीराबाई पिता गबडू काढी 1/5 भाग पता महेन्द्रपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	286	0.0380
60	सूरजदीन पिता वन्टा काढी पता सा. देह भूमि स्वामी	288/1	0.0720
61	जानकी बेवा गबडू काढी 1/5 भाग फूलचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग दुलीचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग रामेश्वरपिता गबडू काढी 1/5 भाग सीराबाई पिता गबडू काढी 1/5 भाग पता महेन्द्रपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	282	0.0060

62	जानकी बेवा गबडू काढी 1/5 भाग फूलचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग दुलीचन्द्र पिता गबडू काढी 1/5 भाग रामेश्वरपिता गबडू काढी 1/5 भाग सीराबाई पिता गबडू काढी 1/5 भाग पता महेन्द्रपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	281	0.0360
63	लक्ष्मीकान्त पिता श्यामलाल पयासी पता सा.देह भूमि स्वामी	280/1	0.0040
64	जमुना प्रसाद पिता शुक्ला चमार जाति चमार पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	276	0.0330
65	जमुना प्रसाद पिता शुक्ला चमार जाति चमार पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	275	0.0410
66	कृष्ण कुमार पिता गिरिजा प्रसाद गौतम पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	254	0.0870
67	कृष्ण कुमार पिता गिरिजा प्रसाद गौतम पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	255	0.0010
68	कौशिल्या बेवा ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वदना पुत्री ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अलोक पुत्र ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विकास पुत्र ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अर्जुन पुत्र ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मंजूसा पुत्री ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मंजूसा पुत्री ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	258	0.0370
69	कौशिल्या बेवा ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वदना पुत्री ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अलोक पुत्र ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विकास पुत्र ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अर्जुन पुत्र ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मंजूसा पुत्री ददोली कोटवार 1/6 पता उरदान नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	257	0.1050
70	गिरजा देवी बेवा रामनाथ ब्रा 1/3 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गिरजा देवी बेवा रामनाथ ब्रा 1/3 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरेन्द्र कुमार पिता रामनाथ ब्रा 1/3 पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	243	0.1040
71	रमेश कुमार पिता सीताराम ब्रा पता खमरेही नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242	0.0320
72	मु. गुजरातिया देवी बंवा मंगल कुम्हार पता सा. खैरा	909	0.0530
73	मु. गुजरातिया देवी बंवा मंगल कुम्हार पता सा. खैरा	910	0.0310
74	मु. गुजरातिया देवी बंवा मंगल कुम्हार पता सा. खैरा	911	0.0320
75	मु. गुजरातिया देवी बंवा मंगल कुम्हार पता सा. खैरा	912	0.0170
77	मिठाईलाल पिता रामसिया कुर्मी जाती कुर्मी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	813	0.0060
78	दहू पिता परसाद जाती काढी पता उरदान नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	442	0.0150
	<b>कुल योग-</b>		<b>3.4120</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चंदकुईया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 71—भू—अर्जन—2025

सतना, दिनांक 9 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- उचेहरा
- (ग) नगर / ग्राम - पत्तौड़ा
- (घ) क्षेत्रफल- 0.4260 हेक्टर

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	प्रस्तावित रकवा
1	शकुन्तला पल्ली संतलाल प्रजापति, रवि कुमार पिता संतलाल प्रजापति, अजय कुमार पिता संतलाल प्रजापति, पुष्पा पुत्री संतलाल प्रजापति पता नौवस्ता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	227/1/1/2/1	0.0070
2	शकुन्तला पल्ली संतलाल प्रजापति, रवि कुमार पिता संतलाल प्रजापति, अजय कुमार पिता संतलाल प्रजापति, पुष्पा पुत्री संतलाल प्रजापति पता नौवस्ता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/1/1/2/1	0.2540
3	तारादेवी बेवा वीरु सिंह रज्जन पिता वीरु सिंह नैनादेवी बेवा सुशील सिंह नंदनी नावा०रामवावू नावा०कुंती नावा०पिता सुशील सिंह संर मॉ नैना देवी पता स्ता०पथरौधा भूमि स्वामी	312/1/3	0.1650
	<b>कुल योग-</b>		<b>0.4260</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र. 239—भू—अर्जन—2024

नीमच, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

चूंकि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवंबर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपकरणों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अध्यासारथनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत जिला अंक्षय उर्जा अधिकारी, मध्य प्रदेश उर्जा विभाग निगम लिमि नीमच द्वारा ग्राम-बड़ी तहसील सिंगोली में प्रस्तावित 500 मेगावॉट सौलर पार्क परियोजना के लिए निजी भूमि की आवश्यकता होने से आपसी सहमति से भूमि क्य किए जाने हेतु जिसका वर्णन नीचे अकिता किया गया है,

म.प्र.आपसी सहमति से भूमि क्य नीति की कण्डिका 11(1) के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जा रही है। उक्त क्य नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग भोपाल के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का वर्णित भूमि में स्वत्व के विषय में कोई दावा आपत्ति हो तो विज़ाप्ति प्रकाशन के तरपरात 15 दिवस के भीतर अवकाश दिवरी को छोड़कर कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावद के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आष्टियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

**“अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण:**  
**‘रीवा अल्दा मेगा सौलर लिमि.द्वारा 500 मेगावॉट सौलरपार्क परियोजनांतर्गत’**

क्षेत्रफल कुल रकबा 5.49 हेक्टर

ग्राम का नाम: बड़ी एवं कवई, तहसील सिंगोली जिला नीमच

संक्र.	खारेदार का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित सर्व नंबर भूमि	कुल रकबा	अधिग्रहित भूमि का रकबा	रिगार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	नंदा पिता चतरा, जाति बलाई निवासी—ग्राम बड़ी तहसील सिंगोली	बड़ी	43 / 1 / 1	1.000	1.000	अहस्तांतरणीय 165(7) के प्रावधानों के तहत
2	घीसा पिता टोड्डू जाति सुतार निवासी—बड़ी तहसील सिंगोली	बड़ी	45 / 1	1.490	1.490	अहस्तांतरणीय 165(7) के प्रावधानों के तहत
3	प्यारचंद पिता पन्ना हि. 1 / 2 हरिराम पिता पन्ना 1 / 2 निवासी—कवई तहसील सिंगोली	कवई	237 / 6 / 1	2.000	2.000	अहस्तांतरणीय 165(7) के प्रावधानों के तहत
4	प्यारा पिता पन्ना जाति बलाई निवासी—कवई तहसील सिंगोली	कवई	237 / 2 / 1	1.000	1.000	अहस्तांतरणीय 165(7) के प्रावधानों के तहत
<b>कुल योग:</b>				<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	

हिमांशु चन्द्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश  
रा. प्र. क्र. 0096 / B-121-2024-25 क्र.-5404-रीडर-1-भू-अर्जन-2024.  
भीकनगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

प्ररूप—“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3171/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 30.07.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने डिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— खेरदा, प.ह.नं.— 14/93, रा.नि.म.—भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— खेरदा, प.ह.नं.— 14/93,	95/1	0.079
			95/2	0.024
			96	0.096
			98/2/2	0.108
			101/3	0.054

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिटेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— खेरदा, प.ह.नं.— 14 / 93.	103/1/2	0.041
			103/2	0.050
			103/4	0.048
			103/5	0.012
			103/6	0.028
			121/3	0.058
			103/7	0.028
			103/8	0.036
			121/2	0.186
कुल योग			14	0.848

रा. प्र. क्र. 0094 / B-121-2024-25 क्र.-5406—रीडर-1—भू—अर्जन—2024

प्ररूप—“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 3167/भू—अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 30.07.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने डिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— बंझर, प.ह.नं.— 37 / 99, रा.नि.म.—भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
<b>खरगोन</b>	<b>भीकनगांव</b>	<b>ग्राम— बंझर, प.ह.नं.— 37 / 99,</b>	320/2	0.031
			322/2	0.096
			324/2	0.031
			437/5	0.048
			324/3	0.038
	325	0.005		
	433/1/1	0.027		
	433/1/2	0.072		
	433/1/3	0.039		
	435/13	0.062		
	433/4	0.015		
	435/1	0.042		
	436/2/1/2	0.043		
	436/7	0.050		
	437/3	0.132		
	440/6	0.027		
	441/1	0.082		
	442/2	0.026		
	445/1/1	0.053		
	445/2/2	0.036		
	589/1	0.113		
	589/3	0.024		
	589/4	0.015		
	592/2	0.051		
	595/1/1	0.005		
<b>कुल योग</b>		<b>25</b>	<b>1.163</b>	

रा. प्र. क्र. 0095 / B-121-2024-25 क्र.-5408-रीडर-1-भू-अर्जन-2024

प्ररूप—“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3165/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 30.07.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— रोश्या, प.ह.नं.— 14/93, रा.नि.म.—भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— रोश्या, प.ह.नं.— 14/93,	12 13 15/3 18/7 18/8	0.007 0.007 0.027 0.036 0.084

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— रोश्या, प.ह.नं.— <b>14/93,</b>	31/2 33/1 33/2 35 37/3/2 38/2 44/4 44/5 45/1 45/2 45/3 45/4 46/7 159 161/2 162/1/1	0.015 0.066 0.038 0.026 0.048 0.072 0.042 0.038 0.019 0.018 0.018 0.012 0.040 0.048 0.115 0.079
<b>कुल योग</b>			<b>21</b>	<b>0.855</b>

रा. प्र. क्र. 0091 / B-121-2024-25 क्र.-5410-रीडर-1-भू-अर्जन-2024

प्ररूप—“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक— 3169/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 30.07.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत विछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— सोमला, प.ह.नं.— 36/98, रा.नि.मं.—भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सोमला, प.ह.नं.— 36 / 98,	114/1	0.072
			114/2	0.039
			115	0.051
			117	0.063
			127	0.063
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सोमला, प.ह.नं.— 36 / 98,	128/1/1	0.041
			128/1/2	0.036
			129/2	0.061
			130	0.010
			140/1	0.027
			140/2	0.007
			144/1	0.058
			157	0.082
			170/2	0.027
			171/2/1	0.031
			173/3	0.058
			175/1	0.012
			175/2/1	0.066
			175/2/2	0.048
			176	0.132
			181/4	0.066
			230	0.031
<b>कुल योग</b>			<b>22</b>	<b>1.081</b>

रा. प्र. क्र. 0093 / B-121-2024-25 क्र.-5412-रीडर-1-भू-अर्जन-2024

प्ररूप—“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3163/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 30.07.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने फ़िल्मन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— दौड़वा, प.ह.नं. 13, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

#### ॥ अनुसूचा ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— दौड़वा, प.ह.नं. 13	201/1 203/2 203/5 203/9 203/10	0.084 0.096 0.072 0.174 0.079
			240 241/1 241/2 261/4 261/7 261/8 261/9 262/2/1 262/1/2 262/2/3	0.014 0.014 0.019 0.051 0.030 0.030 0.036 0.036 0.087 0.072

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम—दौड़वा, प.ह.नं.—13	545	0.024
			546	0.163
			567/2	0.031
			569	0.090
			570	0.102
			573/2	0.051
			574	
			575/1/1	0.096
			578/1	0.048
			579/1	0.045
			586/1/1	0.018
			586/1/2	0.018
			586/2	0.048
			602/1	0.067
			602/2	0.017
			602/5	0.012
			602/3/1	0.012
			602/3/2	0.012
			602/4	0.018
			602/6	0.039
			602/7	0.041
			602/8	0.060
			611/1	0.041
			613	0.076
			617/1	0.048
			619	0.012
			705/1/1/2	0.012
			705/1/1/3	0.055
			709/1	0.036
			709/3	0.051
			711/2	0.064
			711/3/1	0.004
			711/3/2	0.016
			711/3/3	0.017
			712/2/6	0.053
			712/3	0.074
			722	0.202
			725/1/2	0.089
			कुल योग	52
				2.756

आंकाक्षा (करोटिया) अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश रा. प्र. क्र. 0023 / बी-121-2024-25 पत्र क्र.-09-रीडर-1-2024.  
खण्डवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2024, 02-01-2025  
प्ररूप—“घ”

## (नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 2572 /री-1/2024, खण्डवा, दिनांक 09.08.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.— 27, रा. नि.मं.—छैगांव माखन, तहसील— खण्डवा, जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.— 27,	380/2	0.018
			380/4	0.032
			433/3	0.005
			434/3	0.016
			435	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.— 27,	437/1	0.022
			437/2	0.020
			437/3	0.022
			437/4	0.010
			439/1	0.027
			439/2	0.032
			439/3	0.022
			440	0.040
			442	0.032
			444	0.014
			443	0.010
			445	0.020
			446	0.020
			447	0.024
<b>कुल योग</b>			<b>19</b>	<b>0.402</b>

रा. प्र. क्र. 0022/बी—121—2024—25 पत्र क्र.—11—रीडर—1—2024.

प्ररूप—“घ”

(नियम—6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 2578 /री—1/2024, खण्डवा, दिनांक 09.08.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—देशगांव, प.ह.नं.— 23, रा.नि.मं.—छैगांव माखन, तहसील— खण्डवा, जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—देशगांव, प.ह.नं.— 23,	1197	0.038
			1208/1	0.032
			1246	0.002
			1213/2	0.056
			1213/1/2	0.053
<hr/>			1213/1/3	0.011
			1265/1	0.032
				0.050
			1266/1/1	0.026
			1268/1	0.014
			1268/2/1	0.016
			1268/2/2	0.042
			1269	0.035
			1272/1	0.005
			1274	0.024
			1275	0.021
			1276/1/1	0.013
			1276/2	0.008
			1276/3	0.012
			1276/4	0.004
			1277	0.026
			1281	0.032
			1132/2	0.032
			1152	0.008
			1184	0.021
			1185/2	0.034
			1185/1	0.021
<b>कुल योग</b>			<b>26</b>	<b>0.668</b>

रा. प्र. क्र. 0024 / बी-121-2024-25 पत्र क्र.-13-रीडर-1-2024.

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 2578 /री-1/2024, खण्डवा, दिनांक 09.08.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने द्विरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-खजूरी, प.ह.न.- 26, रा.नि.म.- छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरण कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-खजूरी, प.ह.न.- 26,	4/3	0.002
			4/4	0.018
			4/5	0.016
			4/6	0.021
			9/5	0.022
			40/1	0.014
			41	0.018
			9/2	0.036
			9/6	0.014
			40/2	0.024
			51	0.019
			57	0.020
				0.042

			58	0.024
			53	0.003
			56/1	0.054
			193/3	0.017
			193/4	0.024
			200/1/1	0.013
			200/1/2	0.038
			202	0.012
			204	0.009
			205	0.021
			210	0.021
			209	0.037
<b>कुल योग</b>		<b>24</b>	<b>0.539</b>	

रा. प्र. क्र. 0019 / बी-121-2024-25 पत्र क्र.-15-रीडर-1-2025.

प्ररूप—“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 2578 /री-1/2024, खण्डवा, दिनांक 09.08.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम—छिरवेल, प.ह.नं.— 25, रा.नि.मं.—छैगांव माखन, तहसील— खण्डवा, जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—छिरवेल, प.ह.नं.— 25,	235/1	0.018
			235/2	0.022
			235/3	0.036
			310	0.046
			311	0.035
			312	0.112
			313	0.059
			1088	0.131
			1134	0.053
			314/2	0.054
			315	0.077
			317	0.041
			318	0.041
			322/5	0.132
			322/3	0.036
			322/4	0.036
			1082/13	0.038
			1082/14	0.029
			1087	0.009
			183/1	0.014
			1060	0.017
			183/2	0.016
			184	0.053
			185	0.003
			186/2	0.006
			187/1	0.036
			188	0.034
			191/3	0.036
			1070	0.022
			192/1	0.030
			193/2	0.026
			194	0.024
			197	0.027
			196	0.030
			198	0.046
			204/1	0.024
			204/2/1/1	0.010
			206	0.020
			970/1	0.018
				0.011
			970/2	0.014
			971/1	0.023
			974	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—छिरवेल, प.ह.न.— 25,	976	0.015
			1045/1/1	0.018
			1045/1/2	0.029
			1045/2	0.003
			1045/3	0.003
			1045/4	0.003
			1052/1	0.006
			1052/2	0.006
			1053	0.012
			1050	0.031
			1054	0.019
			1057	0.008
			1059	0.008
			1107	0.018
			1067/1	0.010
			1067/2	0.017
			1068/1	0.009
			1068/2	0.009
			1068/3	0.009
			1069	0.016
			1071	0.038
			1079/2	0.016
			1080	0.006
			1092	0.012
			1093	0.012
			1094/1	0.025
			1095/3	0.014
			1096	0.012
			1097	0.022
			1099	0.021
			1103/1	0.006
			1103/2	0.014
			1104/1/1	0.003
			1104/1/2	0.003
			1104/2	0.005
			1104/3	0.006
			1108	0.011
			490/1	0.016
			492/1	0.022
			492/2	0.021
			492/3	0.008
			492/4	0.010
			493/1	0.037
			493/2	0.022
			605/2	0.021
			605/3	0.027
			567/1	0.010
			605/4	0.016
			568	0.016
			605/1	0.026
			607	0.027
			628	0.101
			631	0.131
			633/1/1	0.026
			633/2	0.070
			648	0.127

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—छिरवेल प.ह.नं.—25	649	0.058
			683	0.005
			693/1/1	0.006
			693/1/2	0.048
				0.026
			693/2	0.006
			823	0.046
			825/1	0.003
			825/2	0.008
			833/2	0.074
			834/1	0.070
			834/2	0.027
			834/3	0.027
			834/5	0.020
			843/2	0.026
			941	0.040
			943	0.030
			946	0.059
			840	0.011
			841	0.016
			839	0.018
			497/1	0.010
			696/1	0.014
			696/2/1	0.013
			696/2/2	0.014
698	0.016			
699/2	0.006			
699/1	0.006			
707/3	0.012			
707/1	0.026			
707/4	0.013			
707/5	0.014			
707/2	0.025			
706	0.034			
569/2	0.056			
579	0.059			
590	0.030			
596	0.018			
595	0.038			
598	0.029			
604/1	0.030			
952/2	0.085			
953/1/2	0.070			
968	0.029			
कुल योग		<b>141</b>	<b>4.083</b>	

रा. प्र. क्र. 0020 / बी-121-2024-25 पत्र क्र.-17-रीडर-1-2025.

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 2578 /री-1/2024, खण्डवा, दिनांक 09.08.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-झिरन्या, प.ह.नं.- 26, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-झिरन्या, प.ह.नं.- 26,	287	0.031
			291	0.065
			292	0.022
			363	0.041
				0.027

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—झिरन्या, प.ह.नं.— 26,	365	0.019 0.024 0.016 0.077 0.064 0.067 0.022 0.108 0.029 0.041 0.024 0.040 0.038 0.035 0.034 0.046 0.039 0.038 0.029 0.015 0.015 0.036 0.007 0.029 0.051 0.039 0.012 0.019 0.039 0.021 0.021 0.048 0.010 0.010 0.043 0.021 0.014 0.019 0.035 0.003 0.061 0.034 0.010 0.024 0.035 0.022 0.003
			382/1	
			383/2	
			410	
			451/1	
			558	
			498	
			501	
			355	
			360	
			516	
			517	
			519	
			550	
			520	
			521	
			522	
			532	
			534	
			535	
			537	
			538	
			539	
			540	
			551	
			552	
			358	
			364	
			560	
			564	
			565	
			570/1	
			570/2	
			571	
			450/3	
			451/2	
459				

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—छिरवेल प.ह.नं.—25	502	0.020
			503	0.018
			503	0.035
				0.050
			512/2	0.034
			512/2	0.034
			512/3	0.038
			514	0.016
			341	0.032
			344	0.080
			345	0.024
			345	0.050
			346/1	0.042
			346/2	0.021
			346/3	0.037
			349	0.013
			400	0.042
			307/1	0.018
			304	0.064
			317	0.032
			318	0.024
			319/1	0.010
			319/2	0.011
			343	0.008
			444/7	0.016
447	0.002			
448	0.045			
449/2	0.002			
461/2	0.056			
			463	0.066
			470	0.005
			488	0.026
			471	0.038
			486	0.008
			487	0.030
			508	0.024
			509	0.038
कुल योग			74	2.781

बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिंडोरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र.-भू-अर्जन-2023-24-04-(अ-82)2023-24-758 डिंडोरी, दिनांक 9 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की घारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची - 1

जिला	तहसील	ग्राम व प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिंडोरी	शाहपुरा	कलगीटोला माल प.ह.न. 107	107.656 हेक्ट.	168	राधवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	107.656 हेक्ट.		

### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	प्रभावित खातेदार (कृषक) का नाम	खसरा न०	कुल रकवा (हेक्ट. में)	अर्जन का रकवा (हेक्ट. में)	परिसम्पतियों का विवरण	कूलों का विवरण
1	2	3	4	5	-	-
1	शंकर पिता हीरालाल जाति गोंड पता कलगीटोला माल शाहपुरा डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	133	0.150	0.150	-	आम - 1, इमली - 2, उमर - 1, केयलार - 1, खमेर - 2, खली - 1, खसी - 1, गुरजा - 1 घरी - 1, पलास - 1, बेर - 2, मुनगा - 2, लभेर - 1, साजा - 1, सीताफल - 4, हड्ड्या - 1
2	धमियाबाई पति शहजान पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	1117/2	0.500	0.500	-	आम - 1, उमर - 1, खमेर - 5, खसी - 3, तिनसा - 2, बांस - 2 भीरा, बेर -
3	रूपलाल पुत्र कनतू जाति गोंड पता डिंडोरी	1117/1/2	0.370	0.370	-	

						2, बेल - 1, मेदा - 1, लम्हेर - 1, साजा - 1, हड्डवा - 2
		1121/2	0.670	0.670		
4	घूरु पिता आमराज जाति गोंड पता डिंडोरी	490/2	0.400	0.400		आकड़ा - 1, आम - 25 प्लांटेशन, चन्द्रजोत - 130, जसवन - 1, बेल - 2, मुनगा - 1, लिप्टिस - 15 प्लांटेशन
5	झुम्मा पुत्री मोतीलाल जाति गोंड पता डिंडोरी भूमि स्वामी	13	0.140	0.140		सेमर - 1
6	झुम्माबाई बेवा चैतू फूलकली पिता चैतू कलियाबाई पुत्री चैतू जाति गोंड पता डिंडोरी म. प्र. भूमि स्वामी	1097	0.340	0.340		आम - 1, उमर - 2, कारी - 1, किररी - 2, केला - 1, खमेर - 1, खली - 2, खसी - 2, तेन्दु - 6, नीलगिरी - 8, पड़री - 1, नीम - 2, बांस - 1 भीरा, बेर - 1, शोबबुल - 8, साजा - 3, साल - 1, हड्डवा - 1, हरदु - 1
7	बाढूलाल पिता बैसाखु जाति गोंड पता डिंडोरी भूमि स्वामी	1073	0.634	0.050		
		1090	0.330	0.300		
		1086	0.230	0.230		
		1098	0.500	0.500		
		1119	0.350	0.350		खमेर - 1, खली - 1 नीम - 1, बेर - 8, साजा - 2
		1124	1.300	1.300		पीपल - 1, बेर - 2, भकरेडा - 1, लिप्टिस - 2
	मददे लाल पिता बैसाखु बगैरह जाति गोंड पता डिंडोरी भूमि स्वामी					
7	हरी सिंह पिता दयाल सिंह (कब्जेदार)	1127	5.520	5.520	कच्चा मकान - 2 पक्का मकान - 1 कच्चा गौशाला - 1 कच्चा बांडी - 1 पक्का शौचालय - 1	
	महापति पति धरमु (कब्जेदार)				कच्चा मकान - 1	
	मीरा पति रघुदीर (कब्जेदार)				कच्चा मकान - 1	
	महा सिंह पिता भिखरम सिंह (कब्जेदार)				पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 1 कच्चा गौशाला - 1	खमेर - 1, बांस - 1 भीरा, मुनगा - 1
					पक्का शौचालय - 1 कच्चा बांडी	

	भिखम सिंह पिता मोहन सिंह (कब्जेदार)				कच्चा मकान - 2 कच्चा गौशाला - 1 कच्चा बाउड़ी पक्का शौचालय - 1	आम - 1, कोयलार - 4, खमेर - 1, बेर - 15, भखरेडा - 32, लिप्टिस - 4, सालेय - 1, सीताफल - 4, हड्डवा - 3
	जगदीश पिता भिखम सिंह (कब्जेदार)				कच्चा मकान - 1 कच्चा गौशाला - 1 कच्चा बाउड़ी पक्का शौचालय - 1	केकर - 5, खमेर - 11, बांस - 1 भीरा, भखरेडा- 100, मुनगा - 2, सालहन - 1, सीताफल - 1
	हेमवती पति दयाल सिंह (कब्जेदार)				पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 1 कच्चा गौशाला - 1 पक्का शौचालय - 1	
	नन्हेलाल पिता वैशाख (कब्जेदार)				कच्चा मकान - 2 कच्चा गौशाला - 1	
	तिलकसिंह पिता दयाल सिंह (कब्जेदार)				पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 1 कच्चा बाउड़ी पक्का शौचालय - 1	
	रघुवीर पिता भिखम सिंह (कब्जेदार)				पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 2 कच्चा गौशाला - 1 पक्का शौचालय - 1	
	लक्ष्मण पिता मोहन (कब्जेदार)				पक्का मकान - 1 कच्चा गौशाला - 1 पक्का शौचालय - 1	कहुआ - 1, खमेर - 3, खसी - 1, बबूल - 1, बेर - 2, मुनगा - 2, लिप्टिस - 15, सागोन - 3, सीताफल - 3
	टीकाराम पिता मोहन (कब्जेदार)				पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 1 पक्का शौचालय - 1	अरडी - 1, कोयामुल - 1, खमेर - 4, खसी - 1, भखरेडा - 4, मुनगा - 10, सीताफल - 12
	प्रा पाठशाला कछारटोला (कब्जेदार)				पक्का मकान - 2 पक्का शौचालय - 2	
8	बजरिया बेवा विश्नु जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भागवती पुत्री विश्नु जाति	134	1.010	1.010		
		228	0.310	0.310		खमेर - 7, बेर - 12
	गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश 1/2 भाग	242	2.300	2.300		नीम - 2, पलास - 4, महुआ - 1

9	कान्ताराम पिता प्रहलाद पता डिंडोरी, जयनंती पिता प्रहलाद, जवाहर पिता बांदी, सुन्दरसिंह पिता कवलू पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	25	0.050	0.050		
		26	0.140	0.140		
10	कुनैनीबाई पिता मातादीन जाति गोड पता कलगीटोला शहपुरा डिंडोरी	66	0.670	0.170		
11	केहरसिंह पिता हल्कू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	144/2	0.050	0.050		
12	केहरसिंह पिता हल्कू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश, बैशीबाई पुत्री हल्कू जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	249	1.580	1.250		खन्नेर - 2
13	चैनसिंह पिता मोतीलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	250	0.520	0.520		खन्नेर - 1, छिवला - 1
14	कलीबाई पति सुखरु जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/2	1.730	0.200		मिरची - 1
		70	0.260	0.130		
		259/2	0.660	0.100		
		1123	0.750	0.750		बेर - 5
15	मंगलसिंह पिता रूपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	51/1	2.190	2.090		सेमर - 1
		65	0.150	0.150		खन्नेर - 1
		142	0.060	0.060		
16	मंगलसिंह पिता हीरासिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	244/2	1.040	1.040		आम - 1, किरणी - 2, खन्नेर - 13, बबूल - 2, बेर - 19, सेमर - 1
		217	1.650	1.650		उमर - 1, किरणी - 1, बबूल - 3, बेर - 6, महुआ - 1, शोबबुल - 1
17	मतिया पुत्री भूखा जाति गोड पता डिंडोरी	490/1	0.430	0.430		आकड़ा - 1, आम - 25 प्लाटेशन, चन्द्रजोत - 130, जसवन - 1, बेल - 2, मुनगा - 1, लिप्टिस - 15 प्लाटेशन
		492	1.360	0.480		आम - 1, सेमर - 1, बबूल - 1, उमर - 1, बेर - 1
18	मलियाबाई पति मोती जवाहर पिता मोती जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	229	0.260	0.260		खन्नेर - 1, बबूल - 1, बेर - 5, लिप्टिस - 7, शोबबुल - 3
		236	0.550	0.550		खन्नेर - 1, बेर - 1
		333	0.240	0.240		कंजी - 1, छिवला - 1, तेन्दु - 2, पलास - 1, महुआ - 1, लेडिया - 2

19	महासिंह पिता गनपत जाति गोड पता डिंडोरी	345	0.110	0.110		
20	मातृ पित अजरु, मंती पिता अजरु जाति गोड पता डिंडोरी	488	0.250	0.250		उमर - 1, बदूल - 2, साजा - 1, सेमर - 1
21	मनीराम पिता भदूवा जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भूमि स्वामी टीकोबाई पति भदूवा जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भूमि स्वामी	221	0.220	0.220		बेर - 2
22	विरदोबाई पुत्री लुडल रघुबीर पिता भददेलाल जाति गोड पता डिंडोरी	1089/2	1.290	1.290		बदूल - 7, बेर - 2
23	चिरोंजाबाई पति इन्द्रसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	1080 1070	0.740 0.250	0.020 0.040		
24	तिम्बेबाई पिता बैशाखु जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	118 144/1	3.320 0.040	0.430 0.040		
25	होल्कर पिता फौजू लालसाय पिता फौजू लालसिंह पिता फौजू केवल पिता फौजू जाति गोड पता डिंडोरी	1111	0.770	0.120		खली - 1, बीजा - 1
26	भदिया पति बक्कीसिंह, लालजी पिता बक्कीसिंह, दिलराज पिता लपसी	252	5.400	0.630		बदूल - 1
27	भीखम पिता महुआ पता डिंडोरी	238	1.780	1.780		पलास - 1, नीम - 1
28	सम्मल सिंह पिता किरी (कब्जेदार)  धन सिंह पिता किरी (कब्जेदार)  पहलसिंह पुत्र कन्तू जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	1117/1/1	0.370	0.370	कच्चा मकान - 3 कच्चा बांड़ी  पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 2 कच्चा गौशाला - 1	गंजी - 64
29	पीतमसिंह पिता नवाजी, सन्तू पिता नवाजी, गीताबाई पुत्री नवाजी पता डिंडोरी भूमि स्वामी	1121/1 7 9 23 49 50/1	0.670 1.720 0.170 0.200 0.220 2.990	0.670 0.050 0.170 0.200 0.220 2.990		हडुवा - 1
30	पनकेबाई बेवा देवा जाति गोड पता डिंडोरी संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	1034 1096	0.950 0.370	0.130 0.370		खसी - 3, तेन्दु - 15, बहेरा - 1, लड़ैया - 3  खमेर - 44, खसी - 12, छियला - 2, तिनसा - 2, तेन्दु - 79, दह्यन - 1, धया - 3, नीम - 2, बांस - 3 भीरा, बेर - 1, महुआ - 8, लड़ैया - 13, लेडुया - 12,
						शहवन - 1, सहरवा - 4, साजा - 3, सीताफल - 19, हडुवा - 1

31	पनकिन बेवा मातृ रज्जूसिंह पिता गैंदा गैंदा पिता मंगल जाति गोड पता डिंडोरी	1120	3.370	3.370		उमर - 3, खसी - 1, छिवला - 1, जामुन - 1, तेन्दु - 5, दहमन - 4, नीम - 6, पलास - 1, सेदा - 1, लेडिया - 4, सीताफल - 1, हड्डवा - 1
32	रमझसिंह पिता गनपत जाति गोड पता डिंडोरी	342	0.140	0.140		बेर - 1
33	रमझसिंह, कमलसिंह, प्रतापसिंह, अमरसिंह, बददीबाई पिता लोकमन, चूरामन, अजरू पिता गुहरू, रामप्रसाद, रामचरन, दूनू पिता अलकी, ननसीबाई बेवा अजबी सभी जाति गोड पता कलगीटोला माल शहपुरा डिण्डोरी म.प्र. 1/11 भाग भूमिस्वामी	337	0.100	0.100		
34	रमेया, कमल, प्रताप, अमरसिंह पिता लोकमन 1/4 भाग भूमि स्वामी जाति गोड पता डिंडोरी	1089/1	1.830	1.830		उमर - 1, नीम - 2, बबूल - 4, बेर - 16, लिट्टिस - 6, लेडिया - 2, शीशम - 1, सागोन - 4, हडुवा - 2
		1092	1.360	1.360		
35	रामसिंह पिता गिरवरसिंह, भीराबाई पिता नन्हेसिंह जाति गोड	321	0.810	0.460		
36	रामाधीन पिता हल्कू समारो बेवा हल्कू जाति गोड पता डिंडोरी	324	1.100	0.740		
37	रामो बेवा हरीलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी, गौरू पिता हरीलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	110	0.900	0.750		
38	रामो पिता हरीलाल, धर्म सिंह पिता हरीलाल जाति गोड पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी	237	3.120	3.120		आम - 1
39	रामचरन, रामप्रसाद, दुनू पिता अजबी, ननसीबाई बेवा अजबी जाति गोड पता डिंडोरी 1/4 भाग भूमि स्वामी	339	0.430	0.430		कुरलू - 3, छिवला - 1, नीम - 2, सालहन - 38, सेमर - 1
40	रेवासिंह पिता मानसाय शंकरलाल पिता मानसाय रजनीबाई पुत्री मानसाय रजनीबाई पुत्री मानसाय जाति गोड पता डिंडोरी	1083	0.990	0.990		इमली - 1, उमर - 2, कोयाकाटे - 1, खन्नेर - 3, तेन्दु - 5, बबूल -
		1074	0.570	0.040		7, बेर - 7, लेडिया - 2, सागोन - 13, हड्डवा - 5

41	शंकर पिता हीरालाल जाति गोड पता कलगीटोला माल शहपुरा म.प्र. भूमि स्वामी	68	0.140	0.140		
42	संजय पिता शिवलाल पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	147	1.750	1.750		हर्रा - 1
43	सम्हरसिंह पिता गनपत जाति गोड पता डिंडोरी	343	0.180	0.180		बबूल - 1
		143	0.260	0.260		
		145	0.870	0.870		
	लालसिंह पिता चैनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र.(किंबजेदार)	206	3.400	3.400	कच्चा मकान -1	इमली - 1, खमेर - 22, बबूल - 12, बेर - 24, लिप्टिस - 1, शोबबुल - 4
		208	1.920	1.920		खसी - 1, घरी - 1, जामुन - 2.
44	सम्पतिया बेवा चैनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी )  लालसिंह पिता चैनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. स्वामी  देवसिंह पिता चैनसिंह जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	213	0.880	0.880		नीम - 2, बेर - 4, महानीम - 4, लेडिया - 1  अमरुद - 2, आम - 1, किरणी - 3, खमेर - 5, जामुन - 1, नीम - 1, बबूल - 1, बेर - 15, शोबबुल - 14, हर्रा - 1
		215	0.780	0.780		किरणी - 8, कोशम - 1, खमेर - 21, खसी - 1. जामुन - 4, बहेरा - 1, बेर - 15, महुआ - 2, लभेर - 1
45	सम्पतसिंह पिता अमरु जाति गोड पता डिंडोरी	51/2	0.900	0.900		सेमर - 1
		63	0.650	0.650		खमेर - 1
46	सनियाबाई पत्नि आनंदसिंह, कुन्दिआबाई पत्नि आनंदसिंह, रामदीन, रामू, प्रभाबाई पिता आनंदसिंह जाति गोड पता कलगीटोला शहपुरा 1/5 भाग भूमि स्वामी	344	0.140	0.140		
47	सहरीबाई पिता मातृ लम्मनबाई पुत्री मातृ जाति गोड पता डिंडोरी 1/2 भाग भूमि स्वामी	325	1.560	0.040		
		338	1.930	1.930		खमेर - 1
48	सावन पिता अमरा इन्द्र पिता अमरा मेर सिंह पिता अमरा सम्मल पिता	218	0.760	0.760		आम - 1, किरणी - 5, खमेर - 9,

	अमरा जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी				जामुन -2, नीम - 1, बबूल - 7, बीजा - 2, बेर - 44, महानीम - 1, महुआ - 6, लभेर - 1, शोबबुल - 11
		222	0.060	0.060	खमेर - 1, बेर - 1
		232	0.370	0.370	घरी - 3, बेर - 1
		234	1.190	1.190	
		243	0.080	0.080	
		331	1.920	0.720	छिवला - 3, तेन्दु - 2, नीम - 1, पलास - 2, बेर - 1
		332	1.150	0.040	छिवला - 1
		335	0.530	0.530	बेर - 1
		336	0.680	0.680	बेर - 1
49	सुखसेन पिता महारिंह जाति गोड पता कलगीटोला माल शाहपुरा म.प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	223/2	0.050	0.050	
		226	0.240	0.240	बबूल - 2, बेर - 5, शोबबुल - 6
		258	1.150	0.170	नीम - 1
50	सुमन बाई पति भद्रुवा, देवेन्द्र पुत्र भद्रुवा, सुरेन्द्र पुत्र भद्रुवा, सुनीता पुत्री भद्रुवा जाति गोड पता कलगीटोला शाहपुरा डिंडोरी	241	1.020	1.020	बेर - 1
51	सुमना पिता तुलसीराम भारत पिता तुलसीराम सोनसिंह पिता तुलसीराम पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	1099	0.500	0.500	उमर - 1, बेर - 1, हड्डवा - 1
		1118	0.350	0.350	उमर - 1, हड्डवा - 1
		1125	1.280	1.280	नीम - 1, बबूल - 3, बेर - 8, मकरेडा - 7, सागोन - 1
		1085	0.220	0.220	
		1091	0.330	0.330	
52	भारत पिता तुलसीराम सोनसिंह पिता तुलसीराम पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	1128	5.530	5.530	पक्का मकान - 1 कच्चा मकान - 1 करचा गौशाला - 2 अंडा - 1, अतुत - 3, आम - 2, कटहल - 1, कोयलार - 2, कोयामुल - 18, खमेर - 15, नीबू - 1, नीम - 1, बम्बर - 6, बरा - 1, बांस - 1
	अददेलाल पिता दैशाख (कब्जेदार)				

					झीरा, बिही - 1, बेर - 26, महुआ - 2, मुनगा - 9, लिप्टिस - 341, शकरजटा - 1, शीशम - 2, सीताफल - 10
	मालिक पिता लक्ष्मण (कब्जेदार)		कच्चा मकान - 1 कच्चा गौशाला - 1		
	झनक पिता टीकाराम (कब्जेदार)		कच्चा मकान - 2 कच्चा गौशाला - 1 पक्का शैचालय - 1	फटहल - 1, कोयलार - 1, खनेर - 2, बेर - 28, भखरेडा - 1, मुनगा - 6, लिप्टिस - 29, सीताफल - 8	
	मन सिंह पिता लक्ष्मण (कब्जेदार)		कच्चा मकान - 1		
53	सुरेश पिता मनीराम जाति गोड पता डिंडोरी	248	1.640	1.640	लड़या - 1, बेर - 4
		136	0.560	0.560	
		146	0.100	0.010	
54	सन्तासिंह पिता रुपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	244/1	1.040	1.040	आम - 1, किरणी - 2, खनेर - 13, बद्धल - 2, बेर - 19, सेमर - 1
55	दयालसिंह पिता कंधा जाति गोड पता डिंडोरी	1081	0.520	0.450	उमर - 2, तेन्तु - 58
		259/1	1.170	0.190	
56	दसिया पति लालसिंह जाति गोड पता डिंडोरी	1122	0.700	0.700	कोयामुल - 1, पीपल - 1, बद्धल - 3, बेर - 14, लिप्टिस - 1, साजा - 1
		203	1.650	1.460	बेर - 1
		204	0.100	0.100	सुन्दवा - 52
57	दहलू पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी बरातू पिता हीरालाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	219	0.330	0.330	उमर - 1, किरणी - 2, खनेर - 6, खसी - 2, नीम - 1, बेर - 10, महुआ - 3, शोब्दुल - 3
		225	0.550	0.550	खनेर - 1, बद्धल - 1, बेर - 2, लेडिया - 1
		260	1.190	0.220	
58	दवलसिंह, द्वृपसिंह, छतरसिंह, गोतम, रामसिंह पिता कंधा रत्नीबाई पति कंधा पता डिंडोरी म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी	1082	0.530	0.430	खनेर - 1, जामुन - 1, लेडिया - 2, सागोन - 1

59	दुरपत पिता दरबारी जाति परथान	12	3.490	1.050		नीम - 1
	पता डिंडोरी म.प्र. कुवरिया बैवा दरबारी जाति परथान पता डिंडोरी 1/2 भूमि स्वामी	223/1	0.060	0.060		
		224	0.210	0.210		
		227	0.200	0.200		आम - 2, केवलर - 1, खमेर - 2, नीम - 1, बेर - 15, शोब्बुल - 4, सागोन - 5
		240	0.360	0.360		उमर - 1, छिवला - 1, नीम - 2, पलास - 8, बेर - 2, महुआ - 1
		246	0.550	0.550		सफेदा - 1
60	दलसिंह पिता पुनवा जाति गोड पता डिंडोरी भाग भूमि स्वामी	1078	0.550	0.460		उमर - 1, किरगी - 1, तेन्दु - 1, नीम - 2, पलास - 4, बेर - 1, लेडिया - 2, सागोन - 10
61	दलसिंह पिता पुनवा नरवदिया पिता पुनवा रामकली पिता पुनवा जाति गोड पता डिंडोरी 1/3 भाग भूमि स्वामी	24	0.120	0.120		
		1079	0.550	0.550		तेन्दु - 13, बबूल - 1, सागोन 10 प्लांटेशन
62	चरण, काशीराम पुत्र भैयालाल सुनिया पत्नि धोबी, कुहार, तीरथबाई, कलीबाई पिता धोबी, पता कलगीटोला शहपुरा 1/12 भाग भूमि स्वामी समुद्रसिंह पिता भैयालाल जाति गोड पता डिंडोरी 1/2 भाग भूमि स्वामी	330	0.370	0.370		तेन्दु - 21, रेला - 4, लेडिया - 1, सेमर - 1
63	चन्द्रकेश, गलाराबाई पिता कंधी पता कलगीटोला माल शहपुरा 1/2 भाग भूमि स्वामी	346	0.220	0.220		बेर - 1, बबूल - 2
		347	0.180	0.180		
64	फहरू, नकाल, हेमकरन पिता रघनू फूलबाई बैवा रघनू कल्लू पिता रघधू नवलसिंह पिता रघधू पता डिंडोरी 1/7 भाग, ज्ञानसिंह पिता सुखलाल पता कलगीटोला माल 1/21 भाग, अमरसिंह पिता सुखलाल 1/21 भाग, बुद्धसेन पिता सुखलाल पता कलगीटोला माल डिण्डोरी म. प्र.	230	0.250	0.250		खमेर - 2, खसी - 3, सागोन - 2
		231	0.240	0.240		बेर - 9, हर्ता - 1
		245	1.100	1.100		आम - 1, नीम - 2, पीपल - 1, बबूल - 4, बेर - 7, महानीम - 3
65	फूलसिंह पिता हीरसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	202	1.760	0.670		आम - 1
66	फूलचन्द पिता देवलाल जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	126/2	2.220	0.050		
		209/2	0.790	0.790		
67	फूलबाई पत्नी मनीराम 1/4 भाग सुरेश पुत्र मनीराम 1/4 भाग शेरसिंह पुत्र मनीराम 1/4 भाग गुलजार पुत्र मनीराम 1/4 भाग जाति गोड पता कलगीटोला शहपुरा डिंडोरी म.प्र.	216	1.390	1.390		किरगी - 5, खमेर - 43, जामुन - 1, तेन्दु - 1, बबूल - 3, बेर - 23, महुआ - 3, सेमर - 1
	तिहारु पिता रामप्रसाद (कब्जेदार)				कछ्या मकान - 1	उमर - 1, खमेर - 10, खसी - 1.

68	नरबद, मतवार पिता बैसाखू मतवरिया, रामवती पुत्री बैसाखू बलसिंह पिता उजियार, अमरतिया पति रामप्रसाद, हरीसिंह पिता रामप्रसाद, तिहारु पिता रामप्रसाद, दलसिंह पिता रामप्रसाद, रामदयाल पिता उजियार, कलाबाई, शिरावती, गोविन्द, पिता बुद्धसिंह पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. लल्ला, रज्जन पिता बखतसिंह शुभिया पुत्री बुद्धसिंह, शोभित पिता बुद्धसिंह, नारायण पिता बखतसिंह दशरथ पिता बखतसिंह पता शहपुरा डिंडोरी म०प्र० भाग भू-स्वामी	214	1.700	1.700	घरों - 3, जामुन - 1, तिनसा - 3, बबूल - 1, बेर - 61, लभेर - 1, शोब्युल - 2, सागोन - 1
69	नरन्द्रसिंह पिता पलिकुरसिंह, कोमलसिंह पिता पलिकुरसिंह, गिरवरसिंह पिता तुलसिंह, रमकूमान पिता तुलसिंह, सुरेश पिता आशाराम, नरेश पिता आशाराम, सतीश पिता आशाराम, शिवकुमार पिता आशाराम, सकून पुत्री आशाराम पता कलगीटोला माल शहपुरा डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी	6	0.450	0.040	
70	नोहर पिता गोकल जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग	136	0.300	0.300	
71	नोहरसिंह पिता गोकल जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी भगवान सिंह पिता गोकल जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	137	0.850	0.850	
		209/1	0.790	0.790	हड्डवा - 1
72	टीकाराम पिता गुलाब जाति गोड पता डिंडोरी	235	0.450	0.450	
		334	0.240	0.240	पलास - 1, नीम - 1, छिवला - 2
73	अशोक पिता अनूपदास केशव पिता अनूपदास सुखदास पिता अनूपदास रमौती पिता अनूपदास जाति पनिका पता डिंडोरी भूमि स्वामी	1100	1.230	1.100	उमर - 1, चासी - 3, नीम - 2, बबूल - 2, मेदा - 3, लड्डव्या - 7
74	ओमकार पिता भद्रेलाल जाति गोड पिता डिंडोरी	1084	0.940	0.940	आम - 2, उमर - 2, पीपल - 1, बबूल - 2, बेर - 8, महुआ - 1
75	अन्नू पिता परसू पता कलगीटोला माल शहपुरा डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, राजकुमारी, ललती पुत्री परसू, प्रताप पिता बुद्ध ननू पिता परसू, जहर पिता कुंआर, कलाबाई पुत्री सुन्दर जाति गोड पता शहपुरा डिंडोरी	485	0.400	0.350	
		1077	1.450	0.280	
76	गयादीन पुत्र बजारी जाति गोड पता कलगीटोला शहपुरा डिंडोरी	207	1.040	1.040	लड्डव्या - 1
		211	0.210	0.210	
		209/3	0.790	0.790	
77	गलियारो पिता छत्तर सवनू पिता छत्तर अनंद पिता छत्तर सुशलाबाई	493	0.990	0.330	नीम - 1, बबूल 2

	पुत्री छत्तर पता कलगीटोला माल शहपुरा	1093	0.870	0.820	उमर - 3, फिरगी - 1, खसी - 1, जबरासी - 2, जामुन - 1, दहमन - 1, नीम - 1, लैडिया - 1, साजा - 8, सेमर - 1, हड्डिया - 4
		1095	0.290	0.290	
		1110	0.730	0.440	
		484	1.050	0.050	
78	गोकल पिता भंवरसिंह जाति परधान पता डिंडोरी	487	0.570	0.570	उमर - 6, खजेर - 1, पीपल - 1, बेर - 4
79	गणशीबाई बेवा सुन्दर, जमनीबाई बेवा सुन्दर, ओझान पिता सुन्दर जाति गोड पता डिंडोरी मप्र. भूमि स्वामी	67	0.680	0.170	
80	गलराबाई पिता कुंधी जाति गोड पता डिंडोरी	341	1.000	1.000	आम - 1, चन्द्रजौत - 22, बबूल - 1, बेर - 2, मुळगा - 1, लिप्टिस - 1, सालेय - 1
81	मंगलसिंह पिता रूपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	140/2 148/1 138/2 139/1	0.490 0.240 0.490 0.130	0.490 0.240 0.490 0.130	पोलर - 1
82	सन्तसिंह पिता रूपसिंह जाति गोड पता डिंडोरी मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	138/1 139/2 140/1 148/2	0.480 0.140 0.490 0.240	0.480 0.140 0.490 0.240	
83	भागीरथी पिता दुलारे जाति गोड पता डिंडोरी	350/1	0.370		तेन्दु - 204, नौम - 1
84	दोपती पति पतिराम जाति गोड पता डिंडोरी	350/3	0.380		
85	चैनाबाई वर्म पति केहर जाति धुलिया पता साकेत नगर पता डिंडोरी	350/2 350/4	0.370 0.380		
योग :-			144.624	106.180	

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जाच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंब की संख्या 24 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र विहित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

ग्राम-मुदिया कला रा.नि.म. शाहपुर तहसील डिंडोरी की आराजी नं. ०० रकवा 27.39 है।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक-69 / स.अ.

राजस्व / 2024 जबलपुर दिनांक 13 / 05 / 2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:-

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि क्रोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनियम की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पति और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
  - 11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
  - 11.2. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पवर्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
  - 11.3. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
  - 11.4. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
  - 11.5. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
  - 11.6. यथेचित पंचायत घर।
  - 11.7. जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
  - 11.8. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
  - 11.9. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
  - 11.10. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
  - 11.11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
  - 11.12. बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
  - 11.13. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
  - 11.14. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
  - 11.15. प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।
  12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

13. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि म.प्र. भासन नर्मदा विकाश प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष पुरुषकार (पैकेज) की घोषणा की जाती है तो उसे मान्य कर लागू किया जाएगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in), पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, डिंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.—भू—अर्जन—2023—24—05—(अ—82)2023—24—759

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भू—अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा—19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची — 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिंडला	शहपुरा	कलगीटोला रैयत प.ह.नं. 107	104.370 हेक्ट.	80	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	104.370 हेक्ट.		

### अनुसूची — 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	प्रभावित खातेदार (कृषक) का नाम	खसरा नं	कुल रकवा (हेक्ट. में)	अर्जन का रकवा (हेक्ट. में)	परिस्पतियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
1	2	3	4	5		
1	पन्कु पिता विरसिंह जाति गोड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडला म.प्र. सम्पूर्ण भाग	2	1.490	1.490	-	बद्दल — 16, किलामी — 2, बेर — 13, उमर — 1, हङ्का — 1, जामुन — 1, किरणी — 1, सागोन — 1
2	रामसिंह पिता बुद्ध जाति गोड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडला म.प्र. सम्पूर्ण भाग	3	0.400	0.400	-	-
3	कुन्नीबाई पुत्री मालादीन जाति गोड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडला म.प्र.	13	0.560	0.560	-	शोबदुल — 3, बेर — 1
		19	0.570	0.570	-	बांस — 1 भीरा
		103	0.650	0.300		-

4	मंगल सिंह पिता रुपसिंह जाति गोंड पता डिंडौरी	66	0.620	0.620	-	अमरुद - 1, कुरलू - 1, खमेर - 11, खसी - 2, छिवला - 4, नीम - 1, बबूल - 3, बांस - 11 भीरा, बेर - 25, झेदा - 1, लिट्टिस - 2, शोबबुल - 1, सागोन - 4, साजा - 8, सालेय - 11
5	महेन्द्र पिता बुद्ध जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/6 भाग मानवती पति मिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/6 भाग नरबद पिता मिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/6 भाग उमेश पिता मिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/6 भाग राकेश पिता मिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/6 भाग जमुना पुत्री मिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/6 भाग	4	0.550	0.550	-	बेर - 6, बबूल - 34, सागोन - 1, शोबबुल - 2, खसी - 7, बरगद - 1
		70	0.210	0.210	-	
6	माखन पिता भईयालाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग टीको बेवा भईयालाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग	55	1.860	1.860	-	सागोन - 1, बेर - 3, सालेय - 4, शोबबुल - 1
		56	0.400	0.400	-	कुरलू - 1, खमेर - 5, खसी - 1, तिनसा - 1, नीम - 2, पाकड़ - 2, पीपल - 1, बेर - 5, शोबबुल - 2, सालेय - 1, उमर - 4, बबूल - 2,
		67	0.260	0.260	-	
		77	0.230	0.230	-	
		82	2.040	2.040	-	
7	मूलचंद पिता मदूवा जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग	15	1.010	1.010	-	बेर - 4, लिट्टिस - 3, बबूल - 1
		6	0.600	0.600	-	आम - 1, कनेर - 4, खमेर - 2, गंजी - 2, बबूल - 5, बांस - 1 भीरा, बेर - 5, भेलवा - 2, सागोन - 1
		9	0.370	0.370	-	बेर - 157, खमेर -

						11, बबूल - 22, जामुन - 3, अमरुद - 1, बांस - 2 भीरा, शोबबुल - 3, सीताफल - 4, लिटिस - 11, आम - 1, सागोन - 7, बेल - 1
		10	1.570	1.570		आम - 3, उमर - 11, कटोरी - 10, खमर - 1, खसी - 22, छिवला - 19, जामुन - 11, पिपील - 2, बबूल - 3, लेडिया - 4, शोबबुल - 1, साजा - 3, सेमर - 2, हड्डवा - 2 हरी - 9
8	सिंगरसाय पिता बैसाखु जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग झाम्ल पिता बैसाखु जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग	68	1.770	1.770		उमर - 2, छिवला - 9, जामुन - 1, नीम - 1, लेडिया - 6, सफेद सिरस - 1, हरी - 16,
9	भद्रे सिंह पिता महासिंह जाति गोंड पता डिंडौरी	34/1	2.000	2.000		आम - 1, उमर - 6, छिवला - 6, जामुन - 3, पीपल - 1, बरगद - 2, बेर - 10, महुआ - 1, लेडिया - 13, हरी - 13, खसी - 6, सेमर - 2
		76/1	2.400	2.400		उमर - 1, छिवला - 1, नीम - 1, बबूल 6, बेर - 1
10	भद्रे सिंह पिता भिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी	76/2	2.780	2.780		आम - 1, खमर - 5, जामुन - 4, बबूल - 3, बेर - 7, लेडिया - 4, हरी - 3
11	भद्रे सिंह पिता भिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी कवलसिंह पिता गंजन जाति गोंड पता डिंडौरी	34/2	3.090	2.590		छिवला - 102, जामुन - 2, बेर - 2, लेडिया - 3, हरी - 5, नीम - 1,

12	भानसिंह पिता मोतीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/3 भाग थानसिंह पिता मोतीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/3 भाग फूलबाई पिता मोतीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/3 भाग	58	0.430	0.430		खमेर - 2, बेर - 6
13	भानसिंह पिता गुलाम जाति गोंड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी	35	0.870	0.450		छिवला - 33, लेडिया - 8
14	भद्रेसिंह पिता महासिंह जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र.	12/1	0.360	0.360		आम - 1, खमेर - 1, डाटा - 1, बकायन - 1, बेर - 3, मेदा - 2
		27/1	4.090	4.090		उमर - 2, खमेर - 2, बेर - 2
15	भद्रू पिता मिहीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र.	12/2	0.360	0.360		डाटा - 3, बकायन - 1, बेर - 8, साजा - 1
		27/2	4.000	4.000		खमेर - 18, खसी - 3, छिवला - 3, बबूल - 4, बेर - 8, लिण्टिस - 7, शोबबुल - 1, सालेय - 3
16	भूरीबाई बेवा परसाद पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी 1/6 भाग कोपा पिता परसाद पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी 1/6 भाग इंदिया पुत्री परसाद पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी 1/6 भाग चम्पा पुत्री परसाद पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी 1/6 भाग बुद्धी पुत्री परसाद पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी 1/6 भाग	88	1.400	0.060		उमर - 1
17	पराग पिता जवाहर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग सुम्मन बाई बेवा पराग पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/12 देवेन्द्र पुत्र भदुआ, सुरेन्द्र पुत्र भदुआ पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/12 भाग सुनीता पुत्री भदुआ जाति गोंड	17	2.260	2.260		खमेर - 29, छिवला - 2, बबूल - 8, बेर - 8, महुआ - 2

	पता शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/12 भाग , करमू पिता गोपाल जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग	23	1.240	1.240		आम - 6, खमेर - 14, खसी - 5, जामुन - 2, नीम - 2, पीपल - 2, बेर - 4, महुआ - 4, लओर - 2, चोबबुल - 2
		40	1.510	1.510		उमर - 4, खसी - 2, छिवला - 2, जामुन - 1, बेर - 3, मेदा - 1, लेडिया - 2, शीशम - 4, साजा - 1, सेजी - 2, सेमर - 2, हडुवा - 2, हर्दी - 9
		42	1.180	0.240		हर्दी - 4
18	रामसिंह पिता बुद्ध जाति गोड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग	73	4.540	4.140		आम - 3, उमर - 11, कटोरी - 5, खमेर - 1, छिवला - 4, जामुन - 78, पीपल - 2, बेर - 3, महुआ - 2, मेदा - 2, रेला - 1, लेडिया - 9, शीशम - 1, साजा - 5, सेमर - 2, हडुवा - 9, हर्दी - 10
		74	2.610	2.610	कच्चा मकान - 1	अमरुद - 1, आम - 4, उमर - 1, किरणी - 1, खमेर - 66, जामुन - 1, पीपल - 1, बबूल - 12, बास - 4 भीरा, बेर - 13, मुनगा - 2, शीबबुल - 2, सागोन - 2, सेमर - 1, हडुवा - 1, हर्दी - 1
		75	1.060	1.060		उमर - 2, हर्दी - 2
19	रामसिंह, लच्छ, लच्छमन, लच्छोबाई, कमली पिता बुद्ध जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी सिंगारसिंह वौरी पिता बैसाखू जाम्ही पिता बैसाखू झांगलवती पिता बैसाखू जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र.	31	2.930	2.930		आम - 1, जामुन - 2, पडरी - 1, बेर - 2, महुआ - 1, हडुवा - 1
		21	0.710	0.710		उमर - 1, खसी -

					2, तेन्दु - 1, बेर - 3
		24	2.730	2.730	खमेर - 1, खसी - 1, बबूल - 1, बेर - 16, महुआ - 1
		28	0.280	0.280	लभेर - 1
20	रामोबाई पिता हरीलाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. संपूर्ण भाग	7	0.970	0.970	आम - 4, बबूल - 5, बेर - 5, महुआ - 1, साजा - 1
21	रामनाथ पिता नन्दा जाति प्रस्थान पता डिंडौरी	38	2.810	2.680	अमर - 1, उमर - 10, किरगी - 2, कुरलू - 1, कैकर - 8, खमेर - 2, खसी - 5, छिवला - 130, जामुन - 5, नीम - 1, बीजा - 1, भड़रा - 2, मेदा - 8, लेडिया - 59, शीशम - 5, सीताफल - 1, हडुवा - 3, हरी - 15
22	सम्पत पिता देवी जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र., भाग याने पुत्री देवी जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र., भाग गेंदसिंह पिता गनपत जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र., भाग गीताबाई पति इंदल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, रमेश, रामसिंह पिता इंदल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, संतापी, धनोतिया पुत्री इंदल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी,	11	1.720	1.720	उमर - 9, कटोरी - 20, खमेर - 1, खसी - 7, घनकट - 6, छिवला - 13, जामुन - 6, महानीम - 1, महुआ - 1, लेडिया - 8, शीशम - 1, शोबबुल - 1, साजा - 6, सालेय - 1, हरी - 19
		22	3.500	3.500	अमरुद - 2, आम - 6, उमर - 4, किरगी - 2, खमेर - 19, खसी - 3, जामुन - 2, बीही - 2, बीजा - 2, बेर - 35, लभेर - 12, शोबबुल - 4
		37	1.700	0.750	आम - 2, उमर - 2, छिवला - 133, जामुन - 6, बेर - 2, साजा - 4
		65	1.240	1.240	सागोन - 1
23	समरोबाई पति वीरन सिंह जाति गोंड पता डिंडौरी 1/3 भाग रत्नसिंह पिता वीरन सिंह जाति गोंड पता डिंडौरी 1/3 भाग लखनसिंह पिता वीरन सिंह जाति गोंड पता डिंडौरी 1/3 भाग	69	1.160	1.160	खमेर - 4, जामुन - 1, बबूल - 3, साजा - 1

24	सुधया पिता परसाद जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र.	5	0.620	0.620		आम - 1, खमेर - 5, बबूल 1, बेर - 2
		32	0.310	0.310		खमेर - 2, छिवला - 10, जामुन - 4, बेर - 7, शोबबुल - 2
		39	2.890	2.890		आम - 2, उमर - 8, खमेर - 1, छिवला - 7, जामुन - 4, बेर - 1, लेडिया - 4, वासा - 1, सागोन - 1, सेमर - 1, हर्रा - 2
		80	2.440	2.440		अमरुद - 1, उमर - 3, खमेर - 7, चार - 1, छिवला - 1, जामुन - 21, नीम - 2, बांस - 5 झीरा, बेर - 2, महुआ - 2, लेडिया - 7, शीशम - 1, शोबबुल 1, साजा - 1, सेमर - 1, हुड़ा - 1, हर्रा - 19
25	छपरु पिता हलकू जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग शानवती पत्ली जैहर जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग	83	1.200	1.040		उमर - 1 खमेर - 1, जामुन - 6, नीम - 1, लेडिया - 4, सेमर - 1, हर्रा - 5
		41	5.340	4.410		आम - 3, उमर - 2, कटोरी - 2, खमेर - 5, खसी - 3, छिवला - 87, जामुन - 1, पीपल - 2, लेडिया - 10, शीशम - 1, साजा - 1, सीताफल - 1, हर्रा - 17,
26	दादूलाल पिता जोहर जाति गोंड पता कलगी रैयत शाहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/2 भाग जग्गू पुत्र जोहर जाति गोंड पता कलगी रैयत शाहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/2 भाग	92	1.870	0.800		बबूल - 1, शोबबुल 1, हर्रा - 10
		25	0.150	0.150		उमर - 2, खमेर - 2, जामुन - 1, बेर - 2, सालेय - 1, हर्रा - 1
		33	0.100	0.100		महुआ - 4, छिवला - 1
27	देवीसिंह पिता भवरसिंह जाति गोंड पिता डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग बरातूसिंह पता भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग जहरसिंह पिता भवरसिंह जाति गोंड	16	0.580	0.580		बकायन - 1, शोबबुल - 1, बेर - 3
		81	1.450	1.450		अमरुद - 1, उमर - 3, खमेर - 8, चार - 1, जामुन - 3,

	पता डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग गंगा पुत्री भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग फूलमत पिता भवरसिंह जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग					बेर - 5, महुआ - 1, लेडिया - 14, शीशम - 1, हरी - 5
28	देवीसिंह पिता भवरसिंह, बिजारौबाई पिता देवीसिंह, किशन, केवल, राजेश एवं दयाल सिंह पिता देवीसिंह जाति गोंड पता शहपुरा, डिंडौरी म.प्र. संपूर्ण भाग	62	0.600	0.600		खमेर - 1, जामुन - 1, बेर - 5, सालेय - 2
29	फुला बेवा मनीराम जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/4 भाग सुरेश पिता मनीराम जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/4 भाग गुलजार पिता मनीराम जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/4 भाग शेरसिंह पिता मनीराम जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/4 भाग	72	2.000	1.320		आम - 1, उमर - 6, खसी - 3, जामुन - 3, सेमर - 1, हरी - 5
30	तुलसी बेवा जेदू जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. संपूर्ण भाग	49	0.400	0.350		आम - 3, उमर - 7, खमेर - 1, खसी - 1, छिवला - 7, जामुन - 4, बेर - 1, लेडिया - 4, सागोन - 1, सेमर - 1, हरी - 2
		63	0.650	0.650		उमर - 1, खमेर - 6, जामुन - 1, बबूल - 3, बेर - 8, महुआ - 1, सालेय - 1
		71	1.510	1.510		आम - 1, उमर - 5, कटोरी - 2, खमेर - 13, खसी-1, छिवला - 2, जामुन - 3, पीपल - 1, बबूल 2, लेडिया - 1, सागोन - 1, साजा - 11, हरी - 16
31	तूलसिंह पिता गुहा जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. संपूर्ण भाग	8	0.900	0.900		आम - 2, खमेर - 1, बबूल - 2, बेर - 9, सेमर - 1
		64	0.180	0.180		खमेर - 3, छिवला - 1, जामुन - 5, बबूल 1, बांस - 1 भीरा, बेर-2, साजा-2
		79	2.760	2.760		आम - 1, खमेर - 4, बबूल - 1, बांस - 1 भीरा, बेर - 6, हडुवा - 1, हरी - 1
		93	3.980	2.400		आम - 1, उमर -3, कटोरी - 1, खमेर - 3, खसी - 6, घार - 2, छिवला - 1, जामुन - 4, बांस - 1 भीरा, बेर - 6,

					लेडिया - 18, शीशम - 2, शोबूल - 1, सागोन - 1, साजा - 3, सेमर - 1, हडुवा - 3, हरी - 34
32	<p>जयवती बेवा प्रहलाल जाति गोंड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग कांताराम पिता प्रहलाद जाति गोंड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/5 भाग प्रेमकली पुत्री प्रहलाद जाति गोंड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/5 उमा पुत्री प्रहलाद जाति गोंड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/5 यशोदा पुत्री जाति गोंड पता कलगीटोला रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/5</p>	59/1	2.000	2.000	ककई - 1, खमेर - 1, बबूल - 1, शीशम - 3
		60/1	0.200	0.200	बबूल - 1, मेदा - 3, लेडिया - 1
33	<p>जवाहर पिता दांदी जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. संपूर्ण भाग</p>	59/2	2.080	2.080	उमर - 1, ककई - 1, खमेर - 1, गंजी - 1, जामुन - 1, थाडो - 3, बबूल - 2, बेर - 3, शीशम - 2
		60/2	0.230	0.230	आम - 1, खमेर - 1, बबूल - 1, मेदा - 1, शोबूल - 2
34	नरवदियाबाई पति गंजन जाति गोंड 1/3 भाग कवलसिंह पिता गंजन जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग गवालीन पिता गंजन जाति गोंड 1/3 भाग	30	0.400	0.400	खमेर - 1, खसी - 3, तेन्दु - 4, बेर - 14, महुआ - 2, सेमर - 2, हरी - 2
35	<p>गयावती पुत्री सुखसेन जाति गोंड पता कलगी माल शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग धरमसिंह पिता सुखसेन जाति गोंड पता कलगी माल शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग धरमी बाई पुत्री सुखसेन जाति गोंड पता कलगी माल शहपुरा डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग</p>	29	2.630	2.630	खमेर - 1, तेन्दु - 1, लभेर - 1
		20	1.180	1.180	उमर - 1, खमेर - 2, जामुन - 2, बेर - 2
36	<p>गंगाराम पिता भईयालाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग टीकाबाई बेवा भईयालाल जाति गोंड पता डिंडौरी 1/2 भाग</p>	48	2.480	0.620	छिवला - 1, जामुन - 1, हरी - 1
		50	1.710	1.570	आम - 1, कटोरी - 2, खमेर - 1, खसी - 1, बेर - 1, महुआ - 1, लेडिया - 17, साजा - 2, सेमर - 1 हरी - 11
		57	0.480	0.480	कौआ - 1, खमेर - 4, जामुन - 1, बबूल - 2, बेर - 1
		78	0.200	0.200	जामुन - 1, हरी - 1
37	<p>गनसीबाई पिता सुन्दर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/3 भाग जमनी बाई बेवा सुन्दर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. 1/3 ओझन पिता सुन्दर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र.</p>	14	0.610	0.610	आम - 1, बेर - 2, बबूल - 1
		18	0.650	0.650	खमेर - 2, बबूल - 6, बेर - 32
योग :-			115.870	104.370	

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वर्वस्थापन के लिए संभावित कुटुंब की संख्या 0 है जिनके लिए पुनर्वर्वस्थापन के लिए क्षेत्र चिह्नित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

**ग्राम—मुदिया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. ०९ रकवा 27.39 है।**

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक-६९/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:-

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कंडिका-१ में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निवाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्वर्वस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्वर्वस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्वर्वस्थापित जन समुदाय स्वयं में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
  - 11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
  - 11.2. सभी पुनर्वर्वस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्वर्वस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
  - 11.3 वास्तविक पुनर्वर्वस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
  - 11.4 भारत सरकार द्वारा विहित भानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
  - 11.5 उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
  - 11.6 यथेचित पंचायत घर।
  - 11.7 जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कबिस्तान या शवदाह गृह
  - 11.8 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
  - 11.9 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
  - 11.10 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
  - 11.11 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
  - 11.12 बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
  - 11.13 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
  - 11.14 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
  - 11.15 प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।
  - 12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।
  - 13. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि म.प्र. शासन नर्मदा विकाश प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष पुरुषकार (पैकेज) की घोषणा की जाती है तो उसे मान्य कर लागू किया जाएगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in), पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-06-(अ-82)2023-24-760

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची - 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिंडौरी	शहपुरा	मरवारी रैयत प.ह. नं. 107	62.830 हेक्ट.	98	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	62.830 हेक्ट.		

### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	प्रभावित खातेदार (कृषक) का नाम	खसरा न०	कुल रकवा (हेक्ट. में)	अर्जन का रकवा (हेक्ट. में)	घरिसम्पतियों का विवरण	कूलों का विवरण
1	केशव सिंह, मदन सिंह, कमलसिंह, महेन्द्रसिंह पिता कल्याण सिंह, दिवारिया विधवा कल्याण सिंह, दुरपा जाति गोड पता सा. देह भूमि स्वामी, ओमकार नाबालिंग पिता राजाराम जाति बलि महेन्द्रसिंह पिता कल्याण सिंह दिवारिया विधवा कल्याण सिंह दुरपा भूमि स्वामी, देवीसिंह मंगलसिंह पिता गोरेलाल पिता कल्याणसिंह दिवारिया विधवा कल्याण सिंह, दुरपा जाति गोड पता सा. देह भूमि स्वामी	7	0.380	0.380	-	उमर - 1
2	शीशी बाई बेवा रामा जाति ढीमर पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग, धनी बाई पति जगत जाति ढीमर पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग, भगवनिया पुत्री मुकेश पिता जगत जाति ढीमर पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग, भगवनिया पिता रामा जाति ढीमर पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग, प्रेमलाल पिता रामा जाति ढीमर पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग, भगवनिया पुत्री रामा जाति ढीमर पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग भू-राजस्व	488	0.060	0.060	-	-
3	योगेशनाथ पिता पीतमनाथ जाति ब्राह्मण पता	584	0.990	0.990	-	-

4	झुम्माबाई पिता मोतीसिंह जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र.	471	0.280	0.280		
5	इन्द्रसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति गोंड पता शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, प्रताप पिता गिरवर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, लीला पुत्री गिरवर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, बुद्धीबाई बेवा गिरवर जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, अवधेस पुत्र गिरवरसिंह जाति गोंड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, राजाराम पुत्र गिरवरसिंह जाति गोंड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, रामकुमार पुत्र तूलसिंह जाति गोंड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, बत्तीबाई पति गिरवरसिंह जाति गोंड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	442	0.090	0.090		बेर - 2
6	बसंती बेवा जियालाल जाति गोंड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी	652	0.480	0.480		उमर - 5, छिवला - 2, तेन्दु - 1, नीम - 1, रेला - 4
11		655	0.550	0.550		उमर - 1, गंजी - 1, छिवला - 14, तेन्दु - 9, नीम - 2, मेदा - 1, लेडिया - 5
7	बसंती पति जियालाल जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, लालवतीबाई पिता ननकू जाति गोंड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, (कब्जेदार का घर- भगवत सिंह पिता हिरया सिंह)	447	0.300	0.300	कच्चा मकान - 1, पक्का मन्दिर - 3	आम - 11, उमर - 65, केवलार - 1, खमेर - 10, खसी - 1, गंजी - 6, गुलमोहर - 1, छिवला - 2, जामुन - 26, नीम - 1, पीपल - 2, बकायन - 1, बबूल - 7, बेल - 6, मुंडी - 47, मुनगा - 16, मेदा - 2, रेला - 2, लेडिया - 24, शीशम - 3, शोबधुल - 3, सरई - 1, सहरुया - 3, सागोन - 9, साजा - 1, सालेय - 1, सीताफल - 1, सेमर - 1, हुड्या - 1
8	बुद्ध पिता हरिया चमरिन पुत्री हरिया गुलाबी पिता हरिया जाति ढीमर पता डिंडौरी	596	0.490	0.490		खमेर - 1, नीम - 2, बेलवा - 1, लेडिया - 7, सीताफल - 3, हर्दा - 1

9	बुद्ध पिता फृन्दीलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग भूमि-स्वामी फूलचंद पिता सुखलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	414	1.440	1.000		
	भाग सुन्दरलाल पिता सुखलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग चमरिन बेवा छविलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग रामलाल पिता छविलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग सोमलाल पिता सुखलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग हीरालाल पिता छविलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग गुलाबा बाई बेवा सुखलाल पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	593	0.500	0.500		खंडेर - 1, छियला - 1, जामुन - 1, नीम - 2, महुआ - 2, लेडिया - 7
10	बुद्ध पिता गोकल जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	470/3	0.110	0.110		छियला - 1
11	कमल पिता देवी जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, गणेश लाल पिता देवीलाल जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, रमेश पिता देवीलाल जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, रातोबाई पति देवीलाल जाति ढीमर पता मरवारी	423	1.040	0.080		
12	फूलमती पिता भादू, जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, कौशिल्या पिता भादू, जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी बुद्धलाल पिता भादू जाति ढीमर पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, रत्नलाल पिता भादू जाति ढीमर पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	418/1 443/1 583 582	0.670 0.130 1.000 0.510	0.670 0.130 1.000 0.510		आम - 2, उमर - 1, जामुन - 1, नीम - 2, बदूल - 1, महुआ - 2, लेडिया - 12, हरा - 5
13	मंगल पिता पंनकू जाति ढीमर पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	418/2 443/2	0.660 0.130	0.660 0.130		
14	सुखदेव पिता रामस्वरूप, लोकेन्द्र पिता रामस्वरूप, जननीबाई पति रामस्वरूप जाति ढीमर पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	418/3 443/3	0.660 0.140	0.660 0.140		
15	कोताबाई बेवा काशीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, जयसिंह पिता काशीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, सुनराम पिता काशीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, गोपती पिता काशीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, रत्नराम पिता काशीराम जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	417	0.600	0.600		हरा - 1
16	कान्ताराम पिता प्रहलाल जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, जामवती बेवा प्रहलाद जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	611/1	1.000	1.000		गंजी - 1, नीबू - 1, नीम - 3, लेडिया - 3, हरा - 1
17	केशव सिंह पिता कल्याणसिंह जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	441 420 452	1.120 0.150 0.760	1.120 0.150 0.760		उमर - 30, छियला - 1, पीपल - 1, बदूल - 6, सेमर - 1, सुखा - 1, गंजी - 1, बेर - 3

18	मनिया पिता रनू जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र.	585	0.350	0.350		
		605	1.310	1.310		उमर - 1, छियला - 5, नीम - 3, महुआ - 1, लेडिया - 9, साजा - 1, हर्ता - 1
		613/1	0.260	0.260		आम- 2, अमेर - 1, बबूल - 2, घेर - 7, सेमर - 2
19	मनिया पिता रनमत जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी मू-राजस्व 2.72	9	1.310	1.310		आम - 1, उमर - 1, बबूल - 1, हर्ता - 2
20	महंतसिंह पिता पनकू जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	649	0.400	0.400		आम - 2, जानुन- 1, सीताफल - 6, सेमर - 2, हर्ता - 2
		608	2.000	0.050		
21	मातृ पिता शिवसम जाति अहीर पता डिंडोरी म.प्र.	603/1	1.280	1.280		छियला - 5, नीम - 2, साजा - 1, हर्ता - 4
22	मानसिंह पिता दादूलाल जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मानिक दास पिता दादूलाल जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	589	1.000	0.600		छियला - 5, महुआ - 1, लेडिया - 3, हर्ता - 1
23	मेहदी बाई पुत्री रावण जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, कुम्हारी बाई पुत्री रावण जाति गोड पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मोहबती पुत्री रावण जाति गोड पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, सोनवती पुत्री रावण जाति गोड पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, राजकुमार पिता रावण जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, अक्षय कुमार पिता रावण जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मेलसिंह पिता रावण जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	595	1.310	1.310		गंजी - 1, छियला - 24, बबूल - 17, घेर - 1, लेडिया - 76, शोबबुल - 2, हर्ता - 3
24	मनोहर पिता केहर जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	449	0.460	0.460		बबूल - 1
		489	0.150	0.150		
		606	0.100	0.100		
25	मन्ना पिता समलू जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, होवन पिता समलू जाति गोड पता मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	470/4	0.100	0.100		
26	मल्लीबोई पिता चूरामन जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र.	613/2	0.260	0.260		
		487	2.010	2.010		अमरुद - 1, उमर - 1, छियला - 5, जानुन - 2, नीम - 3, बबूल - 2, घरगौ - 2, महानीम - 1, मेदा - 1, साजा - 1, हर्ता - 1

27	हीरा पिता चैतु पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, बद्दू पिता चैतु पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, लल्लू पिता चैतु पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	438	0.100	0.100		
28	भगवत पिता बूगला पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, जग्गुलाल पिता बूगला पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मुन्नालाल पिता बूगला पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, सुमरन पिता बूगला पता शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	440	0.160	0.160		उमर - 2
		422	0.740	0.200		गंजी - 1
29	परसू नाबालिंग पिता गोविन्द सरक्षक अमरिता जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, अमरतिया बेवा गोविन्द जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, कमला बाई पति महेन्द्र जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	602	1.020	0.330		
30	पुहुपदास पिता चमरा जाति पनिका पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	609/1	0.380	0.150		
31	पुहुपदास पिता चमरा जाति गोड पता सा. देह सेवा खोतादार ग्राम नौकर भू-राजस्व 0.84	457	3.570	3.570		उमर - 26, केकई - 1, खमेर - 1, गंजी - 4, गंदरी - 13, छियला - 15, जामुन - 1, दोन्दु - 5, दस्यन - 1, नीम - 6, बबूल - 12, बरगा - 47, बेर - 3, रेला - 23, रोरी - 81, लेडिया - 2, शीशम - 1 शोब्बुल - 36, सल्डा - 107, साजा - 3, सालेय - 2, सजी - 2, सेमर - 4, हुड्या - 1
32	प्रेमसिंह पिता नन्हा जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, कुम्हारसिंह पिता नन्हासिंह जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, ग्रलपत पिता नन्हा जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, प्रेमवती पुत्री नन्हा जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, सगनीबाई पति सोनसिंह जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, पहल सिंह पिता सोनसिंह जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मोहनसिंह पिता सोनसिंह जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, धनिराम पिता विशाल जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, फगुवा पिता मुलैया जाति गोड मरवारी रैयत डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, ललिया पुत्री थानी जाति गोड मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, पहलवती पिता सोनसिंह जाति गोड शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, छरकू पिता मुलैया जाति गोड शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, समरिया पिता थानी जाति गोड शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	622	1.110	1.110		छियला - 2, नीम - 2, बेर - 1, शीशम - 1

33	प्रेमसिंह पिता गुहरा जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, रामकुमार पिता गुहरा जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, सियाबाई पुत्री गुहरा जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	475	0.220	0.060		नीम - 2
		468	0.400	0.220		आम - 1, छियला - 1, बबूल - 1, नीम - 1
34	रामकुमार पिता सहजान जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र.	454	0.730	0.730		खमेर - 1, सीताफल - 1, शोबबुल - 1
35	समरसिंह पिता मातादीन जाति गोड, रामकली पुत्री मातदीन जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र.	639	0.050	0.050		नीम - 3, बेर - 1, बेदा - 2
		638	0.060	0.060		छियला - 1, नीम - 1, रेला - 3
		640	1.510	1.510		छियला - 12, नीम - 6, लेडिया - 4, सफेद सिरस - 8, सीताफल - 2, हरा - 2
36	समरसिंह पिता धैलू जाति पनिका पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र.	542	0.070	0.040		
37	सोनसिंह, आनन्दसिंह पिता हरिसिंह जाति गोड अघनू अष्टसिंह, मंगलसिंह पिता तीतू सिंह जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र.	651	0.330	0.330		शोबबुल - 1, हरा - 1
38	सोनू पिता जेटू जाति पनिका पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, पीतनदास पिता नेवजा जाति पनिका पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	610	0.350	0.350		गंजी - 1, छियला - 2, बबूल - 1, महुआ - 1, हरा - 2
39	सुमनबाई बेवा धरमसिंह जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, रमेश पिता बाबूलाल जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, कमलेश पिता बाबूलाल जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, रामबाई पिता बाबूलाल जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, अमरित पिता बाबूलाल जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	472	0.200	0.200		रेला - 2, हरा - 1
40	सुनारनबाई बेवा आशाराम जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भन्मि स्वामी सुरेश पिता आशाराम गोड जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, नरेश पिता आशाराम जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, सतीस पिता आशाराम जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, शिवकुमार पिता आशाराम जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	474	1.610	1.610		छियला - 3, तेन्दु - 1, नीम - 3, बबूल - 1, बेर - 2, लेडिया - 1, हरा - 3
		453	1.030	1.030		बेर - 1
41	सुन्दरी बाई बेवा नोहर सिंह जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, राजकुमार पिता नोहरसिंह जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, महतसिंह पिता सुखराम जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, महली बेवा सुखराम जाति गोड पता मरवारी रैयत शहपुरा डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	541	0.030	0.030		
		538	0.110	0.110		
		624	0.010	0.010		

42	दुष्यान्त पिता विजयपाल जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	603/2	0.790	0.600		लेडिया - 4, हर्षा - 3
43	दुर्लपसिंह पिता अमला जाति गोंड पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	470/1	0.110	0.110		छिवला - 2
44	देवीसिंह पिता गोरेलाल जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र.	419	2.210	2.210		बगूल - 4
45	देववती पिता परसूराम जाति गोंड पता मरवारी शहपुरा डिण्डोरी म.प्र.	617	0.670	0.670		खमर - 1, बगूल - 1, बेर - 6, मेदा - 2, शोबधुल - 3, हर्षा - 1
46	चमलदास पिता तितरु जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, धोबी दास पिता तितरु जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी	616	0.440	0.440		अमरुद - 1, छिवला - 9, जामुन - 1, तेन्दु - 14, नीम - 3, बांस - 1 भीरा मेहंदी - 1, रेला - 2, लेडिया - 7, सफेद सिरस - 1, सेमर - 2, हर्षा - 5
47	चमनिया पुत्री गुहरु जाति गोंड सुग्रीम पिता मोहन जाति गोंड	648/1	1.350	1.350		
48	चैतू सबनू मूलैयया पिता दूलिया जाति गोंड	621	0.970	0.970		
49	फागू पिता सबनू जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग चिल्लू पिता सबनू जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग कतरनी पिता सबनू जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग शंकर पिता सबनू जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग भुड़की बेवा सबनू जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग बुधवरिया पुत्री सबनू जाति ढीमर पता मरवारी शहपुरा डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी, भाग	445	0.170	0.170		उमर - 1, गंदी - 1, घाटा - 24, छिवला - 9, जामुन - 1, तिनसा - 10, तेन्दु - 20, नीम - 1, पड़री - 1, बेर - 9, येल - 2, महानीम - 5, अहिला - 1, मेदा - 2, रेला - 11, लेडिया - 26, शीशम - 1, शोबधुल - 8, सफरी - 1, साजा - 9, सालेय - 5, सेमर - 3, हंडुया - 4, हर्षा - 2
50	फुलसिंह पिता बली जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र.	580/1	2.100	2.100		

51	फूलबसिया बेवा गुहा जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, बुद्ध पिता गुहा जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी,	463	1.740	0.240		
52	जवाहर पिता दांदी जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी	594	0.100	0.100		छिवला - 5, नीम - 1, लेडिया - 9, हर्ता - 3
		611/2	0.280	0.280		
		614	0.300	0.300		जामुन - 1, लेडिया - 1
53	जवाहर सिंह पिता धरमसिंह जाति गोड	650	1.210	1.210		छियला - 3, जामुन - 1, बेर - 2, लेडिया - 1, हर्ता - 2
		654	1.000	0.600		उमर - 1, केकर - 1, छिवला - 14, तेन्दु - 9, नीम - 2, मेदा - 1, लेडिया - 5
54	नरेन्द्र पिता गुवला जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र.	437	0.510	0.510		
		436	0.600	0.600		इमली - 1
		461	0.110	0.110		
		618	0.320	0.320		खमर - 1, छिवला - 1, जामुन - 1, बबूल - 20, मेहंदी - 1, साजा - 1
		473	0.770	0.770		आम - 1
55	नरेन्द्रसिंह पिता हुल्करसिंह जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भूमि स्वामी कोमलसिंह पिता हुल्करसिंह जाति गोड पता डिंडौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.36	8	1.300	0.300		उमर - 1, जामुन - 10, बबूल - 1
		338	2.310	0.340		
		612	0.150	0.150		
56	अरविन्दनाथ पिता प्रीतमनाथ जाति गोड पता डिंडौरी भूमि स्वामी	615	2.650	2.650		आम - 2, छिवला - 2, नीम - 1, पीपल - 2, बबूल - 31, बांस - 1 भीरा बेर - 1, रेता - 1, शीबबूल - 1, सीताफल - 8, हर्ता - 9
		620	0.380	0.380		
		623	1.410	1.410		आम - 1, गंजी - 1, बबूल - 1, बेर - 1, महुआ - 2, सेमर - 1, हर्ता -
		539	0.380	0.250		5

59	लामूसिंह पिता समनसिंह जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र.	580/2	2.110	2.000	उमर - 5, केकर - 2, घाटा - 2, चार - 4, छिवला - 6, तिनसा - 15, तेन्दु - 20, नीम - 1, बीजा - 3, बेल - 8, बेदा - 1, रेला - 10, लेडिया - 57, सहरुवा - 2, सेमर - 1, हडुवा - 1, हर्ता - 1,
60	लालसिंह पिता गंगासिंह जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, भगवान सिंह पिता गंगासिंह जाति गोड पता मरवारी शहपुरा डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	470/2	0.100	0.100	छिवला - 2
		10	1.300	1.300	आम - 1
		413	1.850	0.160	
61	लालसिंह पिता गंगासिंह जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, दलसिंह पिता गंगासिंह जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, मंगल पिता रामलाल जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, ललमी पिता ननक जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, अमरु पिता रामलाल जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	587	1.390	1.390	छिवला - 1, तेन्दु - 1, नीम - 3, बेर - 1, लेडिया - 37, हर्ता - 3
		625	0.740	0.740	नीम - 3, मेहंदी - 1, शीशम - 1, हर्ता - 1
		540	1.170	1.000	
62	सुमा पिता सम्पत जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	588/1	0.470	0.350	
63	सुनिया पिता सम्पत जाति गोड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	588/2	0.480		
64	पीतमदास पिता नवला पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी (म० प्र० शासन)	469		पक्का मकान - 2 कच्चा मकान - 1 पक्का मन्दिर - 1	
65	सुनील पिता गणेश दास पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी (म० प्र० शासन)			कच्चा मकान - 1 पक्का मंदिर - 1	
66	बिरसा पिता धोकल पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी (म० प्र० शासन)	448		पक्का मकान - 1	
<b>कुल योग :-</b>			<b>76.170</b>	<b>62.830</b>	

(2) उपरोक्त घोशणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के प्रचात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुंब की संख्या 02 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिह्नित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

ग्राम—मुढ़िया कला रा.नि.सं. भावपुर तहसील डिण्डौरी की आराजी नं. ०९ रकवा 27.30 है।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक—69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:-

1. प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पर जुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार ‘पुनर्व्यवस्थापन भत्ता’ दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप भुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
  - 11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जाएंगी।
  - 11.2. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
  - 11.3. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निश्चादित की जाएं।
  - 11.4. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
  - 11.5. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
  - 11.6. यथेचित पंचायत घर।
  - 11.7. जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर क्रिस्तान या भायदाह गृह
  - 11.8. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
  - 11.9. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
  - 11.10. शिशु और माता को पूरक पोशाणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
  - 11.11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
  - 11.12. बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
  - 11.13. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
  - 11.14. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
  - 11.15. प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।
  12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।
  13. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि म.प्र. शासन नर्मदा विकाश प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष पुरुषकार (पैकेज) की घोषणा की जाती है तो उसे मान्य कर लागू किया जाएगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in), पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-07-(अ-82)2023-24-762

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची नम्बर (4) में वर्णित प्रमावित कृषकों की भूमि, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची - 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रमावित परिवारों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिंडोरी	डिंडोरी	घुसिया माल प.ह. नं. 28	72.850 हेक्ट.	104	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
<b>कुल</b>			<b>72.850 हेक्ट.</b>		

### अनुसूची - 2 (प्रमावित धारकों की सूची)

क्रमांक	प्रमावित खातेदार (कृषक) का नाम	खासरा न०	कुल रक्षा (हेक्ट. में)	अर्जन का रक्षा (हेक्ट. में)	परिसम्पत्तियों का विवरण	बृक्षों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रामगनेश पिता सुकसेन, हिरलियाबाई पिता सुकसेन, लोचनप्रसाद पिता सुकसेन, अहिल्या पिता सुकसेन, शोभितलाल पिता घुणझू, गंगालाल पिता घुणझू, अधारी पिता घुणझू, केशूलाल पिता घुणझू, जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	307	0.100	0.100	-	लिप्टिस-19, खान्देर-3, सोबबूल-2,
		315	0.130	0.130	-	लिप्टिस-7, सोबबूल-1
		323	0.710	0.630	-	जामुन-1
		336	0.370	0.370	-	जामुन-1
		338	0.400	0.400	-	आम-1
		349	0.270	0.270	-	बबूल-2,
2	बुद्धलाल पिता झगलू, बुद्धीबाई पिता झगलू, गालोबाई पिता झगलू, दोपती पिता झगलू, फूलमती पिता झगलू, गुहरा पिता झगलू, जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	413	0.360	0.360	-	-
3	बजराबाई बेवा सुबला पता डिंडोरी म.प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	319	0.670	0.670	-	जामुन-1, बबूल-1, बेर-10,
		304	0.510	0.510	-	बबूल-2, बेर-3, महुआ-1, नीम-2, लेडिया-5, आम-1, जामुन-1

4	बजागी पिता दीवार सुंदिया पिता दीवार इंदिया पिता दीवार पता डिंडोर म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	335	1.060	1.060	-	बबूल-4, बेर-1, खन्हेर-2, सोबबूल-1
		1624	0.750	0.750	-	बबूल-6, उमर-1
5	बल्लमसिंह, भागवती, इन्द्रा पिता अगरू जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग	300	0.840	0.840	-	बबूल-10, बेर-2, मिलवा-1, छिवला-1, साजा-1 सोबबूल-2, नीम-1, उमर-1, आम-1, जामुन-1
		303	0.620	0.620	-	सेमर-1, बबूल-4, अमरतास-1
		325	0.950	0.950	-	बबूल-1, नीम-1, खन्हेर-1
		356	1.650	1.650	-	बबूल-2, खन्हेर-1, हरा-1, लेडिया-4
		231	0.590	0.590	-	लेडिया-8, जामुन-3, महुआ-1
6	महेश पिता सम्पत, लम्बू गुडडी पिता संपत, कलरा, महतिन पिता फूलसिंह जाति ढीमर पता डिंडोर म.प्र. 1/5 भाग	316	0.140	0.140	-	बबूल-6
		337	0.360	0.360	-	जामुन-2
		285	0.710	0.610	-	सीझी-3, जामुन-1, पीपल-1, नीम-1
		346	0.270	0.270	-	-
		305	0.840	0.840	-	बबूल-15, बेर-1, लिटिस-11, साजा-2 सोबबूल-3, उमर-1, खन्हेर-2
7	मंगल पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	341/4	0.130	0.130	-	-
		317/4	0.210	0.210	-	-
8	मुलरियाबाई बेवा हम्मीलाल, मंगलियाबाई बेवा हम्मीलाल, हीरालाल पिता हम्मीलाल, टाटाबाई पिता हम्मीलाल, कलाबाई पिता हम्मीलाल, बेलाबाई पिता हम्मीलाल, पुसलाबाई पिता हम्मीलाल, मीराबाई पिता हम्मीलाल जाति गोंड पता डिंडोरी	345	0.140	0.140	-	-
		308	0.100	0.100	-	लिटिस-3, खन्हेर-1, बबूल-4, बेर-2, सोबबूल-1
		318	0.230	0.230	-	सजा-1
		322	0.700	0.700	-	-
		348	0.320	0.320	-	उमर-1, बबूल-1
		312	0.110	0.110	-	लिटिस-12, बबूल-2

9	किसन पिता टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी, द्वोपती पिता टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी, दुजिया पिता टीकाराम जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	421	8.370	1.150	-	धूला-2, हर्रा-1, साजा-4, बबूल-1, नीम-2, उमर-2, लेडिया-2, जामुन-1, छिउला-1, केकर-1, रोरी-1
10	मिठू पिता बोरा पता डिंडोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	324	1.830	1.830	-	नीम-1, उमर-1, खम्हेर-2, बबूल-4,
11	शिवराज पिता मंगलू, गेंदसिंह पिता मंगलू, मुकेश पिता शंकर, लामू पिता शंकर परशोत्तम, पिता शंकर, दिजय पिता शंकर, गंदिया पिता मंगलू जाति गोंड पता डिंडोरी भूमि स्वामी	416	0.690	0.690	-	-
12	दिनेशकुमार पिता मूलचन्द जैन पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	357	1.630	1.630	-	बबूल-3, लेडिया-5
13	दिगम्बर पिता बजारी जाति गोंड पता डिंडोरी भूमि स्वामी	401	0.450	0.450	-	-
14	चिम्माबाई बेवा जीवन, रतनलाल पिता जीवन हरीसिंह पिता हरीसिंह पतिलाल पिता हरीसिंह फूलचंद पिता कंधी रज्जू पिता कंधी जाति बादी पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	353	0.780	0.780	-	छिउला-2, बबूल-2, बेर-2
15	तिर्या पिता सुन्दर लाल, कलारिन पिता सुन्दरलाल, आंधीबाई पिता सुन्दरलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	359	0.310	0.310	-	लेडिया-2
16	हलीमउददीन पिता नसीरउददीन जाति मोमिन पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	354	0.650	0.650	-	सोबबूल-2, खम्हेर-1, उमर-1, पीपल-1
17	हेमाबाई पिता लक्ष्मन जाति गोंड पता डिंडोरी	410/2	2.000	2.000	-	सजा-16
18	भंवरसिंह पिता रामसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी	422	3.880	1.780	-	साजा-1, जामुन-1, लेडिया-2, हर्रा-1, खम्हेर-1, धूला-2, किकरा-1, रोरी-1
19	परमू पिता भूरसा जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, रामचरण पिता भूरसा जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, पत्तिबाई पिता भूरसा पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, लग्नीबाई पिता भूरसा पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, शान्तीबाई पिता भूरसा जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, जठियाबाई पिता भूरसा पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, परनिया पिता भूरसा पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, गुपतीबाई पिता भूरसा पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, हरिचन्द्र पिता रामू पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	314	0.120	0.120	-	लिटिस-1, बबूल-1
		321	1.590	1.590	-	नीम-1, तिनसा-1, जामुन-2,
		342	0.140	0.140	-	-
20	भगवत पिता लक्ष्मन जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व	425	4.240	1.950	-	साजा-4, लेडिया-3, धूला-1, हर्रा-4, छिउला-1
21	भगलीबाई बेवा बैगा जाति ढीमर पता धुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी बिराजोबाई पिता बैगा जाति ढीमर पता धुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	317/1	0.180	0.180	-	बबूल-2, साजा-3, जामुन-1
		341/1	0.140	0.140	-	-

22	पोहपसिंह पिता प्रयागसिंह, दलपत पिता प्रयागसिंह, गनशिया पिता प्रयागसिंह, कतवरिया पिता दलसिंह, लकमेश पिता केहर सिंह, बत्तीबाई पिता केहर सिंह जाति गोंड पता डिंडोरी	410/1	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	-	बबूल-1, साजा-15, लेडिया-9, जामुन-2, तेचू-15, बास-2 भीरा, छिउला-4, वेर-2, वेल-3
23	रामवती पिता सुखलाल, प्रेमवती पिता सुखलाल जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	404	<b>1.610</b>	<b>1.210</b>	-	नीम-1,
24	रत्नू पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	341/3 317/3	<b>0.130</b> <b>0.170</b>	<b>0.130</b> <b>0.170</b>	-	बबूल-2, साजा-2, लिपिस-17
25	संतराम पिता हरीलाल, बरदूलाल पिता हरीलाल, बुद्धीबाई पिता हरीलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी,	306 330 343	<b>0.220</b> <b>0.600</b> <b>0.140</b>	<b>0.220</b> <b>0.600</b> <b>0.140</b>	-	बबूल-1, उमर-1, आम-3, लिपिस-3 बबूल-22, खम्हेर-14, नीम-4, महुआ-1, साजा-4, वेर-2
26	समारु पिता कल्ला जाति ढीमर पता निवासी डिंडोरी म.प्र.	298	<b>0.060</b>	<b>0.060</b>	-	-
27	समारु, सम्हर पिता हरीदीन, फगनी बेवा हरीदीन जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	408 412	<b>1.650</b> <b>0.290</b>	<b>1.650</b> <b>0.200</b>	-	सोबबूल-2, उमर-1, आम-1, हरा-1 धवा-1, इमली-1, नीम-1
28	सुक्को बेवा कलुवा सोमती पिता कलुवा गोमती पिता कलुवा शांति पिता कलुवा गंगा पिता केहर जोहर पिता गोदू सेवा पिता जोहर पंचम पिता जोहर ननसू पिता गोदू पता डिंडोरी म.प्र.	309	<b>0.870</b>	<b>0.870</b>	-	खम्हेर-1, बबूल-2,
29	सुन्दरिया बेवा दालचंद बिहारी पिता दालचंद पीतम पिता दालचंद बलराम पिता दालचंद मुकेश पिता दालचंद कुसुमवती पिता दालचंद जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	313 339	<b>0.130</b> <b>0.360</b>	<b>0.130</b> <b>0.360</b>	-	-
30	सुन्दरिया पल्लि रामचंद्र जाति गोंड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, सम्हरसिंह पिता रामचंद्र जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	414/1	<b>0.690</b>	<b>0.690</b>	-	-
31	बलवनसिंह पिता रामचंद्र पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	414/2	<b>0.700</b>	<b>0.700</b>	-	-
32	समलिया बेवा डुमारी जाति ढीमर पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, तिहारु पिता डुमारी पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, हेमवती पिता डुमारी पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, मंगली पिता डुमारी जाति ढीमर पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, चमरु पिता परम्पू पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी	355	<b>0.800</b>	<b>0.800</b>	-	छिउला-2, बबूल-1, लेडिया-2, नीम-1
33	दददू पिता पनिका जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. धैनाबाई पिता पनिका जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग	286 311 347	<b>0.710</b> <b>0.830</b> <b>0.320</b>	<b>0.620</b> <b>0.830</b> <b>0.320</b>	-	महुआ-1, बबूल-3,

34	यशवत पिता दुरपत जाति गोंड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, सुगन्धि पिता दुरपत जाति गोंड पता डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, गंगोत्री पिता दुरपत जाति गोंड पता घुसिया माल डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, सावित्री पिता दुरपत जाति गोंड पता घुसिया माल डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, चम्पाबाई पिता हन्तु जाति गोंड पता घुसिया माल डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, टोपेंद्र नाबालिंग पिता हन्तु सरकाक हन्तु जाति गोंड जाति गोंड पता घुसिया माल डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, धर्मन्द्र नाबालिंग पिता हन्तु संरक्षक हन्तु जाति गोंड जाति गोंड पता घुसिया माल डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी, मातेश्वरी पिता हुलकर जाति गोंड जाति गोंड पता घुसिया माल डिण्डौरी म.प्र. भूमि स्वामी,	406	0.400	0.300	-	लेडिया-2
35	छत्तरसिंह पिता ननसा जाति गोंड पता डिडोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	310	0.680	0.680	-	-
36	दलपत पिता रामा, श्यामवती पिता रामा, महतिन पिता रामा, पता डिडोरी म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 भाग	361	1.200	1.200	-	आम-2, हर्ष-1, लेडिया-4, बबूल-1
37	चम्रु पिता कुंवरसिंह, चमरिन, शीला, समकुमारी, डोमन, अमरित पिता कुंवरसिंह जाति ढीमर पता डिण्डोरी म.प्र. 1/6 भूमि स्वामी	296	0.450	0.450	-	बासं-1 भीरा, जामुन-1
		326	0.790	0.790	-	उमर-2, बेर-3, बबूल-4, खम्हेर-3, पीपल-1
38	चम्मू पिता मोतीलाल जाति ढीमर पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी	297/1	0.130	0.130	-	बबूल-2, लेडिया-4, खम्हेर-13, सोबबूल-2, बासं-1 भीरा, जामुन-2
39	फूलचन्द पिता अनूपसिंह जाति ढीमर पता डिण्डोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी हल्कू पिता अनूपसिंह जाति ढीमर पता डिण्डोरी म.प्र. 1/2 भाग	328	0.350	0.350	-	खम्हेर-9, नीम-1, आम-1, महुआ-1, जामुन-1
		340	0.400	0.400	-	खम्हेर-1, बेर-2, महुआ-4, जामुन-1
		344	0.130	0.130	-	-
40	जगत, धरम, उत्तम पिता हीरालाल पता डिण्डोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	297/3	0.120	0.120	-	-
41	नरबदिया बाई बेवा सम्पत उर्फ सिरपत कोमलसिंह पिता सम्पत उर्फ सिरपत कमलीबाई पिता सम्पत उर्फ सिरपत जाति गोंड 1/3 भाग भूमि स्वामी	329	0.980	0.980	-	आम-5, बबूल-6,
42	ननसू पिता रामा जाति ढीमर भूमि स्वामी	341/2	0.140	0.140	-	-
		317/2	0.140	0.140	-	बबूल-1, महुआ-1
43	टहलसिंह पिता लोकसिंह जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	407	1.400	1.400	-	बबूल-2, नीम-1, हर्ष-2, छिउला-2
44	ओमकार, गेंदसिंह, सावित्री पिता दरबर जाति गोंड पता डिण्डोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	295	1.040	0.550	-	खम्हेर-1, आम-5, हर्ष-1, जामुन-1, नीम-1

45	अश्वन पिता जयसिंह जाति गोड पता डिंडोरी	424	4.280	2.350	-	साजा-1, जामुन-2, लेडिया-1, धूला-1, उमर-4, रोरी-1, हर्रा-3, छिउला-1, सेमर-1, पिपल-1, नीम-1
46	अनूप पिता मुल्लू जाति गोड पता डिंडोरी	362/3	0.720	0.720	-	-
47	अनूप पिता हजारी राकेश पिता हजारी रामकली बेवा हजारी जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग भूमि स्वामी	352	0.750	0.750	-	-
48	गोविन्द, चन्द्रभान पिता शोभित, ललिया बेवा शोभित पता डिंडोरी म.प्र. 1/3 भाग	350	0.560	0.560	-	उमर-3
49	फूलबाई पिता कमलूलाल जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	320	1.000	1.000	-	सेमर-1, लेडिया-4, महुआ-1 , पीपल-1, बबूल-2, साजा-2, आम-1, जामुन-2, खम्हेर-2
50	गुहक पिता नानसी पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	332	2.290	2.290	-	बबूल-10, खम्हेर-1, जामुन-2, बेर-1
51	गुलाव पिता ननसी पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	333	2.300	2.300	-	-
		334	0.850	0.850	-	-
52	गुल्ला पिता समारू पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	351	1.050	1.050	-	बबूल-2, उमर-2
53	गेन्दसिंह पिता दरवर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	360	1.200	1.050	-	लेडिया-2
54	लखन, रुपा, भगवन्ता, नरबदिया, लीला, भगवनिया पिता बजारी जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	297/2	0.120	0.120	-	-
55	लोकसिंह पिता किशन पता डिंडोरी म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	417	2.140	2.140	-	-
		420	3.920	3.920	-	सेमर-1, रोरी-1, धूला-1, कंजी-1, हर्रा-3, साजा-2, उमर-1, जामुन-3, तिनसा-3
56	भगलीबाई बेवा बैगा जाति ढीमर पता धुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी विराजोबाई पिता बैगा जाति ढीमर पता धुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	232/1	0.400	0.750	-	महुआ-2, लेडिया-4, खम्हेर-1
57	ननसू पिता रामा जाति ढीमर म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	232/2	0.400		-	महुआ-1, खम्हेर-1
58	रत्नू पिता रामा जाति ढीमर म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	232/3	0.400		-	नीम-1, लेडिया-1
59	भंगल पिता रामा जाति ढीमर म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	232/4	0.400		-	तेन्दू-1, लेडिया-1
60	भगलीबाई बेवा बैगा जाति ढीमर पता धुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी, विराजोबाई पिता बैगा जाति ढीमर पता धुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	232/5	0.320		-	लेडिया-2
61	ननसू पिता रामा जाति ढीमर म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	232/6	0.340		-	लेडिया-2
62	रत्नू पिता रामा जाति ढीमर म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	232/7	0.330		-	तिनसा-1, जामुन-1

63	मंगल पिता रामा जाति ढीमर म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	232/8	0.330		-	जामुन-1, लेडिया-1
64	भगलीबाई बैगा जाति ढीमर पता घुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी, बिराजोबाई पिता बैगा जाति ढीमर पता घुसिया माल डिंडोरी म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	294/1	0.270		-	नीम-2, सेमर-2
65	ननसू पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र.	294/2	0.270	0.300	-	-
66	रत्न पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र.	294/3	0.280		-	-
67	मंगल पिता रामा जाति ढीमर पता डिंडोरी म.प्र.	294/4	0.280		-	-
68	सरोज पिता रघुनाथ गुज्जा जाति बानी पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, विमला पति हीरालाल पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, अशोक पिता हीरालाल पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, आलोक पिता हीरालाल पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मनोज पिता चन्द्रिका प्रसाद पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, सुशीला पति सीताराम पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, प्रीतम पिता रघुनाथ गुज्जा जाति बानी पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, जानकी पिता रघुनाथ पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, मनीष पिता सीताराम पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी, सोनू पिता सीताराम पता डिण्डोरी म.प्र. भूमि स्वामी	327	0.920	0.920	उमर-1, बेर-1, बबूल-3, साबबूल-1, नीम-2, खम्हर-5	
69	नर्मदानंद पिता गुलजार सिंह पता घुसिया माल डिंडोरी म.प्र. (म० प्र० शासन)	301	-	-	पक्का मकान-1	-
70	देवकी पति देवलाल सुखदास पिता देवलाल पता घुसिया माल डिंडोरी म.प्र. (म० प्र० शासन)	235	-	-	पक्का मकान-1	-
71	ग्राम पंचायत घुसिया माल (म० प्र० शासन)		-	-	पक्का मकान-1	-
72	गुहरा पिता नन्द पता घुसिया माल डिंडोरी म.प्र. (म० प्र० शासन)	411	-	-	कच्चा मकान-1 मंदिर पक्का-2	-
73	बलवन पिता रामचन्द्र (म० प्र० शासन)	403	-	-	कच्चा मकान-1, मंदिर-2, चबूतरा-1	-
74	ग्राम पंचायत घुसिया माल (म० प्र० शासन)	299	-	-	कुआं-1 नग	-
योग:-			88.740	71.650		

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संमावित कुटुंब की संख्या 05 है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र चिह्नित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

ग्राम-मुदिया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिण्डोरी की आराजी नं. 00 रकवा 27.30 है।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक-69/स.अ. राजस्व/2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:-

- प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
- कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिवार्य से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
  6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार ‘पुनर्व्यवस्थापन भत्ता’ दिया जाएगा।
  8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
  9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
  10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
  11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
    - 11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
    - 11.2. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
  - 11.3. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
  - 11.4. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
  - 11.5. उचित भूम्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
  - 11.6. यथोचित पंचायत घर।
  - 11.7. जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
  - 11.8. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
  - 11.9. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
  - 11.10. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
  - 11.11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंदों के अनुसार विद्यालय।
  - 11.12. बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
  - 11.13. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
  - 11.14. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्ये पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
  - 11.15. प्रभावित परिवर्तों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।
  12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।
  13. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि म.प्र. शासन नर्मदा विकाश प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष पुरुषकार (पैकेज) की घोषणा की जाती है तो उसे मान्य कर लागू किया जाएगा।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in), पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मुण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-08-(अ-82)2023-24-761

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची नम्बर (4) में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची - 1

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	प्रभावित परिवारों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिंडोरी	डिंडोरी	घुसिया रैयत प.ह. नं. 29	19.260 हेक्ट.	25	राशवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
		कुल	19.260 हेक्ट.		

### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	प्रभावित आरोदार (कृषक) का नाम	खसरा नं	कुल रकवा (हेक्ट. में)	अर्जन का रकवा (हेक्ट. में)	परिसम्पत्तियों का विवरण	वृक्षों का विवरण
01	02	03	04	05	06	07
1	कमलवती पिता हल्कू जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	168	3.690	0.350	-	सालह-2, तिवसा-3, नीम-1
2	चन्द्रसु पिता मातृ सिंह जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	102	1.700	1.190	-	छिउला-5, हर्वा-2, जामुन-1
3	विश्राम पिता मधो जाति गोड, इन्द्रबती पति महेन्द्र जाति गोड पता डिंडोरी	106	1.870	1.870	-	हर्वा-2,
		129	0.400	0.380	-	नीम-1, हर्वा-1, कंजी-1, खम्हर-1,
4	हल्की पिता सुन्दरलाल जाति गोड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	121	1.030	1.030	-	बेर-1, लेडिया-1, मुंडी-1, तिवसा-1
5	परसूदास पिता धनसिंह जाति पनिका पता डिंडोरी म. प्र. भूमि स्वामी	105	0.120	0.120	-	छिउला-3, हर्वा-1
		131	1.290	1.260	-	हडुवा-1, खम्हर-7, रोरी-1, शिशु-3, बेर-4,
6	शैलकुमारी पिता कसतूरचन्द्र जाति बानी, सुमनलता पिता कसतूरचन्द्र, योगेता नावालिंग पिता चन्द्रभानसिंह सरक्षक मधुलता जाति बानी, मधुलता पिता कसतूरचन्द्र जाति बानी पता डिंडोरी	114	1.490	0.440	-	हर्वा-2, लेडिया-1, पलास-4, उमर-1
7	सनिया बेवा शंकर जाति अहीर पता डिंडोरी म.प्र., पंचम पिता शंकर जाति अहीर पता डिंडोरी म.प्र., चमरा पिता शंकर जाति अहीर पता डिंडोरी म.प्र., चम्पा पिता शंकर जाति अहीर पता डिंडोरी म.प्र., कलारिन पिता अमोली जाति अहीर पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	101	0.700	0.450	-	छिउला-3, हर्वा-6
		115	0.750	0.100	-	लेडिया-2, पलास-4
		120	1.690	1.690	-	बेर-2, खम्हर-4, गूलर-1, हर्वा-5, शिशु-1, साजा-1
		123	0.930	0.930	-	खम्हर-2, बेर-3,

8	सोनसिंह पिता मातादीन, मातादीन पिता रामू जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	124	2.880	2.880	कच्चा मकान-1	खम्हेर-41, गूलर-2, हडवा-3, रोरी-6, शिशू-3, अमरुद-1, उमर-3, कंजी-3, जामुन-1, नीम-3, तिवसा-3, बासं भीरा-5, पलास-5, लिटिस-1, महुआ-1, बेर-11, लेडिया-4, सालह-2, सोबबूल-69, हर्षा-5
9	तितरु सिंह पिता सुखर्ह, तिहारोबाई पिता सुखर्ह, तिवरियाबाई पिता सुखर्ह, कल्लनबाई पिता सुखर्ह, सामाबाई पिता सुखर्ह जाति गोंड पता छिन्दगांव डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	113	2.020	0.440	-	पलास-3, हर्षा-3, पीपल-1
10	सुखमतबाई पर्ती रायसिंह जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	118	1.260	1.260	-	खम्हेर-3, गूलर-1, हर्षा-2
11	सुमनलता सिंह बेवा औंमप्रकाष सिंह जाति जाट, कृपाल सिंह पिता औंमप्रकाष सिंह, रणविश्राव पिता औंमप्रकाष सिंह पता डिंडोरी म.प्र.	107	3.160	0.730	-	हर्षा-7, बबूल-2
11	सुमनलता सिंह बेवा औंमप्रकाष सिंह, रणविश्राव पिता औंमप्रकाष सिंह पता डिंडोरी म.प्र.	117	0.480	0.380	-	हर्षा-3, बबूल-2
12	दुवालसिंह पिता बजरु जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	166	4.610	0.020	-	बेर-1, खम्हेर-1
13	चूरामन पिता टिकवा जाति पनिका पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	125	0.250	0.250	-	सोबबूल-3, नीम-1, हर्षा-1
		126	1.240	1.140	-	कंजी-1, खम्हेर-1, उमर-2, हडवा-2, हर्षा-1, रोरी-2
14	चूरामन पिता रामदीन जाति पनिका पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	104	0.220	0.220	-	बेर-2, खम्हेर-3, सेमर-1
15	नारायण पिता रूपलाल जाति गोंड पता डिंडोरी, कुवर पिता रूपलाल जाति गोंड पता डिंडोरी, धनेश पिता रूपलाल जाति गोंड, पनकिन पिता रूपलाल जाति गोंड, गनपति पिता रूपलाल, जाति गोंड पता डिंडोरी, सुमा बेवा रूपलाल जाति गोंड पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	130	0.820	0.730	-	नीम-1, हर्षा-4, पलास-5 उमर-1, लेडिया-4
16	अनिल कुमार पिता भालचंद्र जाति अवधिया पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	116	2.000	0.080	-	बेर-4, खम्हेर-9,
17	गुहरु पिता लालजू जाति पनिका पता डिंडोरी सा. देह भूमि स्वामी	128	0.800	0.690	-	हडवा-1 खम्हेर-2, रोरी-1, शिशू-3, बेर-1
18	गुलाबदास पिता दुमरा जाति पनिका पता डिंडोरी म.प्र. भूमि स्वामी	103	0.630	0.630	-	छिउला-1, हर्षा-3, बेर-1
योग:-			36.030	19.260	-	

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वस्थापन के लिए संभावित कुटुंब की संख्या 01 है जिनके लिए पुनर्वस्थापन के लिए क्षेत्र चिह्नित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

**ग्राम-मुद्दिया कला रा.नि.मं. शाहपुर तहसील डिप्पडोरी की आराजी नं. ०९ रकवा 27.39 है।**

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन स्कीम आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक-69 / स.अ. राजस्व / 2024 जबलपुर दिनांक 13/05/2024 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है:-

- प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
- कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसा क्षेत्र से अनिव्या से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के आधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनियम की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्येक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं में लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- 11.1. युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- 11.2. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 11.3. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 11.4. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पैदेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 11.5. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
- 11.6. यथोचित पंचायत घर।
- 11.7. जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।
- 11.8. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन विंदु।
- 11.9. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11.10. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।
- 11.11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
- 11.12. बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र।
- 11.13. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।
- 11.14. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 11.15. प्रभावित परिवारों को जल भराव क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का अधिकार रहेगा। परन्तु इस हेतु समुचित सरकार से निहित रीति द्वारा अनुमति प्राप्त की जावेगी।
12. विस्थापित कुटुंबों को 50 वर्ग मीटर से कम नहीं का आवासीय पट्टा दिया जावेगा।
13. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि म.प्र. शासन नर्मदा विकाश प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष पुरुषकार (पैकेज) की घोषणा की जाती है तो उसे मान्य कर लागू किया जाएगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in), पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (सा०) डिप्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्ष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।